



**Utpalendu Chakraborty
Made It But Didn't**

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtadoot.com

राष्ट्रदूत

Rashtrdoot

Decoding The
Nation's Love
Affair With Tea

Make Reading
Exciting

There has been no attempt, by the NFAI and others, to make efforts to preserve the original prints of the films. So, they are not available for viewing at all.

स्मृति ईरानी होंगी, भाजपा की तरफ से दिल्ली के मु.मंत्री पद की उम्मीदवार

आप द्वारा आतिशी मारलेना को मु.मंत्री बनाने के बाद स्मृति ईरानी का नाम सबसे ऊपर है, भाजपा के मु.मंत्री के चेहरे के रूप में

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 सितम्बर। लोकसभा चुनावों में अमेठी सीट पर किशोरी लाल शर्मा के हाथों पराजित हो जाने और उसके बाद उपेक्षा का दंश झेलने के बाद, अब ऐसी संभावनाएं बनती दिखलाई दे रही हैं कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आर्क लाइट में वापस आ जायेंगी। दरअसल, पार्टी हाईकमान उन्हें अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रचार अभियान के चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है।

अमेठी की हार के बावजूद, ऐसी आशा की जा रही थी कि हाई प्रोफाइल नेता ईरानी या तो राज्यसभा में समायोजित कर ली जायेगी या फिर उन्हें संगठन के अंदर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी जायेगी। लेकिन ईरानी, अपना सरकारी आवास खाली करने के बाद के महीनों में ब्रेकिंग मोड में हैं। उन्होंने कुछ सप्ताह पहले उस समय जरूर सार्वजनिक क्षेत्र में जरा सा ध्यान आकर्षित किया था, जब उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में अप्रत्यक्ष रूप से

■ एक बार बॉसुरी स्वराज के नाम पर भी चर्चा हुई थी, पर, स्मृति ईरानी के राजनीतिक अनुभव व पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की क्षमता के कारण स्मृति ईरानी को ज्यादा उपयुक्त माना गया।

■ दिल्ली के मु.मंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर पार्टी के नेताओं की दो बैठक वृंदावन व पार्टी के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित मुख्यालय में हो चुकी हैं, पर, अंतिम निर्णय रणथम्भोर में आयोजित होने वाले वरिष्ठ नेताओं की बैठक में फाइनल होने की बात है।

■ सामान्य तौर पर, भाजपा में चुनाव से पूर्व भावी मु.मंत्री का नाम घोषित करने की परम्परा नहीं है। परन्तु, 2015 में पहली बार किरण बेदी के नाम की घोषणा की थी, जैसे ही किरण बेदी आप छोड़कर भाजपा से जुड़ी थीं। चुनाव से पूर्व, पर, यह परीक्षण बुरी तरह असफल रहा था।

■ न केवल किरण बेदी स्वयं हार्य, आप ने भी प्रचंड बहुमत से 70 में से 67 सीट जीत अपनी सरकार बनायी थी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि जब वे सफेद टी-शर्ट पहने हुये संसद में बैठे थे तो वे युवाओं का ध्यान बरबस ही अपनी ओर

खींच रहे थे। ईरानी ने कहा था कि अब राहुल गांधी के कार्यों और शब्दों में कथनी और करनी में एक रणनीति निहित होती है। ईरानी का यह इन्टरव्यू वायरल हुआ

था और ऐसी अटकलें लगने लगी थीं कि वे मोदी-शाह के राजनैतिक तौर-तरीकों से स्वयं को दूर कर रही हैं तथा आर.एस.एस. के नज़दीक जा रही है।

उल्लेखनीय है कि पार्टी महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष, जो आर.एस.एस. से भाजपा में आए हैं, मंगलवार को हुई राजनेताओं की उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें स्मृति ईरानी को दिल्ली में कोई भूमिका देने की चर्चा हो रही थी। भाजपा सामान्यतः मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करती है, लेकिन 2015 में पार्टी इस नीति से हट गई थी तथा उसने किरण बेदी को केजरीवाल की आप को छोड़ने के चन्द रोज के अन्दर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया था। भाजपा के लिये यह प्रयोग बुरी तरह प्लॉप रहा था तथा दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से 67 सीटें आप ने जीत ली थीं तथा स्वयं किरण बेदी, कृष्णा नगर सीट पर आप के एस.के. बग्गा से चुनाव हार गई थीं।

आतिशी मारलेना के मुख्यमंत्री बनने के बाद, ईरानी का नाम एक महिला के रूप में, भाजपा की ओर से एक प्रभावी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जैसलमेर के फायरिंग रेंज में मोर्टार बम फटा

जैसलमेर, 20 सितम्बर (निस)। जैसलमेर जिले की पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास के दौरान ट्रेनी जवानों से मोर्टार बम फटने पर 4 जवान घायल हो गए और 2 को गंभीर हालत में होने पर पोकरण अस्पताल में इलाज के बाद जोधपुर रेफर किया गया है।

जैसलमेर की पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में शुक्रवार दोपहर को बड़ा हादसा हो गया। युद्धाभ्यास के दौरान

■ युद्धाभ्यास के दौरान हुए इस हादसे में चार जवान घायल हो गए तथा दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

एक मोर्टार बम अचानक फट गया। हादसे में सीमा सुरक्षा बल के चार जवान घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर हड़कंध मच गया। सभी घायलों को पोकरण हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बी.एस.एफ. के वरिष्ठ अधिकारी और पोकरण पुलिस अस्पताल हॉस्पिटल पहुंचे। घायल जवानों के नाम उदय, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिन में दी जाए। अगले बुधवार को इस पर सुनवाई होगी।
सोशल मीडिया पर जस्टिस श्रीधानंद के वीडियो वायरल हो रहे हैं। वे बैंगलोर के मुस्लिम बहुल इलाके को 'पाकिस्तान' कहते नज़र आ रहे हैं तथा दूसरे वीडियो में वे महिला पर "आंतरिक वस्त्र" सम्बंधी अभद्र टिप्पणी करते सुनाई दे रहे हैं।

सोशल मीडिया सक्रिय भूमिका निभाता है, ऐसे में यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि न्यायिक टिप्पणियां गरिमापूर्ण होंगी चाहिए।
सी.जे.आई. ने कहा, कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज द्वारा सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी पर हमारा ध्यान गया है हमारा कर्नाटक हाई कोर्ट से आग्रह है कि इस संबंध में रिपोर्ट दें और रिपोर्ट दें

कर्नाटक हाई कोर्ट जज की "गैर मर्यादित" टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट सरख्त

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड़ ने कर्नाटक हाई कोर्ट से दो दिन में रिपोर्ट मांगी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 सितम्बर। स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस वेदव्यासाचार्य श्रीधानंद द्वारा की गई विवादस्पद टिप्पणी पर रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस श्रीधानंद मकान मालिक से संबंधित एवं विवाद में बैंगलोर के मुस्लिम बहुल इलाके को "पाकिस्तान" करार दिया था और एक महिला वकील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाय. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस एस. खन्ना, बी.आर. गवई, जस्टिस एस. कांत और एच. रॉय भी शामिल थे, ने कहा कि कोर्ट में जजों की टिप्पणी के संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट रूम की कार्यवाही की निगरानी में इस समय

■ कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस श्रीधानंद के दो वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में वे बैंगलोर के मुस्लिम बहुल इलाके को "पाकिस्तान" कहते नज़र आ रहे हैं तथा दूसरे वीडियो में वे महिला पर "आंतरिक वस्त्र" सम्बंधी अभद्र टिप्पणी करते सुनाई दे रहे हैं।

■ सी.जे.आई. ने कहा, अदालतों की न्यायिक टिप्पणियों में मर्यादा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है, खास कर इस युग में जब सोशल मीडिया कोर्ट रूम ट्रायल की निगरानी कर रहा है।

सोशल मीडिया सक्रिय भूमिका निभाता है, ऐसे में यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि न्यायिक टिप्पणियां गरिमापूर्ण होंगी चाहिए।
सी.जे.आई. ने कहा, कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज द्वारा सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी पर हमारा ध्यान गया है हमारा कर्नाटक हाई कोर्ट से आग्रह है कि इस संबंध में रिपोर्ट दें और रिपोर्ट दें

बस खाई में गिरी, बी.एस.एफ. के चार जवान मरे

श्रीनगर, 20 सितम्बर। जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में एक बस के खाई में गिरने से सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) के कम से कम चार जवानों की मौत हो गई और 26 घायल हो गये।

अधिकारियों ने बताया कि बी.एस.एफ. द्वारा दूसरे चरण के चुनाव ड्यूटी के लिए किराए पर ली गई एक सिविल

■ जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में यह हादसा हुआ। यह बस चुनाव ड्यूटी के लिये किराये पर ली गयी थी।

बस बडगाम के वतरहाल इलाके के ब्रेल के पास एक खाई में गिर गई, जिसके कारण बीएसएफ के कई जवान घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया, घायलों में से चार की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि करीब 26 घायलों को बडगाम और श्रीनगर में विभिन्न (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'सुप्रीम कोर्ट का कोलीजियम कोई सर्च पैनल नहीं है'

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि जवाब दे कि कोलीजियम द्वारा जजों की नियुक्ति के लिये भेजे गये नाम पर अभी तक "नियुक्ति" क्यों नहीं हुई

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 सितम्बर। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो संभवतया कार्यपालिका व न्यायपालिका के रिश्ते को प्रभावित कर सकता है, के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आज मोदी सरकार से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए कितने नाम प्रस्तावित किए हैं और सरकार कारण बताए कि अभी तक भी इन पर विचार क्यों नहीं किया गया है और वे किस स्तर पर लम्बित हैं।

तीन जजों की बेंच की अध्यक्षता करते हुए जज डी.वाय. चंद्रचूड़ ने एटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी से कहा कि आप एक चार्ट लेकर आईए और हमें हरेक सिफारिश, जिसे कोलीजियम ने दोहराया है, का स्तर

बताइए और यह भी बताइए कि उन नियुक्तियों में क्या समस्या है।
सी.जे.आई. ने कहा, मिस्टर एटॉर्नी जनरल हमारा आइडिया गुप्त बाते सामने लाने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का है ताकि सरकार का काम चलता रहे, बस।

बेंच में जस्टिस जे.जी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। बेंच ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए निर्देश दिए जिसमें मांग की गई थी कि कोलीजियम द्वारा अनुशंसित जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी करने की समय सीमा फिक्स की जानी चाहिए।

बेंच ने कहा कि "सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम कोई सर्च कमेटी नहीं है, जिसकी सिफारिशों को रोका जा सकता हो।" सी.जे.आई. ने मोदी सरकार की कार्यशैली की कड़ी

■ सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि अगर कोलीजियम द्वारा अनुशंसित जिन जजों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है, सरकार कारण भी बताये कि उनकी नियुक्ति नहीं करने का कारण क्या है? नियुक्ति देने में क्या दिक्कत है।

■ मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित इस बेंच में दो अन्य सदस्य थे। न्यायाधीश पारदीवाला व न्यायाधीश मनोज मिश्रा। यह बेंच उस जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें मांग की गई है कि न्यायालय वह अवधि निर्धारित करे, जिसमें सरकार कोलीजियम द्वारा नियुक्ति के लिए भेजी गई सिफारिशों पर नियुक्ति दे।

आलोचना की और कहा कि क्या आप कोलीजियम द्वारा दुबारा भेजे गए नामों की लिस्ट बना सकते हैं और बता सकते हैं कि ये नाम किस स्तर पर

13 साल की नाबालिग से गैंगरेप

श्रीगंगानगर, 20 सितम्बर (कांस)। जिले के सादुलशहर थाना इलाके के एक गांव की 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप का का मामला सामने आया है। लड़की घर का जरूरी सामान लेने के लिए गांव की एक दुकान पर गई थी। इसी दौरान 3 बदमाशों ने जबरदस्ती उसे कार में बैठाया और सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया।

इस संबंध में पीड़िता के मामा

■ सूत्रों के अनुसार गांव के तीन लोगों ने नाबालिग का किडनैप किया और बलात्कार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ने देर रात मामला दर्ज करवाया। मामले की जांच सीओ ग्रामीण अनुपम मिश्रा को दी गई है। घटना के बाद शुक्रवार सुबह अनुपम मिश्रा सादुलशहर थाने पहुंचे और पीड़िता के परिवार से जानकारी ली। पीड़िता के मामा ने दर्ज करवाये मामले में बताया कि उसकी 13 साल की भांजी उसके पास ही रहती थी। शाम को उसकी नानी ने उसे कुछ घरेलू सामान लाने के लिए पास की दुकान पर भेजा। कुछ देर बाद तक जब वह नहीं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तिरूपति प्रसादम विवाद के बाद कर्नाटक सरकार भी एक्शन मोड में आई

कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों में वितरित होने वाले प्रसादम की गुणवत्ता की जांच के आदेश दिए हैं

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 सितम्बर। पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में तिरुपति लड्डू में कथित मिलावट को लेकर पैदा हुए आक्रोशपूर्ण विवाद के बाद, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने स्वाभाविक चिन्ता के फलस्वरूप, राज्य के सभी बड़े मंदिरों में बंटने वाले प्रसादम के जांच अभियान चलाने के आदेश जारी कर दिए।

प्रसंगवश बता दें कि सुप्रसिद्ध तिरुपति लड्डू, जिस पर जी.आई. टैग है, में अशुद्धता के प्रवेश की बात, घी के सप्लायर के बदलाव के बाद, जानकारी में आई है। पिछले वर्ष जुलाई तक, प्रसादम बनाने के लिए मन्दिर ट्रस्ट को "कर्नाटक मिलक फेडरेशन" नदिनी ब्रान्ड घी की सप्लाई करता था। लेकिन के.एम.एफ. ने घी के दाम बढ़ा दिए, तो अनुबन्ध टूट गया था तथा घी की सप्लाई का ठेका तमिलनाडु के डिंडीगल नामक स्थान पर स्थित "ए.डी.डेयरीज" को दे दिया गया था। गत वर्ष अगस्त से नई व्यवस्था शुरू हो गई थी, उस समय आन्ध्र प्रदेश में वाई.एस.आर.सी. का शासन था।

■ तिरुपति प्रसादम में अशुद्धि तब सामने आई जब घी का सप्लायर बदला गया। गत जुलाई तक प्रसादम के लिए कर्नाटक मिलक फेडरेशन से नदिनी घी मंगाया जाता था।

■ पर, कर्नाटक मिलक फेडरेशन द्वारा घी की कीमत बढ़ाए जाने पर टी.टी.डी. ने घी वितरण का ठेका तमिलनाडु की एक डेयरी फर्म को दे दिया। उस समय आंध्र में जगनमोहन की सरकार थी, बस तभी से गड़बड़ी शुरु हुई।

■ कर्नाटक सरकार ने अब सभी मंदिरों में प्रसादम के लिए नदिनी घी इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है।

हालांकि कर्नाटक इस विवाद के दोषारोपण से बच गया है, लेकिन यह कोई भी चीज संयोग पर छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि राज्य की ऐसी किसी भी घटना से विपक्षी भाजपा को और बल एवं प्रोत्साहन मिलेगा, जो इस समय विपक्षी वाई.एस.आर.सी.पी. पर जबरदस्त भड़कौ हुई है तथा इसके समर्थकों ने भी सोशल मीडिया पर तमिलनाडु पर दोषारोपण करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि कर्नाटक

सरकार ने कहा है कि वह राज्य के सभी मन्दिर-प्रशासनों को केवल नदिनी घी को काम में लेने के निर्देश देगी, जिससे वहाँ भक्तों को बाँट जाने वाले प्रसादम की सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

कर्नाटक के मन्त्री रामलिंगा रेड्डी ने एक निजी टेलिविजन चैनल को बताया, "तिरुपति विवाद के बाद, हमारे कर्नाटक के मन्दिरों में दिए जाने वाले (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पुलिस थाने में पुरुष अफसर ने महिला के कपड़े उतारे

पीड़िता एक सैन्य अफसर की पुत्री तथा एक अन्य सैन्य अफसर की मंगेतर है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 सितम्बर। ओडिशा में प्रधानमंत्री द्वारा महिला सशक्तिकरण के बारे में बोलने के 72 घंटों के अंदर, एक महिला जो सेना अधिकारी की बेटी है तथा एक सैनिक अधिकारी की मंगेतर है, को रात को घर लौटते समय छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, एक पुरुष पुलिस अधिकारी ने उसको निर्वस्त्र किया और उसके आंतरिक वस्त्र भी उतार दिए तथा उससे ऐसी बातें बोली, जिन्हें सार्वजनिक रूप से बोला नहीं जा सकता।

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना का विवरण दिया और पूछा, क्या इस तरह से महिलाएं सुरक्षित हैं और प्रधानमंत्री पूरी तरह से चुप हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार में बहुत व्यस्त हैं और उनके पास समय नहीं है। श्रीनेत ने कहा, "हमें पता नहीं कि भारत की महिला व बाल विकास मंत्री

■ सेना ने इस घटना पर गंभीर नाराजगी जताई। सेना के शीर्ष अधिकारियों ने ओडिशा के डी.जी.पी. और प्रशासन से बात की है। सेना के अनुसार सेवारत सैन्य अधिकारी को हिरासत में लेना और निकटतम सैन्य इकाई को सूचित नहीं करना गैर कानूनी है।

■ कांग्रेस ने इस घटना को लेकर महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रवक्ता, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, प्र.मन्त्री ने ओडिशा में महिला सशक्तिकरण पर बात की और मात्र 72 घंटे के भीतर ही पुलिस थाने में एक महिला का यौन उत्पीड़न किया जाता है।

काँन है, क्योंकि वो कभी-कभार ही बोलती हैं, वास्तव में तो वो बोलती ही नहीं हैं। भाजपा की महिला सांसदों के लिए संसद में चुना जाना महत्वपूर्ण है, बजाय महिला सुरक्षा तथा सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर अपना मुँह खोलने को।
श्रीनेत ने कहा, "भारत में महिला आयोग भाजपा के मुखपत्र के समान है। लेकिन यह कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है, इसे कैसे बर्दाश्त किया

जाएगा, इसे कौन उचित ठहरा सकता है? यह किसी ऐसी महिला के साथ नहीं हो रहा है जो शिक्षित नहीं है, जिसे अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है। वह एक वकील है। उसकी सगाई सिख रैजिमेंट के एक सेना अधिकारी के साथ हुई है। और यही नहीं, मणिपुर में कारगिल योद्धा की पत्नी के साथ ऐसा हुआ है। मध्यप्रदेश में हमारे सैनिक अधिकारियों की महिला साथियों के

साथ ऐसा हुआ, इस देश में यह क्या हो रहा है? महिलाएं कहीं पर सुरक्षित हैं? पुलिस स्टेशन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जैसा इस केस में हुआ। उस महिला के विरुद्ध अपराध, उसका यौन शोषण, पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ, और इसके लिए जवाबदेह कौन है?"

इस घटना पर कार्यवाही को लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में श्रीनेत ने कहा, "सबसे पहला कदम तो यह है कि, यह स्वीकार करना कि उस महिला के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हुआ? उसके साथ क्या-क्या हुआ? कम से कम यह स्वीकार तो करिए। यह भी स्वीकार करिए कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध अनियंत्रित रूप से बढ़ रहे हैं। यही वास्तविकता है। यह हमारी पहली मांग है, इसे छुड़ाए नहीं, यह ढोंग मत करिए कि इस देश में महिलाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि ऐसा है नहीं। यदि वो खेत में काम करने वाली श्रमिक है, तो वो सुरक्षित नहीं हैं, यदि वो हॉस्पिटल में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट का यू-ट्यूब चैनल हैक हुआ

नयी दिल्ली, 20 सितम्बर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक कर लिया गया है। पहले जहाँ इस चैनल पर सुप्रीम कोर्ट से जुड़े वीडियो आते थे, वहीं, अब पूरे चैनल पर क्रिप्टोकॉर्सी से जुड़े वीडियो सामने आ रहे हैं।

शीर्ष अदालत संवैधानिक पीठों के

■ सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले चैनल पर क्रिप्टोकॉर्सी से जुड़े वीडियो चले।

समक्ष सूचीबद्ध मामलों और जनहित से जुड़े मामलों की सुनवाई स्ट्रीम करने के लिए यूट्यूब का उपयोग कर रही है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वीडियोज को हैकर्स ने प्राइवेट कर दिया है। बार एंड बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन फिलहाल यूट्यूब चैनल की हैकिंग की जांच कर रहा है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

साक्षात्कार की दिनांक जारी

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा-2023 के अन्तर्गत हिंदी विषय के 214 पदों हेतु प्रथम चरण के साक्षात्कार का आयोजन 7 से 25 अक्टूबर तक होगा। आयोग सचिव ने बताया कि साक्षात्कार पर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे।

कार्यालय नगर पालिका अकलेरा जिला झालावाड़ (राज.)

क्रमांक-न.पा.अ./2024/1190 दिनांक-20.09.2024

:- ई-निविदा सूचना :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका बोर्ड अकलेरा द्वारा वित्तिय वर्ष 2024-25 में कार्य करवाये जाने हेतु नगर पालिका द्वारा उपयुक्त श्रेणी के पंजीकृत संवेदको से ऑन लाईन निविदा सूचना क्रमांक-न.पा.अ./2024/1190-1200 दिनांक 20.09.2024 से 197.00 लाख रुपये की आम्ति की जाती है। जिसकी अंतिम तिथि दिनांक 03.10.2024 रविवार है। ई-निविदा से सम्बन्धित जानकारी एवं निविदा प्रश्न www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध एवं देखा सकते हैं। NIB Code- DLB2425SLOB08417, DLB2425SLOB08418, DLB2425SLOB08419, DLB2425SLOB08422, DLB2425SLOB08424, DLB2425SLOB08425, DLB2425SLOB08426, DLB2425SLOB08427 पर पेशी जा सकती है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अकलेरा राज.सं.वा.र/सी/24/5466

कार्यालय नगर पालिका अकलेरा जिला झालावाड़ (राज.)

क्रमांक-न.पा.अ./2024/1190 दिनांक-18.09.2024

:- संशोधित ई-निविदा सूचना :-

इस कार्यालय द्वारा निविदा सूचना न.पा.अ./2024/1141-1143 दिनांक 11.09.2024 के द्वारा कुल 06 कार्यों कि नगर पालिका बोर्ड अकलेरा द्वारा वित्तिय वर्ष 2024-25 में कार्य करवाये जाने हेतु नगर पालिका द्वारा उपयुक्त श्रेणी के पंजीकृत संवेदको से ऑन लाईन निविदा सूचना क्रमांक-न.पा.अ./2024/1141-1143 दिनांक 11.09.2024 से 45.45 लाख रुपये की आम्ति की गई थी। जिसकी अंतिम तिथि दिनांक 20.09.2024 रविवार है। जिसके NIB Code- DLB2425A2567, DLB2425A2568 उक्त निविदाओं कि तकनीकी कारणों से e-proc पर अपलोड नहीं होने के कारण उनकी संशोधित निविदा दिनांक 19.09.2024 से 26.09.2024 रविवार है। तथा निविदा खोलने कि दिनांक 27.09.2024 रविवार है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अकलेरा राज.सं.वा.र/सी/24/5462

Office of The Executive Engineer

Water Resources Division Kota

क्रमांक-EE/WRD/Ac/2024-25/2295-2303 Date: 11.09.2024

NIT No.-09/2024-25

On behalf of the Governor of Rajasthan, e-Tenders are invited from eligible Bidders for the Works of

Item No. 01 "Construction of Shamshah Ghat Shades for rehabilitation Colonies Dudakali, Dadiya, Tamoliya, Sarankhedi, Sahanpura, Talabadi and Raghunathpura of Takli Dam, Tehsil- Ranganjmandi, under Takli Medium Irrigation Project" (Estimated Cost Rs. 50.18 Lac)

Item No. 02 "Construction of Boundary wall of Talabadi temple and Development of Campuses of Community Center and Temple at Talabadi Rehabilitation Colony Under Takli MIP" (Estimated Cost Rs. 33.39 Lac)

Item No. 03 "Construction of Remaining Tubewells in rehabilitation colonies sarankhedi, Sahanpura, Talabadi, Tamoliya, Dudkali, Dadiya and Raghunathpura of Takli MIP" (Estimated Cost Rs. 27.50 Lac)

Item No. 04 "Repair, maintenance and replacing of Wiring of takli Dam Gate under Takli Medium Irrigation Project, Tehsil - Ranganjmandi" (Estimated Cost Rs. 15.59 Lac)

Item No. 05 "Repair of Rest House building at Heenchar of HCSP" (Estimated Cost Rs. 14.24 Lac)

Item No. 06 "Construction approach road for Raghunathpura Villagers which situated out side Submergence Area of Takli Dam Tehsil. Ranganj mandi, Distt. Kota Under Takli MIP" (Estimated Cost Rs. 4.89 Lac)

Item No. 07 "To provide approach road for agriculture fields and CD works near Tamoliya village Tehsil Ranganjmandi under Takli Medium Irrigation project" (Estimated Cost Rs. 4.88 Lac)

Item No. 08 "To provide temporary approach road for Karamkheti Balaji and agriculture fields near Bhipura village Tehsil Ranganjmandi under Takli Medium Irrigation project" (Estimated Cost Rs. 4.87 Lac) are invited from interested bidders from 12.09.2024 (9:30 Hr) to 24.09.2024 till 18:00 Hr other particulars, terms & conditions may be seen on the procurement portal <https://eproc.rajasthan.gov.in> & <https://sppp.rajasthan.nic.in>, www.diprc.rajasthan.gov.in & www.water.rajasthan.gov.in

NIB Code: WRD2425A0187

UBN NO-

Item No. 1 - WRD2425WSOB00619, Item No. 2 - WRD2425WSOB00620

Item No. 3 - WRD2425WSOB00621, Item No. 4 - WRD2425WSOB00622

Item No. 4 - WRD2425WSOB00623, Item No. 5 - WRD2425WSOB00624

Item No. 6 - WRD2425WSOB00625, Item No. 8 - WRD2425WSOB00626

Executive Engineer

DIPRC/8699/2024 Water Resources Division, Kota

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/नितामी (ML VI)/2024/ई - 0840

ई-नीलामी विज्ञापन

संसाधन को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अग्रजान खनिज विभाग, 2017 के अध्याय-III के तहत विभाग के अग्रजान खनिजों के खननपट्टी के आवेदन के लिए 211 प्लॉट ई-नीलामी के माध्यम से दिव्ये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खुली बोली आमंत्रित की जाती है। सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

क.सं. जिला तहसील ग्राम खनिज कुल प्लॉट

1 झुंझु उदयपुरवाटी झड़या नगर बेजा पहर 1

2 बूदी तालेड़ा देवरिया मेसेनरी स्टोन 3

3 चित्तौड़गढ़ भदेसर मगरदा बायना कसे, मेसेनरी स्टोन (क्याटज) 1

4 चित्तौड़गढ़ भदेसर मगरदा मेसेनरी स्टोन 1

5 चित्तौड़गढ़ गंगर कटो बायना कसे, मेसेनरी स्टोन 4

6 चित्तौड़गढ़ गंगर अमरपुर ग्रेनाइट 17

7 भीलवाड़ा बनेड़ा रूपाहेली खुर्द ग्रेनाइट 5

8 भीलवाड़ा हमीरगढ़ कलुण्डिया रेड ऑकर येला ऑकर व बायना कसे 3

9 भीलवाड़ा हमीरगढ़ दलेलसिंहजी का खेड़ा (क्याटज) 1

10 भीलवाड़ा रामपुर नाथियासर क्याटज फेल्सपार, माईका 1

11 भीलवाड़ा आसींद क्यार ग्रेनाइट 10

12 भीलवाड़ा आसींद जैतपुर अन्नक, क्याटज व फेल्सपार 3

13 भीलवाड़ा आसींद झालरा ग्रेनाइट 3

14 भीलवाड़ा आसींद दोलगढ़ ग्रेनाइट 3

15 भीलवाड़ा आसींद जोधा का खेड़ा ग्रेनाइट, क्याटज व मेसेनरी स्टोन 7

16 भरतपुर भुसावर कोठकी मेसेनरी स्टोन 1

17 भरतपुर भुसावर जखवर मेसेनरी स्टोन 1

18 प्रयागगढ़ प्रयागगढ़ सालगढ़ मेसेनरी स्टोन 2

19 राजसमंद भीम (झुंझुखेड़ा) माबल 10

20 राजसमंद भीम (झुंझुखेड़ा) माबल, क्याटज व फेल्सपार 4

21 राजसमंद राजसमंद गिरीरी क्याटज फेल्सपार 5

22 राजसमंद राजसमंद दोवड़ क्याटज फेल्सपार व ग्रेनाइट 1

23 सीकर पाटन नृसिंहवाला मेसेनरी स्टोन 1

24 झुंझुूर बिडिवाड़ा छोटा ओझा सोपस्टोन 3

25 झुंझुूर झुंझुूर भुवाली क्याटज 1

26 झुंझुूर झुंझुूर दामड़ी मेसेनरी स्टोन 6

27 उदयपुर कुराड़ शिवरी क्याटज व फेल्सपार 1

28 उदयपुर मावली धामला माबल 1

29 उदयपुर मावली बन्देसर मेसेनरी स्टोन 5

30 जयपुर जौमु हथनोदा मेसेनरी स्टोन 1

31 जैसलमेर जैसलमेर हडडा लाइमस्टोन (झांभनलाल) 16

32 नागौर मुण्डवा सैनी मेसेनरी स्टोन 18

33 नागौर रियाबड़ी पिपिया ग्रेनाइट 6

34 नागौर लालनू बाकसिया मेसेनरी स्टोन 9

35 टोंक मालपुर फूलमारियान ग्रेनाइट 13

36 अजमेर केकड़ी एकलसिया ग्रेनाइट 1

37 अजमेर पीपान्न मोला मेसेनरी स्टोन 3

38 अजमेर सावर सावर माबल 13

39 अजमेर नरीराबाद नारा क्याटज व फेल्सपार 8

40 अजमेर अरई चौसला ग्रेनाइट 18

विशेष नोट:-

1 प्लॉट का विस्तृत विवरण, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण, ई-ऑक्शन की तारीखीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in एवं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रदाता कंपनी MSTC Ltd की वेबसाइट www.mstccommerce.com पर उपलब्ध है। (मगनी प्रसाद)

DIPRC/8776/2024 निर्देशक

प्रियंका विश्णोई की मौत के मामले की जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी

कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने रिपोर्ट को सर्वजनिक करने से मना कर दिया

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर की अतिरिक्त कलेक्टर प्रियंका विश्णोई की मौत के मामले की जांच रिपोर्ट मेंडिकल कॉलेज प्रशासन ने शुकुवार को कलेक्टर गौरव अग्रवाल को सौंप दी। कलेक्टर ने रिपोर्ट को सर्वजनिक करने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि इसे सीधा सरकार को भेजेंगे। जानकारी के अनुसार पांच सितंबर को प्रियंका विश्णोई का जोधपुर के वसुंधरा हॉस्पिटल में बच्चेदानी का

जिला कलेक्टर ने बताया कि जांच रिपोर्ट को सीधा सरकार को भेजेंगे

आंपरेशन किया गया था, लेकिन उनकी हालत बिगड़ गई थी। परिवार वाले उन्हें सिम्स (अहमदाबाद) ले गए थे। परिवार ने वसुंधरा हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। इधर, गुरुवार को जब उनका

पार्थिव शरीर जोधपुर पहुंचा तो समाज और परिजन हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर अड़ गए थे। समाज के लोगों का कहना था कि कमेटी बनने के बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं आई। करीब साढ़े चार घंटे के विरोध प्रदर्शन के बाद वे माने और गुरुवार शाम को ही फलोदी के सुरपुर गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया था।

तीन दिन पहले इस मामले को लेकर कलेक्टर की ओर से एएसएन

मेंडिकल कॉलेज के एक्सपर्ट की टीम बनाकर मामले की जांच के आदेश दिए थे। इस टीम में गायनिक विभाग से डॉ. रंजना देसाई, मेंडिसिन से डॉ. इंदु थावानी, सर्जरी से डॉ. विजय शर्मा, न्यूरोलॉजी से डॉ. शुभकरण खींचड़, एनेस्थीसिया से डॉ. नवीन पालीवाल को शामिल किया गया था। यह रिपोर्ट अब सिधे राज्य सरकार को भेजी जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।

शिक्षा मंत्री के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में शिक्षक नेता निलंबित

जोधपुर, (कासं)। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ पोस्टर लगाने वाले शिक्षक नेता शंभू सिंह मेड़तिया को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा विभाग की ओर से इसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में शिक्षा मंत्री के खिलाफ अशोभनीय नारेबाजी करने, उनके खिलाफ जोधपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग लगाने और शिक्षा मंत्री को पलटूराम जैसे शब्दों का प्रयोग किए जाने के कारण विभाग की छवि धूमल होने के चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

आदेश के मुताबिक मेड़तिया का राजकीय प्राथमिक विद्यालय बागा सूरसागर से निलंबन होने पर उनका मुख्यालय मुख् ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

शिक्षक नेता शंभू सिंह मेड़तिया ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ पोस्टर लगाकर कहा था पलटूराम

शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण किया गया है। जानकारी के अनुसार शिक्षा मंत्री दिलावर जोधपुर जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ शिक्षक नेता शंभू सिंह मेड़तिया की ओर से पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए थे जिसमें शिक्षा मंत्री दिलावर को पलटूराम कहा गया। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मंत्री का विभाग

बदलने की मांग भी की गई थी। यह पोस्टर सामने आने के बाद पूरे शहर में और जयपुर तक चर्चा का विषय बन गए थे। इसके बाद आनन- फानन में बुधवार रात को शिक्षा विभाग की ओर से सर्किट हाउस और आसपास की जगह से होर्डिंग हटवाए गए थे। इसके बाद स्कूल शिक्षा जोधपुर संभाग की जॉइंट डायरेक्टर सीमा शर्मा ने डीईओ प्रारंभिक मुख्यालय पुरुषोत्तम राजपुरोहित को शिक्षक नेता शंभू सिंह मेड़तिया के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को लेकर निर्देश दिए थे। कार्रवाई करते हुए अब मेड़तिया को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले एक बार शंभू सिंह मेड़तिया ने शिक्षा मंत्री का सर्किट हाउस में प्राइवेट स्कूलों के

समर्थन का आरोप लगाते हुए भी प्रदर्शन किया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में उनके नाम का चयन होने के बाद भी दूसरे दिन उनके नाम को हटा दिया था उनके खिलाफ 16 सीसीए की चार्जशीट भी जारी की गई थी। निलंबन के आदेश जारी होने के बाद शिक्षक नेता की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट लिखी, जिसमें बताया कि आज उन्हें निलंबित कर दिया गया है।

पैथर ने 48 घंटे में एक और महिला को शिकार बनाया

ग्रामीणों में भय व्याप्त, पैथर को गोली से मारने की मांग की

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के छाली पंचायत में आदमखोर पैथर का आतंक कायम है। पैथर ने 48 घंटे में तीसरा शिकार करते हुए शुकुवार शाम छाली के उमरिया गांव में खेत में काम कर रही महिला को शिकार बनाया। पैथर के आतंक से परेशान ग्रामीण पैथर को गोली मारने की मांग कर रहे हैं। वहीं वन विभाग ने नर भक्षी पैथर को पकड़ने के लिए तीन पिंजरे लगाये हैं लेकिन ग्रामीण इससे संतुष्ट नहीं हैं और पैथर को गोली मारने की मांग पर अड़े हुए हैं।

जानकारी के अनुसार आदमखोर पैथर ने महिला पर हमला कर उसे मारा तो महिला का आवाज सुनकर आस-पास खेतों में मौजूद लोग बचाने के लिए दौड़े तो पैथर भाग गया। ग्रामीणों ने बताया कि पैथर के हमला करने पर हमेरी भील जोर से चिल्लाने लगी। इस पर हम लोग कुल्हाड़ी

और लाठी-डंडे लेकर खेत की तरफ भागे, लेकिन तब तक पैथर हमेरी भील को खींचकर जंगल में झाड़ियों की तरफ ले जा चुका था। ग्रामीणों ने बताया कि हमेरी भील का खेत जंगल से सटा हुआ है। जब हम सब लोग मौके पर पहुंचे तो वहां हमेरी भील की ओढ़नी पड़ी थी। हम लोगों ने झाड़ियों में हमेरी भील को देखा और लेपई उसके पास ही बैठा हुआ था। काफी देर तक भी पैथर वहां से नहीं हटा तो सब लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद पैथर वहां से हटा तो हम झाड़ियों की तरफ गए वहां हमेरी का शव पड़ा मिला। उदयपुर में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी आदमखोर हुए पैथर ने एक ही पंचायत में एक के बाद एक हमले को गुमराह कर रखा था और इसी मौक पैथर ने वृद्ध 48 घंटों में तीन लोगों का शिकार किया हो। वन विभाग की टीमें लगातार पैथर को तलाश रही है। छाली सरपंच गणेश लाल खैरे ने बताया कि

पैथर ने किशोरी का शिकार किया, गुरुवार सुबह किशोरी का शव बरामद हुआ था। उसके बाद ही अगर वन विभाग खेत जाता और कार्रवाई शुरू कर देता तो गुरुवार शाम पैथर हमले में मारे गए वृद्ध खुशामाम की जान बच सकती थी। किशोरी को पैथर ने मारा था, यह स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था, लेकिन स्थानीय वनकर्मी यह बात ही साबित करने में लगे रहे कि किशोरी को पैथर ने नहीं मारा है और यह कहकर अधिकारियों को गुमराह किया। जब हम ग्रामीण एसडीएम को जापान देने पहुंचे तो उन्हें भी वनकर्मी ने यही कहकर गुमराह किया कि मरी लडकी को किसी जानवर ने खाया है। वनकर्मी अधिकारियों को गुमराह कर रखा था और इसी मौक पैथर ने वृद्ध का शिकार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पैथर ग्रामीणों पर हमला कर उनका न सिर्फ शिकार कर रहा है, बल्कि खा भी रहा है।

सहायक आयुक्त को संदिग्ध राशि के साथ पकड़ा

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की भरतपुर टीम ने शुकुवार को लुधावई टोल प्लाजा भरतपुर पर आकस्मिक चैकिंग की कार्रवाई करते हुए देवस्थान विभाग भरतपुर के सहायक आयुक्त कृष्ण कुमार खंडेलवाल को 3 लाख 60 हजार रुपये की संदिग्ध राशि के साथ पकड़ा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस महानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि एसीबी की भरतपुर टीम को एक गोपनीय सूत्र से सूचना प्राप्त हुई कि देवस्थान विभाग भरतपुर के सहायक आयुक्त कृष्ण कुमार खंडेलवाल अपने अधीनस्थ कार्यालयों से अवैध वसूली कर भारी धनराशि के साथ भरतपुर से जयपुर आ रहे हैं। इस पर थाना पुलिस को भरतपुर टीम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन कर

देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त के पास मिले 3.60 लाख रुपये

लुधावई टोल प्लाजा भरतपुर पर आकस्मिक चैकिंग की कार्रवाई करते हुए देवस्थान विभाग भरतपुर के सहायक आयुक्त कृष्ण कुमार खंडेलवाल को 3 लाख 60 हजार रुपये की संदिग्ध राशि के साथ पकड़ा है। इसके अलावा एसीबी की ओर से मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

सूने मकान में चोरी

गंगापुर सिटी, (निंसे)। पुलिस की नाकामी के चलते गंगापुर सिटी में आए दिन चोरी की वारदंत हो रही है। बुधवार रात को शहर की उग्रान कालोनी वार्ड नंबर 55 स्थित अब्दुल खान के सूने मकान से चोर छह लाख के सोने-चांदी के आभूषण सहित 40 हजार रूपए की नकदी को चुराकर ले गए। पीड़िता रजिवा बानो ने बताया कि उसके दादा का बुधवार को इंतकाल हो गया था। वह रात को मकान का ताला लगाकर बच्चों को लेकर दादा के घर पर गई थी। जबकि पति अब्दुल खान दिल्ली गया हुआ था। चोरी का पता सुबह 6 बजे घर वापस लौटने पर चला। घर पहुंची तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ मिला। घर के अंदर बक्शा व आलमारी के ताले टूटे हुए पड़े हुए थे। बक्से में रखे सोने-चांदी के जेवरों का वही, अब्दुल खान दादा के इंतकाल की सूचना मिलते ही दिल्ली से सुबह गंगापुर सिटी आया तो उसे घर में चोरी की वारदात का पता चला। इस पर उन्होंने उर्दे मोड़ बना पुलिस को चोरी होने की सूचना दी।

नदी में युवक का शव मिला, हत्या की आशंका जताई

हिंडौन सिटी, (निंसे)। सदर थाना क्षेत्र के गंगापुर मार्ग स्थित कटकड़ की गंधीर नदी की पुनिया के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सूर्योद के विजयपुर निवासी रवि जाट (25) के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस घटनास्थल से शव के पास मौजूद दो संदिग्ध को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल पहुंची। जानकारी मिलने पर मृतक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। मृतक के पिता ने दोनों संदिग्ध पर हत्या की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दी है।

पिता ने कहा कि दो युवक बाइक पर बैठकर ले गए थे

अस्पताल में मौजूद रहे। पुलिस के अनुसार दोनों संदिग्ध नशे की हालत में पाए गए, जिन्हें भर्ती किया गया है। फिलहाल उन्होंने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया।

सदर थाने के एएसआई महेश चंद ने बताया कि विजयपुर निवासी राजेंद्र जाट पुत्र राम सिंह ने रिपोर्ट दी है कि उसके छोटे पुत्र रवि को बुधवार सुबह अग्रसेन विहार कालोनी स्थित निज आवास से दो युवक अपने साथ उसे बलाकर मतक की बाइक के साथ गए थे। जिसके बाद दोपहर को उन्हें सोशल

मीडिया पर कटकड़ नदी के पास एक युवक के मृत होने की जानकारी मिली। जिसमें मृतक का फोटो परिवारी के पुत्र रवि की निकली। जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। इधर ग्रामीणों की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक रवि जाट के पिता की ओर से दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर मृतक के शव का राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में मेंडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करारक शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मेंडिकल ज्यूरिफ के बताया कि मौत के वास्तविक कारणों का पता एफएसएल जांच की रिपोर्ट मिलने पर ही होगा। परिजनों ने बताया कि मृतक विवाहित है। उसके दो पुत्र हैं।

दो शातिर वाहन चोर गिरफ्तार

अजमेर, (कासं)। शहर में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये एसपी देवेन्द्र विश्णोई के दिशा-निर्देशों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो शातिर वाहन चोर युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराई गई बाइक बरामद की है।

क्रिश्चरगंज थाना पुलिस ने बजरंग कालोनी किशनगढ़ निवासी

शुभम सुनारीवाल उर्फ मोनु पुत्र प्रकाशचन्द सुनारीवाल व संवितर किशनगढ़ निवासी अजय रेदास पुत्र छगन लाल रेग को नारीशाला के पीछे लोहालग अजमेर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराई गई मोटरसाइकिल व 14 अगस्त को रेग मोहल्ला बड़ी बस्ती पुकर से चुराई गई बाइक भी बरामद की।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबंधक

वाटरशेड सेल कम डाटा सेंटर जिला परिषद जालोर

क्रमांक-एफ।/निविदा/2024-25/865 दिनांक-17.09.2024

NOTICE INVITING BID

NIT NO 08-13/2024-25

Bids for NRM Works Under MUSA-2 and PMKSY 2.0 project area in Jalore and Sanchole of Estimated Value INR 1306.16 Lacs are invited from interested bidders by up to 3.00 PM 08-10-2024. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<https://eproc.rajasthan.gov.in> or <https://sppp.rajasthan.gov.in>) of the state.

NIT No.	Work Name & Block	NIB No.	UBN No.
NIT-08/2024-25 MUSA-2	Tanka with agor, Rooftop Tanka, Farm Pond (Jalore)	WSC2425A0230	WSC2425 WSCR00450
NIT-09/2024-25 MUSA-2	Tanka with agor and Rooftop Tanka (Sayla)	WSC2425A0230	WSC2425 WSCR00451
NIT-10/2024-25 MUSA-2	Farm Pond and Rooftop Tanka (Bhinmal)	WSC2425A0230	WSC2425 WSCR00452
NIT-11/2024-25 MUSA-2	Sub Surface Barrier, Percolation Tank, Farm Pond and Khadin (Ranwar)	WSC2425A0230	WSC2425 WSCR00453
NIT-12/2024-25 MUSA-2	Tanka and Farm Pond (Bagoda)	WSC2425A0230	WSC2425 WSCR

3.15 करोड़ की नई सड़क बनाने से पहले लाखों का फर्जी भुगतान उठाने के लिए करवाए घटिया पेचवर्क?

अजमेर एलिवेटेड रोड पर बुधवार रात को जेडीए जोन-7 द्वारा कराए गए पेचवर्क एक रात भी नहीं टिके



अजमेर एलिवेटेड रोड पर पेचवर्क उखड़ने के बाद सड़क पर बिखरी रोड़ी-कंक्रीट, जो हादसों को न्यौता दे रही है।

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर । अजमेर एलिवेटेड रोड पर घटिया पेचवर्क और दुरुने पैसे लगाकर उसे उखाड़ने में जे.डी.ए. के लाखों रुपए की बर्बादी करने के मामले में जे.डी.ए. कमिश्नर आनंदी ने वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मांग ली। मजेदार बात यह है कि जेडीए जोन-7 ने अजमेर रोड एलिवेटेड रोड पर पुरानी चुंगी से मजार तक 3.15 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़क बनाने के लिए टेंडर जारी किया है। यानि कि 3.15 करोड़ रुपए लगाकर सड़क की रि-कारपेंटिंग की जायेगी। टेंडर की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर है। सफल आवेदक को वर्क आर्डर जारी किया जाएगा। इस कारपेंटिंग से पहले सड़क पर पुरानी डामर को उखाड़ा जाएगा। ऐसे में यह सभी पेचवर्क भी उखड़ेंगे, जो बरसात के दौरान किये जा रहे हैं।

सूत्रों की मानें तो नई सड़क निर्माण से पहले जेडीए जोन-7 के इंजीनियर्स ने बुधवार रात आनन-फानन में यह घटिया पेचवर्क कराए, जो कुछ घंटे भी नहीं चले। यह कारनामा टेकेदार व इंजीनियर्स ने इसलिए किया गया कि, कुछ दिनों बाद जब सड़क नई बनाई

■ यह मामला उजागर होने के बाद शुक्रवार को जे.डी.ए. कमिश्नर ने अतिरिक्त निदेशक से रिपोर्ट मांगी

■ अजमेर रोड एलिवेटेड रोड पर पुरानी चुंगी से मजार तक सड़क निर्माण के लिए गत दिनों जारी किया है करीब 3.15 करोड़ रु. का टेंडर

जाये, तब यह पेचवर्क उखाड़ने पड़ेंगे, ऐसे में चुपचाप लाखों रु. का भुगतान उठा लिया जाये।

'राष्ट्रदूत' में घटिया पेचवर्क की खबर छपने के बाद शुक्रवार को जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने अतिरिक्त निदेशक संजीव जैन से इस मामले में वस्तुस्थिति से अवगत कराने और वास्तविक रिपोर्ट देने को कहा। घटिया पेचवर्क करने का मामला उजागर होते ही जोन 7 के एक्सईएन तरुण सिंघल ने अपनी अलग-अलग टीमों मामले को मैनेज करने में लगा दी।

इस बीच मामला बिगड़ता देख एक्सईएन सिंघल ने घटिया पेचवर्क के काम को छिपाने के लिए टेकेदार खुदाबक्श से मौके पर झाड़ू लगवाने को कहा, ताकि रोड पर बिखरी रोड़ी-कंक्रीट नहीं दिखे।

एक करोड़ रुपए के पेचवर्क पानी में बहे

सूत्रों की मानें तो जोन-7 में मार्च माह में ही एक करोड़ रुपए पेचवर्क कराने के लिए स्वीकृत करते हुए टेंडर जारी कर दिए थे। यह टेंडर खुदाबक्श कंपनी ने हासिल किए। इसके बाद बरसात और उससे पहले टेकेदार को पेचवर्क करने का वर्क आर्डर अगस्त तक जारी नहीं किया। सितंबर माह में अचानक जेडीए के जोन 7 के इंजीनियर्स को ध्यान आया कि इस एलिवेटेड रोड पर पेचवर्क कराना है। इसके बाद एक रात में ऐसे घटिया पेचवर्क कराए कि अगले दिन सवेरे ही बिखर गए। मामला बिगड़ता देख शुक्रवार को इन उखड़े हुए पेचवर्क पर

कोल्ड डामर कराई गई, जिससे यह टाट के पैबंद जैसी यह लग रही थी। अब टेकेदार को घटिया पेचवर्क का भुगतान करने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों की मानें तो जोन 7 के इंजीनियर्स को जेडीए प्रशासन की सख्ती और कार्रवाई का भी कोई डर नहीं है। ऐसे में वह मौके पर जाकर पेचवर्क करने या सड़क की कारपेंटिंग कराने में भी ध्यान नहीं देते। पीछे से टेकेदार को पूरी छूट मिल जाती है और वह पेचवर्क के नाम से हल्की डामर की परत चढ़ाकर अपने काम की इतिश्री कर लेते हैं।

निदेशक एक माह के अवकाश पर

सूत्रों की मानें तो जेडीए के निदेशक इंजीनियरिंग अजय गर्ग एक महीने के अवकाश पर चले गए हैं। जेडीए में चर्चा है कि नई जेडीए कमिश्नर से उनको पटरी नहीं बंद रही है। उनकी नाराजगी से बचने के लिए निदेशक एक महीने के अवकाश पर चले गए। उनका कार्यभार अतिरिक्त चीफ इंजीनियर संजीव जैन को सौंपा गया है।

एक चिकित्सक का पंजीयन निरस्त, 9 को कड़ी चेतावनी

राजस्थान मेडिकल काउंसिल की जनरल बाँडी की बैठक में निर्णय

जयपुर (कास)। राजस्थान मेडिकल काउंसिल की जनरल बाँडी की बैठक शुक्रवार को निदेशक जन स्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज से मनोनीत सदस्यों ने भाग लिया।

निदेशक जन स्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि बैठक में पैनेल एंड एथिकल कमेटी के समक्ष कुल 17 प्रकरण प्रस्तुत किए गए। जिसमें

एनएमसी, दिल्ली के दिशा-निर्देश अनुसार 1 चिकित्सक का पंजीयन निरस्त किया गया एवं 9 चिकित्सकों को चेतावनी जारी की गई। उन्होंने बताया कि फर्जी दस्तावेज लगाए जाने के कारण डॉ. राहुल वर्मा का पंजीयन निरस्त किया गया है। रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल के समस्त रिकार्डों को ऑनलाइन करने, चिकित्सकों के क्रेडिट अवाइड बढ़ाने के लिए ऑनलाइन

सीएमई सिस्टम लागू करने एवं परिषद में पंजीकृत चिकित्सकों का क्यूआर कोड वाले स्मार्ट कार्ड बनाने की प्रगति की भी बैठक में समीक्षा की गई। डॉ. शर्मा ने बताया कि काउंसिल के काम को गति देने एवं सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से वेबसाइट को अद्यतन किया गया है। साथ ही, कार्य को अधिक सुगम बनाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग भी किया जाएगा।

अगले 45 दिन में साफ करेंगे द्रव्यवती नदी : वैभव गालरिया

जयपुर । राजधानी जयपुर के बीचों बीच बहने वाली द्रव्यवती नदी को अगले 45 दिनों में साफ करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया द्रव्यवती नदी का दौरा करने पहुंचे थे। उन्होंने जेडीए और निगम अधिकारियों को नदी में बह रहे सीवरेज के पानी को रोकने के साथ ही बदहाल और बदबूदार हो चुकी नदी को अगले 45 दिन में स्वच्छ और सुंदर बनाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि राजर्षि राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट से पहले जयपुर शहर की सभी सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए एक्शन प्लान तैयार कर काम शुरू कर दिया जा चुका है।

गालरिया ने कहा कि द्रव्यवती नदी में सुशीलपुरा के नवदीक सीवरेज का पानी आ रहा है। जहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना था, लेकिन कुछ लोग इस मुद्दे पर कोर्ट स्टे लेकर आ गए हैं। ऐसे में हमारे वकील कोर्ट में पकड़ती से इस मामले को रखेंगे, ताकि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जल्द से जल्द निर्माण होकर द्रव्यवती में जाने वाले सीवरेज के पानी को रोका जा सके।

उन्होंने कहा कि वारिश के दौरान द्रव्यवती नदी के आसपास काफी कॉलोनियों में पानी भर जाता है, जिसे रोकने



नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने शुक्रवार को द्रव्यवती नदी क्षेत्र का निरीक्षण कर इसकी सफाई के निर्देश दिए।

के लिए पानी को द्रव्यवती में आने दिया जाता है। ऐसे में पानी के साथ गंदगी और अपशिष्ट पदार्थ भी नदी में पहुंच रहे हैं। इसे रोकने के लिए भी प्रांर प्लांटिंग की जा रही है। इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के एक्सपर्ट इंजीनियर जल्द ही ठोस रणनीति के तहत काम करेंगे। इसका असर जल भविष्य में नजर आएगा। जो पानी फिलहाल द्रव्यवती नदी में बह रहा है, वह भी काफी गंदा और बदबूदार है। ऐसे में अगले 45 दिनों में इस द्रव्यवती नदी में बहने वाले पानी को साफ किया जाएगा। इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम हेरिटेज

और नगर निगम ग्रेटर तीनों के अधिकारी मिलकर एक्शन प्लान के तहत काम करेंगे। जिसमें न सिर्फ सीवरेज के पानी को साफ करेंगे। बल्कि, द्रव्यवती नदी के वाक-वे में पीनरी और लाइट पोल समेत तमाम मेटेंस के काम को भी दुरुस्त किया जाएगा। गालरिया ने कहा कि इन्वेस्टमेंट समिट से पहले जयपुर की सभी सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। इस बार जयपुर में काफी ज्यादा बारिश हुई है जिसकी वजह से सड़कों की स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है, ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पूरे शहर में सड़कों का नवीनीकरण व मरम्मत कराएंगे।

अवैध हथियार समेत तीन बदमाश गिरफ्तार

जयपुर । जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन एक्शन अग्रेस्ट गन (आग) के तहत झोटवाड़ा इलाके में कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सहित तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से एक देशी कट्टा और पिबनके में प्रयुक्त एक दुपहिया वाहन भी बरामद किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि सीएसटी ने ऑपरेशन एक्शन अग्रेस्ट गन के तहत झोटवाड़ा इलाके में कार्रवाई करते हुए रविन्द्र नायक जवाजा जिला ब्यावर हाल झोटवाड़ा, जितु भाटी उर्फ जितेन्द्र सिंह निवासी

ब्यावर हाल झोटवाड़ा जयपुर और असलम काठत निवासी ब्यावर हाल झोटवाड़ा जयपुर को गिरफ्तार कर उनके पास से एक देशी कट्टा बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपित चोरी करने के आदि है और रात के समय चोरी करते समय लोगों की जाग जाने के कारण यह हथियार उनको डराने के लिए रखते हैं। आरोपित जितु और रविन्द्र के खिलाफ चोरी, नकबजनी, डकैती और मारपीट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। इसके अलावा आरोपियों से चोरी का माल भी होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में अवैध हथियार की खरीद-फरोख्त सहित अन्य नारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है।

बी.एस.एन.एल. में 'नैतिकता-शासन' सेमीनार

जयपुर । राजस्थान बी.एस.एन.एल. परिमंडल की विजिलेंस सेल ने शुक्रवार को कार्यालय प्रधान महाप्रबंधक दूरसंचार जयपुर के कॉन्फ्रेंस हॉल में नैतिकता एवं शासन सेमीनार आयोजित किया। महाप्रबंधक (सतर्कता) दिनेश कुमार गर्ग ने सभी अधिकारियों, अतिथियों तथा प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा सतर्कता जागरूकता सप्ताह एवं आयोजित होने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में बताया। सेमीनार का उद्घाटन बीएसएनएल राजस्थान परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक विक्रम मालवीय ने किया। सेमीनार में मुख्य अतिथि एवं वक्ता पूर्व आईएस अधिकारी एस.एस.बिस्सा थे।

बीएसएनएल राजस्थान परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक विक्रम मालवीय ने अपने उद्बोधन में नैतिक मूल्यों के साथ जीवन जीने पर प्रकाश डाला तथा तथा उत्तम व्यवहार एवं सदाचार को जीवन में अपनाने के लिए कहा। साथ ही, प्रशासन में पारदर्शिता अपनाने पर भी बल दिया। मुख्य अतिथि एवं वक्ता पूर्व



राजस्थान बी.एस.एन.एल. परिमंडल की विजिलेंस सेल ने शुक्रवार को नैतिकता एवं शासन विषय पर सेमीनार आयोजित किया।

आईएस अधिकारी एस.एस.बिस्सा ने अपने व्याख्यान की शुरुआत ऋग्वेद के एक श्लोक से की तथा नैतिकता एवं शासन विषय पर प्रकाश डालते हुए आपने पारदर्शिता, जन सहभागिता एवं विधि के शासन की जरूरत बताई। कार्यक्रम में प्रधान महाप्रबंधक दूरसंचार जिला जयपुर राजेश अग्रवाल, वरिष्ठ महाप्रबंधक (प्रशासन एवं एच आर) अखिलेश अग्रवाल, महाप्रबंधक (सेल्स एण्ड मार्केटिंग) एल.एस.मीना, महाप्रबंधक सीएम अशोक माहेश्वरी,

महाप्रबंधक (विद्युत कालिया), महाप्रबंधक (ईवी) उपेन्द्र बाकोलिया, महाप्रबंधक (नोफ्रन) सुभाष चंद्र अग्रवाल, महाप्रबंधक लोकेश गुप्ता, महाप्रबंधक वीएस नेमीवाल, सहित बीएसएनएल के कई वरिष्ठ अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन उप मण्डल अभियंता राजभाषा डॉक्टर सीमा गुप्ता ने किया। सहित निदेशक सतर्कता मनीष अग्रवाल ने सभी अधिकारियों, अतिथियों व प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

वृत्त कार्यालयों में बनाएं हैल्प डेस्क

जयपुर । डिस्कॉम्स चेयरमैन एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने आमजन व बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के प्रभावी निराकरण के लिए जयपुर शहर एवं जयपुर जिला वृत्त के अधीक्षण अभियंता कार्यालयों में हैल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन हैल्प डेस्क के माध्यम से बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आमजन को पूरी संवेदशीलता से परामर्श प्रदान किया जाए। डोगरा शुक्रवार को विद्युत भवन में जयपुर सिटी एवं जयपुर जिला सर्किल के वृत्त अधीक्षण अभियंताओं के साथ इस संबंध में समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में अपनी समस्याओं तथा सुनवाई को लेकर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में हैल्प डेस्क से दिया गया उचित परामर्श एवं सुझाव उन्हें राहत देगा। डिस्कॉम्स चेयरमैन ने कहा कि इन हैल्प डेस्क में ऐसे कार्मिकों को पदस्थापित किया जाए जो परिवारियों की परेशानों एवं जरूरत को समझ कर उन्हें मालवीय नजरिए से समुचित सलाह दे सकें। इन कार्मिकों को सांफ्ट किल्लस का प्रशिक्षण दिया जाए।

सिंगल सुपर फॉस्फेट व एन.पी.के. का उपयोग करें किसान : चिन्मयी गोपाल

जयपुर । कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल की अध्यक्षता में पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में उर्वरकों की मांग, आपूर्ति, उपलब्धता एवं वितरण के सम्बन्ध में जिलों के विभागीय अधिकारियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उन्होंने कृषकों द्वारा डीएपी के स्थान पर सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं एनपीके को अधिकधिक उपयोग में लेने के लिए एवं विभागीय अधिकारियों को इसका प्रचार-प्रसार करने के लिए कहा।

कृषि आयुक्त ने बताया कि राज्य में इस वर्ष अच्छा मानसून होने से रबी फसलों की बुआई का क्षेत्र बढ़ने के कारण उर्वरकों की अतिरिक्त मांग सुजित होगी। राज्य में बुआई के समय उपयोग होने वाले उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं एवं किसानों की मांग के अनुरूप समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए एच संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

कृषि आयुक्त ने कहा कि उर्वरक आपूर्तिकर्ता कर्मचारियों एवं विक्रेताओं द्वारा यूरिया एवं डीएपी के साथ अन्य उत्पादों की टैंगिंग नहीं की जाये तथा सभी उर्वरक विक्रेता अपने पास उपलब्ध उर्वरकों का स्टॉक मात्रा एवं मूल्य सूची

■ 'यूरिया-डीएपी के साथ टैंगिंग कर अन्य उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही'

प्रदर्शित करें। उन्होंने कहा कि यदि इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो एफसीओ, 1985 के तहत सख्त कार्यवाही की जायेगी। चिन्मयी गोपाल ने जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जिले के उर्वरक विक्रेताओं के पास उपलब्ध स्टॉक का पीओएस स्टॉक से मिलान कर भौतिक सत्यापन करें। उर्वरक आपूर्तिकर्ता फर्मों के जिला प्रतिनिधियों से सम्बन्ध कर समुष्ण क्षेत्र में आवश्यकतानुसार समान रूप से उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले में उर्वरकों की कमी भी कोई कालाबाजारी तथा जमाखोरी नहीं हो। जिले में उर्वरकों के वितरण पर सतत निगरानी रखते हुए जिले के कृषकों को ही उर्वरकों का वितरण करें एवं राज्य के बोर्डर एरिया से उर्वरकों का परिगमन होने से रोके।

साइबर सुरक्षा की एडवाइजरी जारी

■ गृह विभाग ने इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए डी.जी.पी. साइबर क्राइम, एससीआरबी को पत्र लिखा है।

जयपुर । सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने साइबर सुरक्षा के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूपीआई फिशिंग धोखाधड़ी व ऑनलाइन नौकरी धोखाधड़ी के संबंध में एडवाइजरी जारी की है।

गृह विभाग की संयुक्त शासन सचिव पूजा पार्थ ने बताया कि इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए पुलिस महानिदेशक, साइबर क्राइम, एससीआरबी एवं तकनीकी सेवाएं को पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि बैंकिंग संबंधी मुद्दों में मदद के बहाने जालसाज पीड़ितों से उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर लिंक अप्रेषित करने के लिए कहते हैं और पीड़ित के बैंक खातों तक पहुंच जाते हैं। धोखेबाज लोग केवाईसी/आधार अपडेट करने के बहाने से भी ओटीपी या साइबर सुरक्षा करने की कहकर धोखाधड़ी कर सकते हैं। स्वयं को बैंक अधिकारी बताते वाले किसी भी व्यक्ति को ओटीपी या लिंक साझा

न करें। रिफंड पाने आदि के लिए गुगल से प्राप्त कस्टमर केयर नम्बर पर कॉल करने वाले लोग इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त नौकरी की तलाश में अपना डेटा विभिन्न वेबसाइटों पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करने वाले उपयोगकर्ता के डेटा का उपयोग साइबर अपराधी अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर पंजीकरण एवं सेवा शुल्क की मांग करते हैं। ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए अपना आवेदन पंजीकृत वेबसाइट पर ही जमा कराएं।

बचाव के लिए सामान्य जागरूकता टिप्स

- ऐसे संकेतों पर ध्यान दें कि आपको कोई संदिग्ध ईमेल मिला है, जैसे ईमेल भेजने वाला, विषय, हस्ताक्षर। किसी ईमेल पर तुरंत भरोसा न करें, ध्यान से पढ़ें और फिशिंग संकेतों की जांच करें। जब तक लिंक किसी विश्वसनीय स्रोत से न हों, तब तक उन पर क्लिक करने से बचें।
- अगर किसी ऐसे नंबर से टेक्स्ट मिलता है जिसे पहचानने नहीं है तो उस ध्यान से पढ़ें। अगर स्मिशिंग टेक्स्ट भेजेज मिला है, तो उसका जवाब न दें। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति या असुरक्षित साइट को व्यक्तिगत या संवेदनशील जानकारी न दें जिसे आप नहीं जानते। अगर मैसेज/कॉल में किसी तरह की अत्यावश्यकता की भावना हो, तो हमेशा संदेह करें। फोन कॉल के दौरान सतर्क रहें और ध्यान दें।
- व्यक्तिगत रूप से या फोन पर जानकारी मांगने वालों की पहचान सत्यापित करें। फोन कॉल पर अपने बैंक खाते का विवरण, व्यक्तिगत जानकारी, ओटीपी आदि साझा न करें। क्योंकि इससे साइबर अपराधियों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सक्रिय हो सकती है, जिससे पैसे की हेराफेरी हो सकती है। अपने पासवर्ड को नियमित रूप से बदलें। ट्विटावरस इंस्टॉल करें और नियमित रूप से अपडेट करें।

गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना में प्रदेशभर में लगाए जाएंगे कैप

जयपुर । मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा गो-पालक परिवारों के लिये किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर शुरू की गई गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की क्रियान्विति के लिये राज्यभर में आगे सप्ताह से एक पखवाड़े तक कैम्प लॉगे। योजना में पात्र गोपालको को एक वर्ष की अवधि के लिये एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। आगामी 25 सितम्बर से 9 अक्टूबर तक की अवधि के दौरान ब्लॉक स्तर पर डेयरी समितियों और केन्द्रीय सहकारी बैंक (पैक्स) के संयुक्त कैम्पों में गोपालको से ऑनलाइन आवेदन लिये जाएंगे।

■ गौ-पालकों को एक वर्ष की अवधि के लिये एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा

यह जानकारी देते हुए राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबन्ध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में गोपालको को डेयरी से संबंधित गतिविधियों जैसे गौवंश हेतु शैंड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध, चारा, बांट के उपकरण खरीदने के लिये किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट योजना की क्रियान्विति की जा रही है। प्रथम चरण में 5 लाख गौ-पालक परिवारों को ऋण उपलब्ध कराये जाएंगे, और इस योजना पर आगामी वर्ष 150

करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि गोपालको को ऋण के लिये ऑनलाइन आवेदन हेतु राज्यभर के जिला दुग्ध संघों को पैक्स बैंक के साथ मिलकर ब्लॉक स्तर पर कैम्प आयोजित करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। एक गोपालक परिवार से एक सदस्य जो कि सहकारी डेयरी समिति को दूध का बेचान करता हो, को प्राथमिक दुग्ध समिति की अनुशंसा पर ऋण प्राप्त कर सकता है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत ऋण हेतु गोपालक से कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जावेगा। गोपालक द्वारा समय पर अथवा समय से पूर्व चुकाए किये जाने पर आगामी क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 25 सितम्बर से 9 अक्टूबर के दौरान गोपालक संयुक्त शिविरों में किसानों से आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं।

सार-समाचार

आई.सी.आई.सी.आई. पेंशन प्लान लॉच
जयपुर । आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में "आईसीआईसीआई प्रू सिनेजर पेंशन" प्लान लॉन्च किया है, जो पॉलिसी होल्डर्स को रिटायरमेंट के लिए एक बेहतर तरीका फंड बनाने में मदद करता है। पेंशन प्लान के साथ ही कंपनी ने दो नए फंड्स - पेंशन इंडिया ग्रोथ और पेंशन बैलेंस फंड भी लॉन्च किए हैं, जिससे ग्राहकों के फंड को और बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिल सकेगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर अमित पाल्टा ने कहा कि यह प्रोडक्ट हमारे ग्राहकों को उनका रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करेगा, जिससे वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे और साथ ही भारत के विकास में भी अपना योगदान दे सकेंगे। इस पेंशन प्लान की खासियत यह है कि आप रिटायरमेंट के बाद 60 प्रतिशत तक का फंड बिना किसी टैक्स के निकाल सकते हैं। साथ ही, अगर कभी कोई इमरजेंसी आती है, तो पॉलिसी होल्डर्स आंशिक निकासी भी कर सकते हैं। पॉलिसी होल्डर्स को पास अपनी आय शुरू करने के लिए दो विकल्प मिलेंगे। रिटायरमेंट से पहले या रिटायरमेंट के बाद भी। गंधार बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में भी ग्राहक अपनी पेंशन योजना जारी रह सकती है, जिससे रिटायरमेंट योजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह पेंशन प्लान पॉलिसी होल्डर्स को बिना किसी परेशानी के अपनी रिटायरमेंट बचत को बढ़ाने का मौका देता है।

मेट्रो कर्मचारियों को दिलाई शपथ



जयपुर । जयपुर मेट्रो में 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक "स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024" स्वभाव स्वच्छता-संस्कार स्वच्छता थीम के साथ आयोजित किया जा रहा है। जयपुर मेट्रो के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वैभव गालरिया ने बताया कि स्वच्छता अभियान का उद्देश्य न केवल शहर को स्वच्छ बनाना है, बल्कि सभी नागरिकों के भीतर स्वच्छता को एक आदत के रूप में स्थापित करना भी है। इस अभियान के तहत जयपुर मेट्रो के मानसरोवर मेट्रो डिपो में सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को स्वच्छता शपथ भी दिलाई गयी। अभियान के दौरान मेट्रो परिसर में सफाई के साथ-साथ स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर, श्रमदान कार्यक्रम, पौधारोपण, कार्यालयों का निरीक्षण कर ब्लैक स्पॉट समाप्त करना, जागरूकता संदेशों का प्रचार-प्रसार करने संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा।

राज्य कर्मचारियों ने मनाया ज्ञापन दिवस

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वित्त एवं विनियोग विधेयक में राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को लेकर की गई घोषणा की क्रियान्विति नहीं होने के विरोध में शुक्रवार को हजारों राज्य कर्मचारियों ने अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के आह्वान पर पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिवस मनाया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन प्रस्तुत किया। राजधानी जयपुर में यह ज्ञापन महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठीड़ व जिला अध्यक्ष छोटेलाल मीणा को अगुवाई में गए एक शिष्ट मंडल ने मुख्य सचिव को सौंपा। वार्ता में मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि वेतन विसंगति परीक्षण समिति की रिपोर्ट को लागू करने के संबंध में वित्त विभाग से जानकारी ली जाएगी और अन्य मांगों पर वित्त विभाग स्तर पर वार्ता आयोजित कपाई जाएगी। महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठीड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 29 जुलाई 2024 को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की शेष सिफारिशों को 1 सितंबर 2024 से लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट को सरकार ने आज तक सार्वजनिक नहीं किया है। इससे प्रदेश के राज्य कर्मचारियों में काफी आक्रोश है।

कोल्ड स्टोरेज पर 1.40 करोड़ तक अनुदान

जयपुर । कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कृषक उद्यमी या कृषक समूह को कोल्ड स्टोरेज बनाने पर अधिकतम 1 करोड़ 40 रुपये तक का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता 4 अक्टूबर तक सम्बन्धित जिले के उद्यानिकी विभाग कार्यालय में आवेदन कर अनुदान का लाभ ले सकते हैं। गालरिया ने पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में राजस्थान हॉर्टिकल्चर डवलपमेंट सोसायटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोल्ड स्टोरेज पर राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन योजनातर्गत 250 मेट्रिक टन से लेकर अधिकतम 5 हजार मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज बनाने पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। कोल्ड स्टोरेज बनाने पर इकाई लागत का 8 हजार रुपये प्रति मेट्रिक टन से गणना कर अधिकतम 5 हजार मेट्रिक टन पर इकाई लागत का 35 प्रतिशत या अधिकतम 1 करोड़ 40 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है।

स्मैक-गांजा तस्कन गिरफ्तार

जयपुर । जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान के तहत चौमू और सिंधी कैप थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए स्मैक और गांजा की तस्करी करने वाले दो तस्करो को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 25.77 ग्राम स्मैक, 15 किलो 900 ग्राम गांजा सहित परिवहन में प्रयुक्त एक दुपहिया वाहन भी बरामद किया है। पुलिस आयुक्त (अपराध) अरशद अली ने बताया कि सीएसटी ने चौमू और सिंधी कैप थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए स्मैक और गांजा की तस्करी करने वाले बाबुलाल स्वामी निवासी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना और उदय कुमार यादव निवासी नानपुर जिला सीतामढी (बिहार) को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से पुलिस ने 25.77 ग्राम 77 मिलीलीटर स्मैक, 15 किलो 900 ग्राम गांजा सहित परिवहन में प्रयुक्त एक दुपहिया वाहन जब्त किया है।

#PARENTING

Make Reading Exciting

Try doing voices, picking books that your child loves, and more, to make reading pleasurable.




How can you continue to make reading exciting so that your child won't turn their attention to television or the tempting mélange of electronic gizmos at her disposal? You can't if you race through a story in a monotone so that you can pop off the light at bedtime. Instead, read aloud with gusto, exhilaration, and joy. Make kids feel the roiling seas and the warm breezes that blow on a summer night. When reading is a pleasurable experience, children stay connected to the story, and to you.



How to make the most of your reading time

- **Ham it up!** Read slowly enough for your child to build mental pictures of what he hears. Stop periodically so that he can study pictures in the book without feeling hurried. Raise or lower your voice to build drama and suspense. Dialogue adds life to a story. So, scan a book before you read, and follow the implied stage directions. If a character shouts, raise your voice! If he speaks in a stern voice, do the same.
- **Vary your subject matter as well as the kinds of things you read.** Wordless picture books give kids the chance to tell their own stories as they 'read.' Jump-starting the creative process. Let your child's imagination soar, and show her how excited you are by her ideas.
- **Hunt for books that match your child's interests.** When you make a point of finding books on subjects dear to your child's heart, you not only stimulate his interest in literature, but also let him know that you value what he thinks and does.
- **Look for books that interest you too.** Enthusiasm is contagious. If you're excited by an author or a storyline, your child will be too. The world
- of books provides a safe, inexpensive way to explore new subjects, travel to Japan, read about sports heroes, learn how astronauts prepare for space.
- **Foster closeness between siblings.** If your children are several years apart, you may want to schedule individual reading times as they get older to ensure that the books are at the appropriate reading level. But don't forsake family reading. Suggest that older kids read to younger ones.
- **Help your child notice new information as you read.** By sharing your feelings about a story, you motivate your child to do the same. By asking her opinions and listening to them without judgment or criticism, you let your child know that you value her feelings and ideas and respect her judgment.
- **Let her read to you.** Once your child starts to read, vary your ritual by taking turns reading to each other, and don't be too quick to correct a beginner. If your child mispronounces or incorrectly sounds out a word, wait until he finishes the page or the thought so that you don't discourage his attempts. Then say, "Did that word make sense?"
- **Get her a library card.** Most public libraries issue cards when a child is five or can write her name. Celebrate the event, and check out library reading hours and family reading times as well as book clubs and other motivating programs.




POSTER OF MUSIC OF SATYAJIT RAY.



Dr. Shoma A. Chatterji
Film Scholar,
Journalist & Author


Utpalendu Chakrabarty's life story spells out more of tragedy than was observed in his films. He is one director who never wore a halo around his head, though he could have, if he had wanted to. Because he was counted among the most outstanding filmmakers after the milestones in Bengali and then international cinema, like Gautam Ghose, Buddhadeb Dasgupta and Aparna Sen.

Each of these stalwarts has carved their names in golden letters in the post-Ray-Sen-Ghatak era and has established his/her personal oeuvre and signature in and through the films that they have made. But the difference between these three and Utpalendu is that though he won many National Awards, followed



POSTER OF DEBSHISHU.


After *Chhandaneer*, a biographical fiction on a Bharatnatyam dancer, which was worlds apart from the kind of films that he had made till then, Utpalendu's career as a director clambered down to never rise again. It was completely out of his system, ran against his ideology of humanism at its tragic best, and turned out to be a terrible cinematic disaster. No producer was willing to touch him with a ten-foot-long pole after this film, but his telefilms were quite good.



POSTER OF CHOKH.

Utpalendu Chakrabarty Made It But Didn't

#TRIBUTE



His personal life was also riddled by tragedy. He divorced his first wife, Indrani Chakrabarty, after they had a son and married filmmaker and poet, Satarupa Sanyal, whose career in films began under his directorial baton. But this marriage, too, ended after two daughters because, according to Satarupa, Utpalendu had turned into an alcoholic. His death was quite tragic as he died alone, taken care of by his long-time assistant, Arghya.

acquiring a Master's Degree in Modern History from the Calcutta University (1967), he was deeply involved with the CPI (ML) led student agitations, and reportedly, was jailed several times. As a filmmaker, completely self-taught, he infused almost every film, that he made, with strong political commentary. After his post-graduation, he wrote short stories, underlined by his political philosophy of the extreme Left. He also joined first as an informal teacher among the tribals of Bengal, Bihar and Orissa. But always being of very indifferent health, he was forced to come back to his hometown Kolkata in 1971, where he took up the job of History teacher in a higher secondary school. But he also began to make films and became so busy, that finally, he had to quit his teaching job.

Prasab, a feature film, spelt out an interesting story of a young wife with a small child, forced to live under the shelter of a political activist and his sister-in-law, as her husband, a political extremist, is in prison. How she walks out of this friend's home when his sister-in-law is killed in an attack by extremists to move away into a village with her baby, how she fights her escape against some extremists by pretending to be pregnant and hiding important documents of the underground movement inside her garment, where she pretends to be a *Punjabi*, clothed in *Punjabi* attire, depicts the inner strength of an ordinary woman placed in extra-ordinary circumstances. In retrospect, the film looks rather outdated in terms of its technical and aesthetic finesse

but considering that it was made by a new filmmaker, it made a strong political statement against the backdrop of the extremist movement in West Bengal. Besides, there seems to have been no attempt by any organization, including the NFAI and others, to make efforts to preserve the original prints of the films, as a consequence of which, none of the prints that you get to watch are clear and lucid while some are not available for viewing at all.

He won the *Indira Gandhi National Award* for the Best Film of a Debut Director, for his film *Moyna Tadamta* in 1980. However, it is extremely difficult to access his films for wider viewing. Research on his films is also conspicuous by its absence. Chakrabarty was also known for his wonderful ear for music, and often, he composed the music of his films himself. *Chokh* (Eyes) (1982) is the first feature film of Utpalendu Chakrabarty, which drew attention with its strong indictment against a corrupt system, where a sympathetic gesture like the donation of one's eyes for someone who is blind can be subjected to political manipulation of the medical fraternity by vested interests. Chakrabarty was involved in politics in his student life and spent some time in Purulia among the tribals. At the 30th National Awards, the film beat Mrinal Sen's *Kharaj* to win the Best Feature Film for 'its courage in exposing an aspect of contemporary reality which has great social relevance, and for doing so, with passion and integrity.' Chakrabarty had also received the award for 'best direction' for the same film, a rare achievement for a new director. *Chokh* also won the *OCIC Award* at the Berlin International Film Festival in 1983. The time setting of the film is 1975, during the Emergency. The place setting is Kolkata, captured in its sole public screening. This film won National Film Award for Best Non-Feature Film at the 32nd National Film Awards in 1984. His last documentary, perhaps, was on *Children in the Cinema of Satyajit Ray*, which, sadly, was never released.

tragedy of a very poor couple, where the wife has delivered a physically deformed child whom they are forced to sell to a small time owner of a wandering carnival for a meagre price because a pundit says that the baby is a child of the Devil. This forced 'sacrifice' pushes them into more tragedies while the carnival owner, who bought the child, becomes rich by displaying the child to a ticketed party. The seriousness of the film is partly undercut with the colourful poster of Smita Patil, designed in stark contrast to her character in the film, and the film, itself. The brilliant performances by Sadhu Meher and Smita Patil as couple and Om Puri as the carnival owner enrich the film's visual and aesthetic texture.

Between these two films, Chakrabarty made a powerful documentary on *Music of Satyajit Ray* (1984), which this writer happened to watch at Kolkata's Russian Cultural Centre, perhaps in its sole public screening. This film won National Film Award for Best Non-Feature Film at the 32nd National Film Awards in 1984. His last documentary, perhaps, was on *Children in the Cinema of Satyajit Ray*, which, sadly, was never released.

After *Chhandaneer*, a biogra-

phical fiction on a Bharatnatyam dancer, which was worlds apart from the kind of films that he had made till then, Utpalendu's career as a director clambered down to never rise again. It was completely out of his system, ran against his ideology of humanism at its tragic best, and turned out to be a terrible cinematic disaster. No producer was willing to touch him with a ten-foot-long pole after this film, but his telefilms were quite good.

His personal life was also riddled by tragedy. He divorced his first wife, Indrani Chakrabarty, after they had a son and married filmmaker and poet, Satarupa Sanyal, whose career in films began under his directorial baton. But this marriage, too, ended after two daughters because, according to Satarupa, Utpalendu had turned into an alcoholic. His death was quite tragic as he died alone, taken care of by his long-time assistant, Arghya, in a flat given to him by the West Bengal Government. Like his films, his life too, spells out a very sad tale.


One sad reality of Chakrabarty is that there has been very little research on his films as an auteur of great merit and greater courage.

rajeshsharma1049@gmail.com




POSTER OF CHHANDANEER.

THE WALL



BABY BLUES



ZITS



By Rick Kirkman & Jerry Scott

By Jerry Scott & Jim Borgman

#HERITAGE

Decoding The Nation's Love Affair With Tea

India is a land of *chai* and *chaiwalas*, and on *National Chai Day 2024*, we honour the country's beloved beverage.

"*chai peeni hai!*" This phrase is as familiar as it is inescapable, if you live in an Indian household. Tea is an indispensable part of being 'an Indian.' Tea is not just a beverage in India, tea is an emotion.

In all our memories rooted in our inherent *Indianness*, 'chai' has been an intrinsic part of them all. Be it those rainy evenings, stuck inside the house, having endless cups of *masala chai* with *pakoras*, or lazing on a hot summer afternoon, when the refreshing lemon tea would come to our rescue. Whether it was skipping classes in college to sit at the roadside *tapri*, clutching a *kadak kullhad* of *chai* and talking about politics, or the shrill call of the *chaiwala* on trains, waking you up at the crack of dawn, this sweet concoction has always had a permanent spot in the lives of Indians. India is a land of *chai* and *chaiwalas*, and on *National Chai Day 2024*, celebrated annually on September 21, we honour the country's beloved beverage by diving deeper into our cups to explore the diverse varieties of tea, enjoyed across the nation.



India's Diverse Chai Varieties

India, with its diversity and multicultural preferences, couldn't have gone with just a single variety of tea. As varied as its culture, the preparation of tea also follows the same rules. Here are some of the popular ways in which India consumes its *chai*.

Butter Tea (Gur Gur Chai), Tibet

Butter tea, known as *Gur Gur Chai*, enjoys popularity in Ladakh and Sikkim. Traditionally crafted from tea leaves, yak milk, butter, water, and salt, this hearty brew is cherished by Himalayan nomads, who consume some over 30 cups daily. It is also made with cow butter and served in small cups that leave you craving more.

Kahwa, Kashmir

Hailing from the picturesque valleys of Kashmir, *Kahwa* is an exotic *chai*, bursting with rich flavours. Preparing this concoction is surprisingly simple, just boil water and add cinnamon, saffron, cardamom, dried rose petals, and green tea leaves for the desired strength. Top it off with honey and almond slivers for a truly indulgent experience. *Kahwa* is the perfect companion on a chilly winter day.



Masala Chai

India's status as the world's leading tea exporter traces back to its colonial history. Yet, the country's diverse culinary traditions birthed *masala chai*, a beloved concoction of black tea, simmered with milk, sugar, and an array of fragrant spices like ginger, clove, cardamom, and cinnamon. Each Indian household boasts its exclusive *masala chai* recipe.

Lebu Cha, Kolkata

Lebu Cha, or spiced lemon tea, is Bengal's answer to flavourful *street-style chai*. This zesty infusion of black tea combines the essence of lemon with a unique blend of spices, curated by each street vendor. A final squeeze of lemon adds a tangy kick to this delightful *chai*. It's reminiscent of classic lemon tea but a distinct *desi* twist makes it a must-try, when in the city of joy.

Kangra Chai, Himachal Pradesh

Himachal Pradesh's Kangra region reigns as North India's tea capital. The lush, green gardens of Palampur offer a haven for tea enthusiasts. *Kangra chai*, both green and black, has been cultivated here since the mid-19th century. It boasts a fresh, vegetal aroma and a subtle pungent taste, making it a tea lover's dream.



राहुल गांधी को लेकर दिए विवादित बयानों के विरोध में धरना दिया

मदरसा बोर्ड चेयरमैन एमडी चोपदार समेत अन्य कांग्रेस नेता धरने में शामिल हुये

झुंझुनू, (निर्स)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा दिए जा रहे विवादित बयानों के विरोध में शुक्रवार को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। झुंझुनू में भी कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। कांग्रेस प्रवक्ता शाहबाज फारूकी ने बताया धरने में मदरसा बोर्ड चेयरमैन एमडी चोपदार समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा ने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी देश के हर वर्ग किसान, युवा, मंजला व्यापारी, महिला और मजदूर को आवाज सड़क से लेकर संसद तक उठा रहे हैं। उससे भाजपा बौखालाई है। अब उनके छूटते-पड़ते नेतृत्व और विवादित बयान दे रहे हैं। जिसके विरोध में कल जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पीसीसी



झुंझुनू में कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया।

चीफ गोविंद डोटासरा के नेतृत्व में धरना दिया गया था।

वहीं शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर धरना देकर भाजपा से मांग की जा रही है कि वे अपने ऐसे नेताओं को पद से मुक्त करते हुए उन पर कार्रवाई करें। अन्यथा कांग्रेस के

कार्यकर्ताओं ने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हैं। वे ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। राहुल गांधी को लेकर अशोभनीय भाषा बर्दाश्त नहीं होगी। धरने को मदरसा बोर्ड चेयरमैन एमडी चोपदार, प्रधान मनीषा गुर्जर खेतड़ी, पुष्पा चाहर झुंझुनू, हरिकृष्ण यादव

बुहाना, चिड़ावा पंचायत समिति सदस्य अमित ओला, ब्लॉक अध्यक्ष सुमेर सिंह महला गिडानिया, सुरेश मेघवाल मुकुंदगढ़, कार्यकारी जिलाध्यक्ष खलील बुडाना, राजकुमार राठी, मनोहर बाकोलिया आदि ने संबोधित किया।

इस मौके पर कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सैनी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अजमत अली झुंझुनू, कीरोडीमल पायल मंडावा, बीएल सैनी उदयपुरवाटी, सेवादल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हारून लालपुर, युनूस गौरी, सुभाष भांबू, सुभाष शर्मा, छात्र नेता मोहित जनेवा, मानसिंह सहायण, विकासचंद्र, विनोद कुलहरि, मदनलाल चौधरी, बजरंग पुनिया, रोहितारवसिंह, शीशराम, वीरेंद्र पुनिया, दिलीप डिग्रवाल, पार्षद भंवर अली, उममेद अली, प्रेम कर्मा, राजेश कुमार, संजीव कुमार बाडलवास, सुरेंद्र गोवला, रामचंद्र कृष्णियां, मुबारक अली हैबत, चुन्नीलाल चनेजा, योगेश सोनी, रामकरण सैनी, श्रीचंद झाड़िया, मोहम्मद तौफिक कुरैशी, जुबेर पार्षद, मोहम्मद जौफिक सैयद, पार्षद ताराचंद सैनी, पवन तंवर, आजम भाटी, महेंद्र सैनी व सुभाष सेवदा आदि मौजूद रहे। संचालन शमशाद खान ने किया।

घायल युवक की हालत गंभीर, बाजार बंद रहे

भीलवाड़ा, (निर्स)। कोटड़ी थाना क्षेत्र के नंदराय कश्ये में शुक्रवार सुबह रंगर समाज के लोगों ने युवक दीपक के साथ मारपीट करने वाले दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करने से प्रशासन पर लापरवाही आरोप लगाते हुए बाजार बंद करवाकर कश्ये के बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सर्व समाज ने भी प्रदर्शन में भाग लिया।

सर्व समाज के लोगों ने बताया कि समय रहते पुलिस प्रशासन दोषी व्यक्ति को मामूली धारा में गिरफ्तार कर के उन्हें छोड़ दिया गया था, जिसके बाद दोबारा दीपक के साथ मारपीट हुई, जिसके चलते यह हालात पैदा हुए। प्रदर्शनकारी ग्रामीण मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों

को बुलाने पर अड़े रहे। रतन लाल रेगर ने बताया कि नौ सितंबर को दीपक रेगर के साथ पीलिया की झुपड़िया के चार-पांच युवकों ने मारपीट की थी। इसको लेकर दीपक के परिजनों ने कोटड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस प्रशासन ने इस मामले गंभीरता से नहीं लिया जिसके कारण 18 सितंबर को उन्होंने युवकों ने कोटारी नदी पुलिया पर रोककर मारपीट की जिसके कारण दीपक कुमार गंभीर घायल हो गया। दीपक को घायल अवस्था में निजी वाहन से जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां दीपक की हालत गंभीर होने पर उसे उदरपुर रेफर किया गया।

वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिशें लागू करने की मांग

अजमेर, (कांस)। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के बैनर तले शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पर पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के बाद भी अभी तक समिति की सिफारिशें लागू नहीं करने पर विरोध जताया और जिला कलेक्टर लोक बंधु को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपकर वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिशें लागू करने की मांग की।

कर्मचारी संयुक्त महासंघ के नेता कांति कुमार शर्मा ने बताया कि 29 जुलाई 2024 को विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान घोषणा की गई थी कि राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन विसंगति

कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

परीक्षण समिति की शेष सभी सिफारिशों को 1 सितंबर 2024 को लागू कर दिया जाएगा। इसके बावजूद सरकार ने अब तक समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है, जिससे राज्य कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। शर्मा ने बताया कि महासंघ ने मांग की थी कि कर्मचारियों को अर्जित अवकाश की सीमा को तीन सौ दिन से बढ़ाकर सेवानिवृत्ति तक जोड़ा जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को 10 प्रतिशत ग्रामीण भत्ता प्रदान किया

जाए। राजस्थान परिवहन निगम को राजस्थान सरकार के विभाग के रूप में समाहित किया जाए और रोडवेज कर्मचारियों को पेंशन व वेतन का भुगतान सरकार को ट्रेजरी से किया जाए। मुक्त आश्रितों के मामले में टंकण परीक्षा विभागीय स्तर पर कदाई जाए। पेंशनर्स को पेंशन वृद्धि को 65, 70, 75 और 80 वर्ष की आयु पर क्रमशः 5-5 प्रतिशत की दर से लागू किया जाए। वरिष्ठ अध्येत्यों और प्रधानाध्यापकों को उनकी एडहॉक प्रमोशन की तिथि से नियमित पदेवृत्ति दी जाए। शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों को कार्य क्षमता में सुधार लाने के लिए एक निश्चित समायोजन विभागीय स्तर पर औरिगेंडेशन और रिफ्रेशर कोर्स चलाने की मांग की है।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सख्ती का असर

एसडीएम ने नगर परिषद से वसूली कर आयोग में वसूली राशि का डीडी जमा करवाया

झुंझुनू, (निर्स)। मंडेला रोड स्थित अफोर्डेबल हाउसिंग सोसायटी प्रोजेक्ट में अंधेरे पड़े फ्लैट्स के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सख्ती का असर अब दिखने लगा है। उपभोक्ता आयोग द्वारा दी गई व्यक्तिगत पेशी की अंतिम तिथि से एक दिन पहले शुक्रवार को ही झुंझुनू उपखंड अधिकारी ने परिवादी चंद्रशेखर के मामले में नगर परिषद से वसूली कुर्क वारंट की पालना में चार लाख 23 हजार सात सौ रूपए का डिमांड ड्राफ्ट तहसीलदार के माध्यम से लेकर जिला आयोग अध्यक्ष मनोज मील के समक्ष पेश होकर वसूली योग्य राशि का डिमांड ड्राफ्ट जमा करवाया है। गौरतलब है कि

उपभोक्ता आयोग ने एसडीएम को नोटिस जारी कर 21 सितंबर तक वसूली कुर्क वारंट की पालना नहीं करने पर जिला आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने एवं आयोग के न्यायिक आदेश की अवज्ञा करने पर विधिक कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए पर स्पष्ट करने को आदेशित किया था।

जिला आयोग अब यह अवार्ड राशि 4,23,700 रूपए के डिमांड ड्राफ्ट परिवादी को सौंपेगा। परिवादी चंद्रशेखर ने इस मौके पर उपभोक्ता आयोग को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इससे इस प्रोजेक्ट से जुड़े बाकी उपभोक्ताओं को भी न्याय की आस बंधी है। गौरतलब है कि जिला

कलेक्टर रामावतार मीणा ने भी कार्यभार ग्रहण करने के बाद गे 12 सितंबर को एसडीएम को पत्र लिखकर इस मामले में नगर परिषद से वसूली के स्पष्ट निर्देश दिए थे।

वारंट की पालना करवाने में तहसीलदार सुरेंद्र चौधरी की भी अहम भूमिका रही। कई बार वसूली कुर्क वारंट की पालना करवाने नगर परिषद पहुंचे तहसीलदार ने उपभोक्ता आयोग व जिला प्रशासन के आदेशों की पालना में शुक्रवार को सुबह से ही नगर परिषद में डेरा डाल रखा था। ध्यान रहे नगर परिषद से राशि नहीं वसूल किए जाने की स्थिति में नगर परिषद कार्यालय को सीज किए जाने की कार्रवाई भी की जा सकती थी।

10 तोला सोना व 5 किलो चांदी के जेवर चोरी

भीलवाड़ा, (निर्स)। पड़ोसी जिले शाहपुर के गोवर्धनपुरा में गुरुवार रात करीब 12 बजे तीन अज्ञात नकाबपोशों ने दीवार फांद कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

जानकारी के अनुसार खामोर से डियास के रास्ते पर पथवारी के पास स्थित नानू राम गुर्जर के मकान में पहले मुख्य द्वार के बंद गेट से कूदकर अंदर पहुंचे नकाबपोश बदमाशों ने सभी परिवार के सदस्यों के कमरे के गेट बाहर से बंद किये, नानूराम की पत्नी मंजू देवी के कमरे के गेट की कुंजी तोड़कर अंदर स्थित मंजू देवी के गहने खुलवाए तथा कमरे में छोटे-छोटे बक्से में करीब 10 तोला सोना और 5 किलो चांदी के जेवर ली गए। कमरे में बक्से व अन्य सामान को तितर-बितर कर गए। वारदात के बाद शुक्रवार सुबह थानाधिकारी देवराज सिंह, विष्णु सिंह सहित जाफा मौके पर पहुंचा और वारदात स्थल का मौका मुआयना किया तथा परिजनों से

दीवार फांदकर घर में घुसे तीन नकाबपोश बदमाशों ने वारदात की थानाधिकारी सहित जाफा मौके पर पहुंचा और मौका मुआयना किया

मामले की जानकारी जुटाई।

पड़ौता मंजू देवी ने बताया कि तीन अज्ञात नकाबपोश दीवार कूदकर घर में घुसे, जिनके हाथों में चाकू थे। चाकू से डरा धमकाकर सोने के झुमर, रखड़ी, रामनवमी, चांदी की दो कनगती मॉदरिया सहित करीब 10 तोला सोना और 5 किलो चांदी चोरी कर ले गए। सुबह जब नानूराम ड्यूटी से घर आया तो मामले की जानकारी पत्नी ने पति को बताई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

भीलवाड़ा, (निर्स)। जिले के मांडल कश्ये में लंबे समय से बस स्टैंड स्थित यात्री प्रतीक्षालय में अवैध रूप से जमावड़ा लगाकर बैठे रहने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ शुक्रवार को ग्राम पंचायत के सरपंच के नेतृत्व में वार्ड पंचों ने पुलिस उपाधीक्षक मेधा गोयल को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। सरपंच संजय भंडिया ने बताया कि पूर्व में कई बार मांडल थानाधिकारी को भी सूचना देकर अवरगत कराया किंतु इसे गंभीरता से नहीं लेने पर शुक्रवार को कोरम के दौरान उठे मुद्दे पर सभी एकरित होकर पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय पहुंचे जहां उपाधीक्षक गोयल ने मामले की गंभीरता देखते हुए शीघ्र पुलिस जाफा भेज कर यात्री प्रतीक्षालय से ऑटो रिक्शा चालकों को हटाया और बिना परमिट वाले ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही पाबंद कर पुनः वहां जमावड़ा नहीं लगाने के निर्देश दिए।

25 हजार रुपये का इनामी आरोपी गिरफ्तार

आरोपी दर्शन गुर्जर लगातार फरारी काटने के स्थान बदल रहा था

करोली, (निर्स)। करोली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिले के टॉप 10 बदमाशों में शामिल 25 हजार रूपए के कुख्यात इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

जिला पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि संगठित अपराधियों, माफियाओं, हार्डकोर अपराधियों एवं समीपवर्ती राज्यों के अपराधिक तत्वों की निगरानी तथा गिरफ्तारी हेतु गठित जिला स्पेशल टीम करोली द्वारा तीन माह से फरार इनामी कुख्यात हिस्ट्रीशीटर दर्शन गुर्जर को रात्रि के समय राजपुर के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के स्थान बदला था। आरोपी के छुपने के क्षेत्र मासलपुर, महुआ, जयपुर, मध्य प्रदेश एवं गुजरात में छुपे होने के इनपुट प्राप्त हुए लेकिन आरोपी बार-बार अपनी लोकेशन बदल देता था। कुछ दिन पहले आरोपी दर्शन गुर्जर के विकास जोशी

आरोपी के छुपने के क्षेत्र मासलपुर, महुआ, जयपुर, मध्य प्रदेश एवं गुजरात में छुपे होने के इनपुट प्राप्त हुए लेकिन आरोपी बार-बार अपनी लोकेशन बदल देता था

गांव एवं आसपास के इलाके में सोने का स्थान हर दो घंटे में बदल लेता था एवं ज्यादातर ऊंचे स्थान को चुनता था, ताकि पुलिस का आने का आसानी से पता लग सके। इसी सच कार्रवाई के दौरान बीती रात्रि को आरोपी के गांव राजपुर के जंगल में बनी हुई पानी की टंकी की सीढ़ियों पर सोने की इतला प्राप्त हुई।

सूचना पर पुलिस बल के साथ ब्रीफ कर करीब 2 किलोमीटर पैदल जंगलों के रास्ते होकर टंकी को चारों तरफ से घेर लिया। आवाज सुनकर आसपास के कुत्ते भोकने लगे जिनकी आवाज सुनकर आरोपी दर्शन गुर्जर टंकी कि सीढ़िया से कूद कर भागने लगा जिसको कांस्टेबल रजो सिंह, रामदास एवं नेमीचंद, वीरेंद्र ने दबोच लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है। वहीं आरोपी के विरुद्ध करोली कोतवाली, वजीरपुर थाना, सदर करोली, महुआ, महिला थाना करोली में करीब एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं।

गणेश पांडाल में मृत पशु अवशेष डालने के प्रकरण में पुनः जांच की मांग

शाहपुरा/भीलवाड़ा, (निर्स)। सर्व हिन्दू समाज शाहपुरा द्वारा 18 सितंबर को चमना बावड़ी शाहपुरा के गणेश पांडाल में एक महिला द्वारा साजिश मृत पशु के अवशेष डालकर धार्मिक स्थान की पवित्रता भंग की तथा धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई है। जिला पुलिस प्रशासन द्वारा शुरुआत से ही दुलमुल रवैया अपनाते हुए लापता की का प्रयास करते हुए दोपहर बाद मामले का पताक्षेप घोषित कर दिया था, लेकिन हिन्दू समाज के युवकों द्वारा जिला पुलिस एवं प्रशासन को आसपास के सीसीटीवी फुटेज दिखाकर यह साबित कर दिया कि इस सम्पूर्ण प्रकरण में फुटेज में दिख रही महिला एवं अन्य लोगों का हाथ है।

मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर दर रात्रि शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा ने वीडियो जारी कर उचित कार्रवाई करने की मांग की थी। इस पर हिंदू संगठन उम्मेद सागर सक्रिय



हिंदू संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।

पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस

दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए गए, वहीं पुलिस की कार्यशैली

पर सवालिया निशान भी उठाया। हिंदू संगठनों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन

अभियुक्तों की गिरफ्तारी किये जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

सोंप कर वापस नए सिरे से निष्पक्ष जांच की मांग की गई।

इस दौरान हिंदू संगठनों द्वारा दो दिवस में कठोर कार्रवाई की मांग की। मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने पर उठा आंदोलन की चेतावनी दी गई, जिसकी निम्नमेदारी प्रशासन एवं सरकार की होगी। नगर परिषद सभापति रघुनंदन सोनी, नगर अध्यक्ष राजेंद्र बोहरा पूर्व पालिका अध्यक्ष कन्हैयालाल धाकड़, विश्व हिंदू परिषद के कैलाश धाकड़, हनुमान धाकड़, दुर्गा लाल राजोर,सहित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

छात्राओं से छेड़खानी के मामले में शिक्षक और प्रिंसिपल निलंबित

मामले में शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग को जांच के निर्देश दिए थे

कोटा, (निर्स)। जिले के रामगंजमंडी उपखंड इलाके के सुकेत थाना एरिया के सरकारी स्कूल के व्याख्याता और प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। मामला छात्राओं से छेड़छाड़ से जुड़ा है। इस मामले में स्टॉफ और छात्राओं की शिकायत के बावजूद भी प्रिंसिपल ने कार्रवाई नहीं की थी। ऐसे में उन्हें भी सरकार ने निलंबित कर दिया है।

मामले में शिक्षा मंत्री मदनदिलाल ने गंभीरता दिखाई और शिक्षा विभाग को जांच के निर्देश दिए थे। प्रारंभिक तौर पर शिक्षक की गलती सामने आने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक, बीकानेर से निलंबन के आदेश जारी किए गए। निलंबन के दौरान दोनों का मुख्यालय बीकानेर निदेशालय किया गया है। पुलिस ने आरोपी व्याख्याता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले के अनुसार, स्कूल में राजनीति विज्ञान के व्याख्याता के खिलाफ छात्राओं ने प्रोटेस्ट किया था और जूते की माला लेकर भी पहुंची थी। साथ ही कुछ ग्रामीण आक्रोशित होकर स्कूल पहुंचे थे। उनका कहना है कि आरोपी शिक्षक

छात्राओं से अश्लील बातें करता है। साथ ही छेड़छाड़ की कोशिश भी करता है। इस संबंध में गुरुवार को तीन से चार घंटे तक स्कूल में हंगामा हुआ था। काफी मशक्कत के बाद पुलिस आरोपी टीचर को स्कूल से थाने लेकर आई थी। वहीं छात्रों की शिकायत पर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। भारी पुलिस जापे के बावजूद ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक से मारपीट की कोशिश की।

इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने आरोपी शिक्षक के सस्पेंशन आदेश जारी कर दिए हैं। प्रधानाध्यापक ने 12, 14 और 18 सितंबर को शिकायत आने के बावजूद भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक की उच्च अधिकारियों और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई। ऐसे में राज्य सरकार ने उन्हें भी संवेदनशील प्रकरण में लापरवाही बरतने के कारण सस्पेंड किया है।

समन्वित प्रयासों से सबका विकास और सशक्त-समर्थ भारत का निर्माण होगा : राज्यपाल बागड़े

बांसवाड़ा, (निर्स)। समन्वित प्रयासों से ही सबका विकास और सशक्त और समर्थ भारत का निर्माण होगा। जब हम 2047 में विकसित भारत की संकल्पना करते हैं तो ऐसे में हमें राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिये सामर्थ्यनुसार यत्न में आहुति देनी होगी। यह आव्हान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जीजीटीयू में "भविष्य का भारत और हमारा योगदान विकसित भारत 2047" के विशेष संदर्भ में आयोजित गोष्ठी में मुख्य अतिथि पद से किया।

उन्होंने कहा कि हमारे देश का समृद्ध अतीत इस बात का साक्ष्य है कि शक्तिपुंज युवाओं ने देश को दिशाएं तय की हैं। आज के युवा को न केवल अकादमिक वरन् वैज्ञानिक दृष्टि से भी संपन्न होना होगा। साथ ही नैतिक रूप से समृद्ध होते हुए राष्ट्रप्रेमी बनना पड़ेगा। इस लक्ष्य की पूर्ति में उच्च शिक्षा केन्द्र सबसे बड़े माध्यम बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी प्रार्थमिकताएं तय करनी होंगी वहीं स्वामी विवेकानंद, खुदीराम बोस के जीवन चरित्र को आत्मसात् करना



राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आयोजित गोष्ठी को संबोधित किया।

होगा। उन्होंने शहीदी मानाद्ध धाम के प्रणेता गोविन्द गिरि को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे महामानव थे जिन्होंने न केवल विदेशी हुकूमत के खिलाफ सशक्त जनोदोलन खड़ा किया वरन् सामाजिक चेतना को भी जागृत किया। उन्होंने कहा कि भविष्य

में भारत में डिजिटल विकास, स्टार्ट अप, सशक्त और सार्थक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में विकास होगा। वहीं पर्यावरण संरक्षण, हर गांव में बुनियादी सुविधाओं से युक्त होगा और अनुकूल अर्थव्यवस्था बनेगी वहीं शिक्षा व कौशल विकास

के क्षेत्र में नये मानक तय होंगे। साथ ही सनातन मूल्यों दूसरों के हित का चिंतन, राष्ट्रहित सर्वोपरि, सर्व भवन्तु सुखिनः आदि भावों के साथ ही समावेशी व सतत विकास होगा। प्रारंभ में स्वागत करते हुए कुलपति प्रो. केशव सिंह टाकुर ने विश्वविद्यालय की

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जीजीटीयू में "भविष्य का भारत और हमारा योगदान विकसित भारत 2047" के विशेष संदर्भ में आयोजित गोष्ठी में शिरकत की

विकास यात्रा पर प्रकाश डालते हुए भावी कार्यों और परियोजनाओं की जानकारी दी। राज्यपाल बागड़े ने प्रथम लोकसभाध्यक्ष जीबी मावलंकर के साथ के दिनों को याद किया। राज्यपाल बागड़े की सादगी का हर कोई कायल नजर आया। राज्यपाल ने संगोष्ठी से पूर्व परिसर में गुलाब-वाटिका में कदम्ब का पौधा रोपा और कैम्पस में बनने वाले दो भवनों विश्वविद्यालय के शोध अनुभाग के लिये कोटिलय शोध भवन एवं छात्रों के कल्याण और मार्गदर्शन केन्द्र स्वामी विवेकानंद छात्र-

कल्याण भवन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में प्रबंध मंडल के सदस्य और विधायक गढ़ी कैलाश मीणा, पूर्व सांसद मानसंकर निनामा, पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई, पूर्व विधायक बाटोल हेरेंद्र निनामा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष कृष्णा कटार, भाजपा जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष गोविन्द सिंह राव, जिले के वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी लालसिंह पाटीदार, न्यू लुक शिक्षण संस्थान निदेशक प्रदीप कोठारी, जीजीटीयू कुलातीकार हरिश आचार्य, पूर्व प्राचार्य डॉ. डीके जैन, विश्वविद्यालय के प्रो. अलका स्तोत्री, प्रो. मनोज पंड्या, प्रो. लक्ष्मण लाल परमार, डॉ. राकेश डामोर, डॉ. प्रवीण मीणा, डॉ. अर्पित पाठक, कैम्पस और रोजिनीयरिंग कॉलेज के संकाय सदस्यों के साथ विधासियों ने सहभागीता की। संचालन प्रभारी सम्बन्धिता डॉ. नरेंद्र पानेरी ने किया जबकि आभार कुलसचिव राजेश जोशी ने माना। न्यू लुक शिक्षण संस्थान की एनसीसी कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और बैंड पाटी ने स्वागत अभिनन्दन किया।

कार्यशाला आयोजित

कोटपूतली। स्थानीय राजकीय सरदार जनाना अस्पताल के सभागार में शुक्रवार को डिप्टी सीएमएचओ (प०क०) एवं जिला श्वय रोग अधिकारी डॉ. जयभगवान यादव की अध्यक्षता में टी. बी. मुक्त ग्राम पंचायत को लेकर खण्ड कोटपूतली की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जयपुर से आये अधिकारी डॉ. सुधीर शर्मा, डॉ. रक्षा गुप्ता का डॉ. जयभगवान यादव द्वारा स्वागत किया गया। एस्टीएस सुरेश सैनी ने खण्ड कोटपूतली की प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराया। रामरतन रावत द्वारा खुशी बेबी डिजिटल एएनएम अशा एप के माध्यम से घर-घर सर्वे करने का प्रशिक्षण दिया गया। डीटीओ द्वारा 2025 तक जिला कोटपूतली-बहरोड को टी. बी. मुक्त करने का संकल्प दिलाया गया। कार्यशाला में चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी में आने वाले मरीजों का तीन प्रतिशत आवश्यक रूप से जांच करने के निर्देश दिये गये। यदि दो सप्ताह से लगातार खांसी, बुखार, ज्वन का घटना, चेस्ट पैन एवं थकावट हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर जाकर जांच करवाये जाये। इस दौरान बीबीएमओ डॉ. पूरण चन्द गुर्जर, बीपीओ विजय तिवारी, नितिका शेखावत, लालचन्द गुर्जर, महेन्द्र स्वामी, राजवीर गुर्जर, प्रेमचन्द, नृसिंह शरण शर्मा, रजत सिंह, राकेश कुमार यादव सहित सीएचओ व एएनएम आदि उपस्थित रहे।

महिंद्रा कार एवं बुलेट बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौत

हादसे की रिपोर्ट मृतक के मामा ने दर्ज कराई है

राजगढ़। राजगढ़ बांटीकुई मार्ग पर गेट नंबर 142 नवनिर्मित आरोबी पर महिंद्रा कार एवं बुलेट बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई। गंभीर

■ हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हुई

घायल युवक दीपक पुत्र रामफूल की जयपुर ट्रामा सेंटर में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार राजगढ़ बांटीकुई मार्ग पर स्थित नवनिर्मित आर ओ बी पर बांटीकुई की ओर से आ रही महिंद्रा कार एवं बुलेट बाइक में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक निशांत पुत्र बट्टी प्रसाद 20 वर्ष निवासी भोली वालो का बास अलवर मार्ग राजगढ़ की मौके पर मौत हो गई। बाइक सवार युवक दीपक पुत्र रामफूल 22 वर्ष भोली वाला मोहल्ला अलवर मार्ग राजगढ़ हादसे में गंभीर घायल हो गया। इसे प्राथमिक उपचार के बाद राजगढ़ चिकित्सालय से रेफर कर दिया। इसकी ट्रामा सेंटर जयपुर में मौत हो गई। इस



हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई।

हादसे की सूचना पर चिकित्सालय परिसर एवं घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। चिकित्सालय परिसर इमरजेंसी कक्ष में चिकित्सा कर्मियों को लोगों का भारी जमावड़ा होने से परेशानी का सामना करना पड़ा। इस हादसे की सूचना पर परिजनों का

हाल बेहाल हो गया। इस हादसे की रिपोर्ट मृतक के मामा राजेंद्र सैनी निवासी आम की वाल राजगढ़ ने दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया कि उसका भांजा निशांत एवं दीपक घरेलू कार्य की वजह से बाइक पर सवार होकर सकट ट्राम जा रहे थे। पुलिस पर सामने से

महिंद्रा ट्यूबी के चालक ने तेज गति एवं लापरवाही से टक्कर मार दी जिससे उसके भांजे निशांत की मौत हो गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा कर पुलिस ने लाश परिजनों को सौंप दी।

सार-समाचार

रोशनी चौधरी रही प्रथम



निवाई। राजकीय कन्या महाविद्यालय में शुक्रवार को महाराणा प्रताप कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। महाविद्यालय प्राचार्य प्रो. पानमल पहाडिया ने इस अवसर पर महाराणा प्रताप के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्राचार्य पहाडिया ने कहा कि महाराणा प्रताप से सभी को देशभक्ति की शिक्षा टाहवा करनी चाहिए। एनएसएस प्रभारी डॉ. छोटलाल मीणा ने बताया कि प्रतियोगिता में मुस्कान चौधरी प्रथम, अंतिम चौधरी द्वितीय तथा रोशनी महारव तृतीय स्थान पर रही। निर्णायक मंडल में डॉक्टर कैलाश महारव व डॉक्टर मुकेश मीणा रहे।

चारागाह भूमि पर कब्जा

सावरदा। सावरदा ग्राम पंचायत क्षेत्र सहित आसपास गिदानी, अखैपुरा ग्राम पंचायत क्षेत्रों में चारागाह भूमि पर कब्जा कर मकान बनाकर रह रहे ग्रामीणों को भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। निकटवर्ती ग्राम पंचायत चैनपुर के मोरसर गांव में हाल ही में हाईकोर्ट के आदेश के बाद चारागाह भूमि में बसे करीब 53 कच्चे पक्के मकानों पर सरकारी बुलडोजर चलने वाला है। प्रशासन द्वारा मोरसर गांव के चारागाह भूमि में बने हुए सभी मकानों को चिह्नित कर दिया गया है। और प्रशासन द्वारा चिह्नित सभी मकानों को कभी भी जमींदोज किया जा सकता है। गौरतलब है चारागाह भूमि में बसे इन सभी घरों में बिजली, पानी आदि के सुविधा उपलब्ध होने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान भी बने हुए हैं।

जनसुनवाई आज

दूदू। जिला कलेक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी शनिवार को दूदू जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई करेंगे। इससे पूर्व जिला कलेक्टर डॉ सोनी 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा दोपहर 1 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई करेंगे। इस दौरान जिला कलेक्टर द्वारा जिला मुख्यालय पर विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण भी किया जायेगा।

ए.डी.एम. का स्वागत

कोटपूतली। कोटपूतली बार एशोसिएशन ने शुक्रवार को अध्यक्ष एड. दयाराम गुर्जर के नेतृत्व में एडीएम ओमप्रकाश सहारण का माला, साफा पहनाकर एवं गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया गया। उल्लेखनीय है कि एडीएम योगेश कुमार डागुर का अलवर स्थानान्तरण हो जाने पर उनके स्थान पर एडीएम ओमप्रकाश सहारण द्वारा कार्य भार ग्रहण किया गया है। इस दौरान उपाध्यक्ष सुशील कुमार यादव, कोषाध्यक्ष ज्योति शर्मा, सत्यवीर पायला, अनिल कुमार तंवर, डिप्टी चौधरी, अनिल आर्य समेत अन्य अधिकृतगण मौजूद रहे।

सुनील बंसल का जन्मदिन मनाया

कोटपूतली। कस्बे के मूल निवासी एवं भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल का जन्मदिन शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन किया गया। भाजपा नेता मुकेश गोयल के नेतृत्व में कस्बा स्थित श्री जयसिंह गौशाला में गौ सवामणी का आयोजन किया गया। वहीं नागाजी की गौर स्थित मोक्ष धाम पर कार्यक्रमों में वृक्षारोपण किया।

दो दर्जन चोरी की वारदातों का खुलासा

फुलेरा। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शान्तू कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वांछित व ईनाम आरोपीयों की धरपकड़ व प्रकरण में फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी व चोरी-नकबजनी की वारदातों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) डॉ. हरिप्रसाद सोमानी के निर्देशन एवं वृत्ताधिकारी सांभरलेक सारिका खण्डेवाल के सुपरविजन में फुलेरा थानाधिकारी बाबूलाल के द्वारा में पुलिस की 19 सदस्यों की टीमों गठित की गईं। पुलिस की गठित टीमों ने तुरन्त कार्यवाही करते हुए बावरिया गैंग के मुख्य आरोपी राजेश बावरिया को गिरफ्तार करते हुए दो बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए प्रथम घटना का संक्षिप्त विवरण

■ चोरी करने वाली सक्रिय बावरिया गैंग का हुआ खुलासा

बताया कि 29 व 30 अगस्त 2024 की मध्य रात्रि को क्षेत्र के गणगौरी बाजार स्थित दो कपड़ों की दुकान का शहर व ताले तोड़कर गल्ले से नकदी रुपये व सीसीटीवी की डीवीआर चुरा कर ले गये थे। वहीं द्वितीय घटना का संक्षिप्त विवरण बताया कि 9 सितम्बर 2024 की रात्रि को काचरोदा फाटक के पास दो दुकानों के ताले व शटर तोड़कर गल्ले में रखे नकदी रुपये चुरा कर ले गये थे। इसी प्रकार तृतीय घटना का संक्षिप्त विवरण बताया कि 15 सितम्बर 2024 की मध्य रात्रि को क्षेत्र के गणगौरी बाजार स्थित 2 कपड़ों व 1 बर्तन की दुकान के ताले चोरी की।

प्रतियोगिता का समापन

टोंक। दत्तवाय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही में शुक्रवार को 68वीं जिला स्तरीय हैडबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह जिला शिक्षा अधिकारी टोंक मीना लसाडिया एवं एपीसी टोंक श्योप्रसाद मीणा मुख्य अतिथि सुरेंद्र बेनीवाल की अध्यक्षता में समापन हुआ। प्रतियोगिता समारोह में जिला शिक्षा अधिकारी मीना लसाडिया ने संबोधित करते हुए विद्यार्थियों को कहा कि कठोर परिश्रम और अनुशासन से ही जीत सुनिश्चित होती है। विद्यार्थी इसी प्रकार धैर्य एवं निष्ठा के साथ टीम बनाकर टोंक जिले का नाम रोशन करें। कार्यवाहक प्रधाचार्य शिवराज महारव ने बताया कि 68वीं जिला स्तरीय हैडबॉल प्रतियोगिता 17 सितंबर से 20 सितंबर तक चली। इस जिले की 17 वर्ष व 19 वर्षीय छात्र-छात्राओं ने हैडबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया।

बांटीकुई में बनाये जाने वाले आर.रो.बी. का विरोध

बांटीकुई। बांटीकुई बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले एक 21 सदस्यीय व्यापारी प्रतिनिधि मण्डल बांटीकुई शहर में आरओबी सैनी स्कूल रोड एवम् दोसा कटूमर हाइवे के समन्वय में दोसा सांसद मुरारी लाल मीणा एवं जिला कलेक्टर देवेन्द्र कुमार एवं भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें प्रतिनिधि मण्डल द्वारा उर्हें इन सभी का विकल्प सुझाया गया एवम् सभी ने व्यापारियों की बात को अच्छे से सुना एवं प्रतिनिधि मण्डल को संतोषजनक आश्वासन दिया। संघर्ष समिति के तत्वाधान में दोसा सांसद और जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार द्वारा बांटीकुई कस्बे में बनाया जाने वाला आरओबी (रोड ओवर ब्रिज) एवं सैनी स्कूल रोड के चौड़ाईकरण व दोसा कटूमर हाइवे के निकलने से हजारों की संख्या में लोग बेघर व रोजगार विहीन हो जाएंगे। जबकि एकमात्र वैकल्पिक



संघर्ष समिति के तत्वाधान में जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।

मार्ग से पूरे बांटीकुई विधानसभा क्षेत्र का विकास होना संभव है जिसे वर्ष 2००8 से लगातार क्षेत्रिय विधायक एवं स्थानीय विधायक द्वारा पुरजोर तरीके से इस योजना को पूरा करने की पहल कर केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से लोकसभा क्षेत्र सांसद मुरारीलाल मीणा के साथ मिलकर इस कार्य को करवाया जाना चाहिए।

बांटीकुई विधानसभा क्षेत्र के लिए हजारों सालों तक एक वरदान के रूप में साबित होगी। इस कार्य के लिए स्थानीय विधायक द्वारा पुरजोर तरीके से इस योजना को पूरा करने की पहल कर केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से लोकसभा क्षेत्र सांसद मुरारीलाल मीणा के साथ मिलकर इस कार्य को करवाया जाना चाहिए।

सांभर में पेयजल योजना पर संकट के बादल

सांभरझील। चारभुजा नाथ मंदिर परिक्षेत्र व इसके नीचे की तमाम बस्तिनों के सैकड़ों लोगों को इस साल के अंत तक भी प्रदेश सरकार की ओर से मंजूरी की गई करीब 5 करोड़ 49 लाख रुपये की पेयजल योजना का लाभ मिलता आसानी से नजर नहीं आ रहा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शानन के समय पेयजल योजना को मंजूरी मिली और वर्तमान प्रदेश सरकार की मुखिया भजनलाल शर्मा ने इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां जारी की। इस योजना में एक उच्च जलाशय का निर्माण सहित उन तमाम पुरानी

पेयजल लाइनों को बदला जाना है जो विगत कई दशकों से जर्जर हो चुकी है। चारभुजा नाथ मंदिर के ऊंचे इलाके में बसे लोगों तक पानी की सपनाई विगत 30 सालों से प्रेशर से नहीं पहुंच पा रही है। यहां के लोगों ने सेकंडों दफा विधायक, चेयरमैन और तमाम जनप्रतिनिधियों के अलावा विभाग को हाथ जोड़कर भी निवेदन किया कि उनकी पेयजल समस्या का समाधान करें लेकिन विभाग कुछ भी करने में असमर्थ ही रहा। अब जैसे जैसे प्रोजेक्ट को मंजूरी तो मिल गई लेकिन उच्च जलाशय के लिए नगर पालिका भूमि उपलब्ध नहीं

करवा पा रही है और न ही भूमि की कोई सुनिश्चिता बन सकी है। यद्यपि लोगों के दुखों को देखते हुए यहां की पार्षद ज्योति कुमावत ने प्रत्येक टिकमचंद कुमावत ने तो अपनी स्वयं की भूमि भी उच्च जलाशय निर्माण के लिए सरकार को देने तक की घोषणा कर डाली। सभी तमाम औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। पहले इसका निर्माण नगर पालिका की जिम्मे सौंपा था, लेकिन सरकार ने जब देखा कि यह इतना बड़ा काम पालिका के बस की बात नहीं है तो फिर बाद में इस काम की जिम्मेदारी जलदाय विभाग को सुपुर्द कर दी।

वार्षिक कलशाभिषेक

निवाई/गुंसी। आर्यका विज्ञाश्री माताजी के सानिध्य में श्री दिगंबर जैन सहस्त्रकूट विज्ञातीर्थ गुंसी में वार्षिक कलशाभिषेक का आयोजन किया गया जिसमें श्रद्धालु का सैलाब उमड़ लपा। चारतुर्मास कमेटी के कार्यअध्यक्ष सुनील भांजा ने बताया कि सर्वप्रथम आर्यका विज्ञाश्री माताजी के सानिध्य में भगवान शान्तिनाथ का अभिषेक पंचामृत अभिषेक एवं शान्तिभारा की गई उसके पश्चात 10 लक्षण उपवास एवं तैलां करने वाली का कमेटी द्वारा सम्मान किया गया एवं उसके पश्चात वार्षिक अभिषेक का आयोजन किया गया। माला पहनने का सौभाग्य दिनेश कुमार, योगेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार झिलाय परिवार को प्राप्त हुआ।

अधिकारी नेहा यादव ने संभाला पदभार

किशनगढ़ बास। गौण याई अनाज मंडी किशनगढ़ बास के मंडी सचिव पद पर नेहा यादव ने पदभार संभाला। किशनगढ़ बास गौण याई मंडी घोषित किए जाने के बाद यह मंडी सचिव के पद पर प्रथम नियुक्ति की गई है। करीब 2 साल पहले कांठोस राज में किशनगढ़ बास गौण याई मंडी को अधिकृत घोषित किया गया था। अधिकृत घोषित किए जाने के बाद से खैरथल मंडी सचिव के पास अतिरिक्त कार्यभार था। किशनगढ़ बास गौण याई अनाज मंडी का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे खैरथल मंडी सचिव सुरेंद्र कुमार सैनी ने बताया कि नवंबर 2022 में किशनगढ़ बास मंडी को सरकार की ओर से अधिकृत घोषित किया गया था। घोषित किए जाने के बाद यह किशनगढ़ बास में अधिकारी की प्रथम नियुक्ति है। लेकिन मंडी अध्यक्ष सहित समिति सदस्यों के पदों पर कांग्रेस राज में नियुक्ति कर दी गई थी। हालांकि भाजपा सरकार के आने के बाद सरकार नियुक्ति खत्म किए जाने के बाद से अभी तक अध्यक्ष व समिति की नियुक्ति नहीं की गई है। अध्यक्ष रमेश अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार को खैरथल मंडी सचिव सुरेंद्र कुमार सैनी ने गौण याई मंडी सचिव के पद पर नेहा यादव को पदभार ग्रहण करा चार्ज सौंपा। इस दौरान व्यापारियों की ओर से पदभार संभालने पर अधिकारी नेहा यादव व अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे

खैरथल मंडी सचिव सुरेंद्र कुमार सैनी का माला पहनकर पुष्प कुष्ठ भेंट कर स्वागत किया गया। कारोबार संभालने के बाद अधिकारी नेहा यादव ने व्यापारियों व प्रभारी अधिकारी अभिनंदन जैन के साथ चार्ज कर मंडी की विस्तार से जानकारी ली। स्वागत के दौरान अनाज मंडी अध्यक्ष रमेश चंद्र अठावाल विनोद गोयल धीरज अठावाल विकास गोयल रिंकु गोयल डिंपल गोयल नितिन अठावाल अभय यादव बनवारी लाल गुप्ता गिरांज गुप्ता मांगीलाल गुप्ता निमित्त गोयल राजू गुप्ता अशोक गुप्ता धनश्याम गुप्ता प्रेम गुप्ता राकेश गुप्ता कोकी गुप्ता भावत गुप्ता पंकज गुप्ता आदि व्यापारी मौजूद रहे।

स्वच्छता से सामाजिक परिवर्तन संभव : धानका

टोंक। मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में स्वच्छता ही सेवा अभियान-2024 के संबंध में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान व्यापार मंडल, एनजीओ, रोटरी क्लब, रीको, होटल, बार, डॉक्टर, ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट, वेजिटेबल एंड फ्रूट, प्राइवेट स्कूल एवं बार एसोसिएशन, सराफा, प्राइवेट बस, युनियन के साथ चर्चा कर इस महत्त्वपूर्ण अभियान में अपनी सहभागिता निभाने पर जोर दिया। सभी ने स्वच्छता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी पर सुझाव दिए। इस दौरान एडीएम सुरेश चौधरी भी मौजूद रहे।

■ टोंक कलेक्ट्रेट सभागार में स्वच्छता ही सेवा अभियान की बैठक आयोजित हुई

आसपास के परिसर को स्वच्छ रखने की समझाइश की जाएगी, ताकि स्वच्छ टोंक, सुंदर टोंक की परिकल्पना को पूरा किया जा सके। समाज सेवा ओमप्रकाश गुप्ता ने कहा कि टोंक को स्वच्छ रखने के लिए सभी लोगों को मिलकर कार्य करना होगा। जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह ने कहा कि संविधान में पर्यावरण के प्रति नागरिकों के कर्तव्य का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है। रोटरी क्लब के रोहिताश कुमावत ने कहा कि स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता अभियान लगातार चलाया जाने चाहिए। इसमें आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। इस दौरान जिला उद्योग के एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक कुलदीप बडसर, क्षेत्रीय प्रबंधक सीताराम मीणा, भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष पोखर लाल जाट, भारत विकास परिषद के सचिव राधेश्याम शर्मा, एलपीजी गैस एसोसिएशन के मुकेश चौहान समेत अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

बैंक अधिकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं राहत

कोटपूतली। केन्द्र एवं राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिले के अग्रणी बैंक जल्द से जल्द अपने ऋणलक्ष्यों को हासिल करें ताकि प्रत्येक जरूरतमंद तक राहत पहुंचाई जा सके। यह कहना है अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण का। सहारण ने यह बात शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई जिला स्तरीय समीक्षा एवं सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य एवं दायित्व है। इसके लिए अधिकारियों को सभी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए पूर्ण ईमानदारी से प्रयास करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को राजीविका, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जन-धन योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षाबीमा योजना, अटल पेंशन स्कीम सहित अन्य योजनाओं के बेहतर एवं प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश भी दिये। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बैंक में अधिकारियों को साइबर अपराध पर रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश भी दिये। बैंक में जिला कलेक्टर ने वार्षिक साख योजना 2024-25 पुस्तिका का विमोचन भी किया।

कलेक्टर ने स्कूलों का निरीक्षण कर मिड डे मील की गुणवत्ता जांची

खैरथल। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने शुक्रवार को खैरथल सेटेलाइट हॉस्पिटल सहित कोटकासिम के एसडीएम कार्यालय पुलिस थाना व गांव हरसोली और आर में संचालित राजकीय स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारी कार्मिकों की उपस्थित रिजिस्टर का अवलोकन कर प्रभारी अधिकारियों को आवश्यक सुधार करने के लिए निर्देश दिए।



कलेक्टर किशोर कुमार ने स्कूलों का आकस्मिक जायजा लिया।

जिला कलेक्टर सुबह 9 बजे सेटेलाइट हॉस्पिटल पहुंचे और वहां उपस्थित रिजिस्टर का अवलोकन कर हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हुए सफाई व्यवस्था को देखा और मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर ने जिला चिकित्सा अधिकारी अरविंद गेट व अस्पताल प्रभारी को हॉस्पिटल कंफोर्ट में खर्ची झाल्डियों को हटवाने व जरूर भावनाओं की मरम्मत करने के निर्देश दिए। इसके बाद जिला कलेक्टर ने हरसोली गांधी राजकीय विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण कर मिड डे मील की

व्यवस्था देखी भोजन की गुणवत्ता को चेक किया। बच्चों की क्लास रूम में पहुंचकर कलेक्टर ने शैक्षणिक गुणवत्ता को देखा और विद्यालय प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाद में जिला कलेक्टर कोटकासिम उपखंड कार्यालय पहुंचे और वहां एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण कर जनसुनवाई की और टामोणों की समस्याओं पर

घरेलू सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई जारी

कोटपूतली-बहरोड। जिला रसद अधिकारी संदीप माथुर ने बताया गया कि खाद्य विभाग द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक उपयोग को रोकने के संबंध में चलाये जा रहे अभियान के तहत जिला कोटपूतली-बहरोड में आज भी निगरानी स्थित हीरो चौक पर श्याम किराना स्टोर पर घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा.) से छोटा सिलेण्डर नौन आई.एस.आई. पेट्रोमैक्स में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग (पीतल की बांसूरी से) करते हुए पाया गया, इस दुकान से 5 घरेलू सिलेण्डर (14.2 किग्रा.) व एक छोटा सिलेण्डर जब्त किये गए। इस प्रकार दुसरी दुकान श्री अन्नपूर्णा रेडीमेट एण्ड जनरल स्टोर से तीन घरेलू सिलेण्डर (14.2 किग्रा.) व एक छोटा सिलेण्डर पाए गए पीतल की बांसूरी जब्त किए गए। इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डरों की अवैध रिफिलिंग करते हुए कुल 8 घरेलू सिलेण्डर (14.2 किग्रा.) व 2 छोटे सिलेण्डर तथा 2 पीतल की बांसूरी जब्त की गईं। रसद विभाग की टीम द्वारा जिला रसद अधिकारी संदीप माथुर के नेतृत्व में प्रवर्तन निरीक्षण विधायपाल यादव, अमित कुमार एवं विश्राम गुर्जर द्वारा कार्यवाही की गई। घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरुपयोग/अवैध रिफिलिंग इत्यादि के विरुद्ध आगे भी सघन अभियान संचालित किया जायेगा।

नट समाज को मुख्य धारा में लाने की मांग

दूदू। राजस्थान भातू समाज संघ जिला अध्यक्ष सुखपाल राज नट ने उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा को प्रतिनिधिमंडल के साथ ज्ञापन पेश कर नट समाज के परिवारों को रोजगार की धारा में जोड़ने की मांग की है। नट ने बताया कि समाज निर्माण में भी पैतृक व्यापार के धंधे में मिल है तथा अपना परिवार का पालन करने को मजबूर है। सरकार द्वारा इस समुदाय के लिए सर्वे कराया जाकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए तो समाज का विकास संभव है, साथ ही बताया कि युवा इस समाज में आज भी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है सरकार से मांग की है कि इस समाज को प्राथमिकता दी जाकर रोजगार उपलब्ध कराया जावे।

संक्षिप्त

अंकुर गुप्ता का स्वागत

निवाड़ी। विधायक रामसहाय वर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला मंत्री अंकुर गुप्ता का विधायक निवास पर कार्यक्रमों ने माला व साफा पहनाकर सम्मानित किया। जितेंद्र विजय ने बताया कि अंकुर गुप्ता को जिला मंत्री के पद पर नियुक्त होने पर विधायक रामसहाय वर्मा के सानिध्य में भाजपा नेता रामप्रसाद महाराजपुर, सियाराम शर्मा, चिरंजीवाल झांषडी, करणसिंह राजावत, नितिन छाबडा, राजेश चौधरी, जितेंद्र विजय, रामविलास बलाई, नंदन पारीक, जयनारायण कुमावत, लक्ष्मण खटाना व जितेंद्र सेन सहित कई कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया।

यश का सूचना

सहायक पद पर चयन

मालपुरा (निस)। शहर के पुरानी तहसील निवासी यश विजय पुत्र राममूर्ति विजयवर्गीय का सुचना सहायक में हुआ चयन। युवा समाजसेवी एवं पुरानी तहसील युवा विकास समिति के सक्रिय सदस्य यश विजय के चयन पर युवा साथियों ने विजय को बधाई दे उज्ज्वल भविष्य की कामना की। एक किराणा व्यापारी व सामान्य परिवार में जन्मे यश विजय ने कड़ी मेहनत व लगन से आज इस मुकाम पर पहुंच युवा पीढ़ी को मेहनत करने वाले की हार नहीं होने पर संदेश दिया।

पोषण मेले का आयोजन

शाहपुरा। शाहपुरा पंचायत समिति में राजीविका समूह एवम मंजरी संस्थान के तत्वावधान में पोषण मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि योगेश्र बोपीपम राजीविका थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समुदाय में स्थानीय पोषण युक्त भोजन का सेवन करना एवं एनीमिया को दूर करना था। कार्यक्रम में मंजरी संस्थान की ब्लॉक समन्वयक खुशबू कुमावत ने बताया कि हमे घर से बने शुद्ध भोजन का सेवन करना चाहिए।

राजमाता होलकर की जयंती पर व्याख्यान

दौसा। राजस्थान राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, अखिल भारतीय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जन्म त्रिशताब्दी के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जयपुर विभाग संयोजक एवं शैक्षिक मंथन के संपादक प्रो. शिवशरण कौशिक ने अपने उद्घोषण में कहा कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर का भारतीय सांस्कृतिक धरोहर में महत्वपूर्ण स्थान है।

उन्होंने शिक्षा, समाज, और आर्थिक विकास के प्रति जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया वह आज भी प्रासंगिक है। प्रो. कौशिक ने महिला शिक्षा और वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए राजमाता द्वारा खोले गए संस्थानों और टीई आई आर्थिक सहायता की सराहना की। उन्होंने बताया कि अहिल्याबाई ने पूरे भारत में धार्मिक स्थलों, नदियों के किनारे घाटों/शिविर संस्थाओं/ धर्मशालाओं/ सड़को/ नहरों/ और जलाशयों का निर्माण कर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रो. कौशिक ने आगे कहा

हैंडबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन

निवाड़ी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरौही में शुक्रवार को 68वीं जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह जिला शिक्षा अधिकारी टोंक मीना लखाडिया एवं एपीसी टोंक श्योप्रसाद मीणा मुख्य अतिथि सुंदर बेनीवाल की अध्यक्षता में समापन हुआ। प्रतियोगिता समारोह में जिला शिक्षा अधिकारी मीना लखाडिया ने संबोधित करते हुए विद्यार्थियों को कहा कि कठोर परिश्रम और अनुशासन से ही जीत सुनिश्चित होती है। विद्यार्थी इसी प्रकार धैर्य एवं निष्ठा के साथ टीम बनाकर टोंक जिले का नाम रोशन करी। कार्यक्रम का प्रथम उपलक्ष्य शिवराज महावीर ने बताया कि 68वीं जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता 17 सितंबर से 20 सितंबर तक चली। इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में कुल 42 टीमों के 17 वर्ष व 19 वर्षीय छात्र/छात्राओं ने हैंडबॉल में भाग लिया। शारीरिक शिक्षक जंशीलाल गुर्जर ने बताया कि प्रतियोगिता में 17 वर्षीय छात्र वर्ग में संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली तथा बालिका वर्ग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंतिला 19 वर्षीय छात्र टीम को अतिथियों द्वारा शील्ड व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी दौरान विजिता छात्र/छात्राओं को नारायणी देवी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट सिरौही के

कलेक्टर ने किया आंवा में विकास कार्यों का निरीक्षण



कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत सरपंच दिव्यांश महेंद्र भारद्वाज द्वारा कराए गए विकास कार्यों की सराहना की।

ग्रामीणों ने बताई पेयजल की समस्या- जिला कलेक्टर के समक्ष ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में पेयजल सप्लाई 48 घंटे के अंतराल पर नियमित

नहीं होने तथा पानी की गुणवत्ता सही नहीं होने की समस्या बताई। जिला कलेक्टर ने दूरभाष पर जलदाय विभाग के अधिकारियों से बात कर पेयजल

व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। एसडीओ को ग्राम पंचायत में सप्लाई होने वाले पेयजल की क्वालिटी चौक कराने के लिए निर्देशित किया।

अग्रवाल प्रीमियर लीग का हुआ आयोजन

श्रीमाधोपुर। कस्बे में चल रही अग्रवाल प्रीमियर लीग का आयोजन कयाल धर्मशाला मैदान पर किया गया। प्रीमियर लीग के आयोजन करता विजय मऊवाला ने बताया कि अग्रसेन प्रीमियर लीग 2024 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच अठवाला सुपर किंग्स वर्सेज अठवाला रॉयल्स के बीच खेला गया जिसमें सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल्स को 10 ओवर में 47 रन का लक्ष्य दिया जिसमें रॉयल्स ने यह मैच 5 विकेट छोकर अंतिम ओवर में लक्ष्य को प्राप्त कर विजेटा हासिल की है इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज शिवम नरिया व सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज संदीप खुटेटा को दिया गया। इस टूर्नामेंट में सात टीमों ने भाग लिया। मैच के विजेता टीम को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया वहीं

मजदूर की मौत पर 7 लाख मंदिर ट्रस्ट देगा

अचरोल। चंदवाजी थाना क्षेत्र के ताला मोड़ बस स्टैंड दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जैन मंदिर में गुरुवार शाम को मंदिर में टीन सेट लगाते हुए एक मजदूर को करंट लग गया था जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवा नेता रूपनारायण मीना ने बताया अग्नी सीरा की ढाणी निवासी हनुमान सहाय मीणा पुत्र गुलाराम मीणा उम्र 55 वर्ष जैन मंदिर में टीन सेट लगा रहा था तभी ऊपर से जा रही 11 हजार केवी हाई टेंशन लाइन के टच हो गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर परिवजनों मंदिर प्रशासन और बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों और परिवजनों में आक्रोश व्यक्त हो गया। जानकारी के अनुसार सात लाख रुपये मंदिर ट्रस्ट मुआवजे के रूप में देगा। जैन मंदिर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। मृतक का शव निम्न हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखा हुआ है। मंदिर की सुरक्षा को लेकर आमेर तहसीलदार अविनाश चौधरी और चंदवाजी थाना अधिकारी सुगन सिंह के नेतृत्व में पुलिस का भारी पुलिस जाफा मौजूद रहा। घरने में आमेर विधायक प्रशांत सहदेव शर्मा आमेर युवा नेता रूपनारायण सहित कई ग्राम पंचायत के सरपंच मौजूद रहे।

'इम्फेकशन को रोकने के लिये टीकाकरण सुगम'

मालपुरा (निस)। केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर में शुक्रवार को एक दिवसीय वेटनरी ऑफिसर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में टोंक जिले के वेटनरी ऑफिसर ने भाग लेते हुये पशुधन ने जीवण व परजीवीकर्म में उत्पन्न हो रही दवाइयों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पर जागरूकता का संदेश दिया गया। कार्यशाला में डॉ. प्रोफेसर ए के गहलोते कार्यपालन डॉ. अंकित वेतनरी ऑफिसर डॉ. अनिल परतानी का संस्थान निदेशक डॉ. अरूण तोमर ने स्वागत किया। डॉ. गहलोते ने कहा कि देश में अतिआवश्यक लैबोरेट्री टेस्ट के अभाव में एन्टीबायोटिक का बिना जरूरी उपयोग के ही उपयोग बढने से बेक्टिरिया व कर्मीनाशक का उपयोग बढने से प्रतिरोधक समस्या लगातार बढ रही है। इम्फेकशन को रोकने के लिये टीकाकरण सबसे सुगम माध्यम है। डॉ. तोमर ने एन्टीमाईक्रोबल रेजिस्टेंस विषय पर अपना उदबोधन देते हुये वेतनरी ऑफिसर को कार्य करने पर जोर दिया। कार्यशाला में राजस्थान सरकार के वेटनरी ऑफिसर के साथ 50 उनके समकक्ष अधिकारियों ने भाग लिया।

धर्मपाल यादव ऊंची कूद में रहे प्रथम

निवाड़ी। 35वीं तहसील स्तरीय शिक्षक क्रीडा प्रतियोगिता का शुभारंभ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिटी नंबर 3 के प्रांगण में हुआ। प्रतियोगिता के संयोजक जियाराम मीणा व सह संयोजक रामकिशन गुर्जर ने बताया कि ऊंची कूद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान धर्मपाल यादव व द्वितीय स्थान महेंद्रकुमार जाट ने प्राप्त किया। इसी प्रकार गोला फेंक प्रतियोगिता में शारीरिक शिक्षक हिमांशु शर्मा ने प्रथम स्थान व सुवालाल मीणा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर विमल कुमार विजय, सुरेंद्रसिंह नाथान, धीरजसिंह, रघुनंदन गौतम, भवानीशंकर निराला, मुकेश विजय, रामनरेश विजय, अजगर अली, गोपाल शर्मा, हरिराम गुर्जर, व सुरेश विजय सहित अनेक शिक्षक मौजूद रहे।

स्कूल में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया

दौसा। राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर शुक्रवार को रोटर क्लब के सहयोग से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय टाईप, रामकुण्ड दौसा में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। ईपचसीसी अस्पताल से स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. मामी बेहरुक, डॉ. रक्षिता पंवार व सुरभी माथुर ने सभी बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच की। इस शिविर में सभी बच्चों की मधुमेह और रक्तचाप की जांच भी गई। शिविर में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने अपनी समस्याएं बताकर स्वास्थ्य जांच करवाई। स्कूल प्राचार्य मिथलेश मीना ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि आज की जीवनशैली से उपजी चुनौतियों में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है। ऐसे में बच्चों से लेकर बड़ों तक को स्वास्थ्य जांच समय-समय पर करवाते रहना चाहिए। शिविर में डाक्टर ने कहा की बच्चों में एनीमिया का सबसे बड़ा कारण पीट में कीड़े का होना होता है। यह कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इसके लिए साफ-सफाई बहुत जरूरी है। एनीमिया में

खो-खो में जिला चैंपियन रही खिडगी टीम

निवाड़ी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिडगी में 68वीं जिला स्तरीय खो खो 17 व 19 वर्ष छात्र वर्ग क्रीडा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। शारीरिक शिक्षक रामकिशन चौधरी ने बताया कि प्रतियोगिता में 17 वर्ष छात्र वर्ग की 16 टीमों के 192 खिलाड़ियों ने तथा 19 वर्ष छात्र वर्ग की 10 टीमों के 120 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 17 वर्ष व 19 वर्ष में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राउमवा। खिडगी की टीम 33 वर्ष साल भी विजेता रही तथा उपविजेता 17 वर्ष में देव विद्या मंदिर डाडाटुर्क तथा 19 वर्ष में राउमवा। झिलाना की टीम रही। खिडगी की टीम पिछले 33 वर्षों से लगातार जिला चैंपियन रह रही है। व्याख्याता हनुमान फागना ने बताया कि प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य

पॉम ऑयल पर प्रतिबंध को लेकर राज्यपाल से मिले

श्रीमाधोपुर। किसान महापंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को 19 सितंबर को किसान महापंचायत के प्रदेश महामंत्री सुंदरलाल भावरिया के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से मिलकर बाजरे की एमएसपी पर खरीद शुरू की जाए एवं ताड़ (पाम) के तरल पदार्थ का आयात एवं खाद्य तेलों में मिलावट को प्रतिबंधित करने को लेकर प्रधानमंत्री के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। सरसों के तेल में पाम मिलाने पर 2020 में प्रतिबंधित होने के बाद भी मिलावट को रोकने के सार्थक प्रयास नहीं होने से देशवासियों को सरसों का शुद्ध तेल भी उपलब्ध नहीं रहा है। मिलावटखोरों द्वारा कमाने के लालच को अधिकार समझने लगे हैं। पॉमऑयल, ताड़ पर तुरंत प्रबंध हो या इस पर आयात शुल्क 300 सौ प्रतिशत किया जाए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मुसद्दीलाल यादव, किसान युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी, प्रदेश मंत्री बत्ती लाल बेरवा एवं नीमकाथाना किसान महापंचायत अध्यक्ष बलदेव यादव प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे।

सार-समाचार

गोशाला में किए गोसेवा कार्य



मनोहरपुर। सीकर की सिंहासन गोशाला में गोसेवा की गई। वे गोसेवा राजरानी आर्य की श्राद्ध तिथि पे की गई। गोशाला में गायों को हरा चारा और गुड खिलाया गया। महिमा राठौड़ में बताया की राजरानी आर्य एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी उनका गोसेवा में अटूट विश्वास था। उनका मानना था की गोसेवा भारतीय समाज में व्यापक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। गोमाता की सेवा करने का कार्य धार्मिक और सामाजिक दायित्व माना जाता है। गोसेवा एक आदर्श का प्रतीक है जो मानवता, न्याय, और दया के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। इसके माध्यम से सामाजिक समरसता बढ़ती है और समुदाय के सदस्यों के बीच सौहार्द एवं गौरव की भावना विकसित होती है। महिमा राठौड़ के साथ संध्या अवस्थी पिंकी जांफिड भारत सेठी साधना सेठी उपस्थित रहे।

फरार आरोपी गिरफ्तार

निवाड़ी। निवाड़ी सदर थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट में दर्ज मामले में दो माह से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी जयमल सिंह ने बताया कि पोक्सो एक्ट में दो माह पूर्व मामला दर्ज हुआ था। आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। सुचना मिली थी कि आरोपी मुंडिया में आया हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए गठित टीम ने दबिश देकर आरोपी सूरज उर्फ नैनु पुत्र श्योजीलाल मीणा निवासी खेजा की ढाणी तन मुंडिया को गिरफ्तार कर लिया।

कलश यात्रा आज

निवाड़ी। दिव्य ज्योति जाटविति संस्थान के तत्वावधान में 22 से 28 सितंबर तक कृषि उपज मंडी परिसर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। कथा के शुभारंभ पर 21 सितंबर को मंगल कलश यात्रा निकाली जाएगी। मंगल कलश यात्रा का जुलूस सुबह 9 बजे नगर पालिका से रवाना होगा। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में कथा व्यास साध्वी स्वाति भारती कथा वाचन करेंगी।

मीनाथ भगवान का निकला जुलूस

टोंका। उनीयारा उपखंड के बनेटा कस्बे में नेमीनाथ दिगम्बर जैन बड़ा मंदिर से सकल जैन समाज के तत्वाधान में गाजे बाजे के साथ भगवान को पालकी में बिठारक भव्य जुलूस निकाला। जुलूस में खास बात यह रही कि जुलूस आजाद चौक के मुख्य बाजार में रुककर जैन श्रद्धालुओं ने जमीन पर बैठकर प्रभू के भजन कीर्तन किए। फिर भगवान की शोभायात्रा को मुख्य मार्ग से होता हुआ चंद्रप्रभू मन्दिर पहुंचे। वहां भजन कीर्तन कर बड़ा मंदिर परिसर पहुंचे। तत्पश्चात चौसठ ऋद्धि मण्डल विधान करवाया गया।

दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की सजा

मालपुरा (निस)। मालपुरा थाने में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सुनवाई करते हुये पाँक्सो कोर्ट ने आरोपी को बीस साल की सजा सुना आर्थिक दण्ड से किया दण्डित। थाने से मिली जानकारी में सामने आया कि मालपुरा उपखण्ड क्षेत्र में मार्च 2०23 में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज होने पर मामले में जांच अधिकारी द्वारा 21 सितम्बर 2०23 को अभियुक्त के विरुद्ध चालान पेश करने के बाद अभियोजन पक्ष की और से अभियुक्ता मोहम्मद मियां गुलजाब ने पैरवी करते हुये मामले में 19 गवाह व 44 दस्तावेज कोर्ट में पेश किये जाने पर पाँक्सो कोर्ट न्यायालय ने अभियुक्त संदीप कुमार मेहरू को बीस साल की सजा सुनाते हुये 2 लाख 1 हजार रूपये का लगाया जुर्माना।

बंदरों ने दो वृद्ध जनों को किया जख्मी

सिकरारा (निस)। उपखंड के गौजगढ व टोरडा गांव में बंदरों के आतंक होने से आमजन अति परेशान बने हुए है। शुक्रवार को गौजगढ कस्बे में मकानों की छत से कूदकर भाग रहे बंदर ने मकान में बैठे वृद्ध जन पर हमला बोल दिया। जिसमें रमेश चंद चुटुवेदी घायल हो गए। निनका गौजगढ अस्पताल में उपचार करवाया। वहीं टोरडा गांव में भी बंदर ने घर के बाहर बैठे वृद्ध जन को जख्मी कर दिया। ठामाणी ने प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखकर कस्बे से बंदरों का रेस्क्यू करके दूर अन्यत्र स्थान पर हटवाने की मांग की है।

गऊ माता जागरण 28 को

श्रीमाधोपुर। एक शाम गऊ माता के नाम धार्मिक कार्यक्रम को लेकर शक्तिार्थों में भारी जोश है। श्रीराम गऊ नंदीशाला, हॉसपुर में 28 सितंबर शनिवार को तृतीय विशाल रात्रि जागरण किया जा रहा जिसका प्रचार प्रसार जोंरों पर किया जा रहा है, इसी के तहत शहर श्री रघुनाथ जी मंदिर से शुरू करके स्टेप बाय स्टेप स्कूल, श्रीकृष्ण गोशाला के पास और बालाजी विमल अनाज मंडी आदि स्थानों पर पोस्टर विमोचन कर प्रचार किया गया। वहीं हॉसपुर ग्राम पंचायत में घर घर जाकर निमंत्रण दिया जा रहा है, प्रबंधक बनवारी लाल मीणा ने बताया कि शहर में ओम प्रकाश सैनी (प्रधान) व गांव में विश्वनाथ शर्मा की अगुवाई में प्रचार किया जा रहा है। शहर में श्री रघुनाथ मंदिर के पुजारी बुद्धि प्रकाश नयनका जोशी, मुकेश सैनी, गांव में प्रकाश शर्मा, किशन कुमावत, मोतीराम सैनी, सागर शर्मा, बनवारी लाल सैनी, वासुदेव शर्मा आदि उपस्थित थे।

रिडिंग लेने गये कर्मचारी को धमकी देने का विरोध

दौसा। बिजली कर्मचारी फेडरेशन ने एक गंभीर मामले में एसई को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। मामला इस समय का है जब फीडर इंचार्ज रघुनाथ महावर 7 सितंबर को उपभोक्ता रूपता देवी के घर रिडिंग लेने गए। रिडिंग के आधार पर बिल जारी किया गया। लेकिन इसके बाद 18 सितंबर को महावर को धमकी भरे मैसेज मिलने लगे। इन मैसेजों में जाति सुचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी गई। सूचना कनिष्ठ अभिषेक कमलेश मीना को दी गई। रिडिंग लेने के आधार पर बिल जारी से नहीं लिया और कहा कि एसी धमकियां उन्हें रोज मिलती हैं। इसके बाद सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का प्रयास किया गया। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फेडरेशन के सदस्यों ने निगम प्रशासन से मांग की है कि तुरंत संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाए और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यदि इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो फेडरेशन उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। यह मामला न केवल कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय है, बल्कि इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कैसे समाज में जातिवाद और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

मोलाहेडा के स्वास्थ्य केंद्र का नाम शहीद बहादुर सिंह गुर्जर के नाम पर करवाने की मांग

कोटपूतली। निकटवर्ती ग्राम पंचायत मोलाहेडा में स्थित स्वास्थ्य केंद्र का नाम शहीद बहादुर सिंह गुर्जर के नाम पर करवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं

शहीद बहादुर सिंह गुर्जर 13 दिसम्बर 1971 को ऑपरेशन लीली में कर्तव्य की पालना करते हुये वीरगति को प्राप्त हुये थे।

स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) एवं जिला भय रोग अधिकारी डॉ. जयभगवान यादव को युवा गुर्जर महासभा के जिलाध्यक्ष अंकित गुर्जर (नून) के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। सरपंच राजू देवी ने बताया कि ग्राम पंचायत मोलाहेडा के शहीद बहादुर सिंह गुर्जर 13 दिसम्बर 1971 को ऑपरेशन लीली में कर्तव्य की पालना करते हुये वीरगति को प्राप्त हुये थे।

जिनकी याद को अमर रखते



कोटपूतला स्वास्थ्य केंद्र का नाम शहीद बहादुर सिंह गुर्जर के नाम पर करवाने की मांग को लेकर अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा।

हुये ग्राम पंचायत ने यह निर्णय लिया है कि स्वास्थ्य केंद्र मोलाहेडा का नाम शहीद बहादुर सिंह के नाम

पर हो ताकि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले। इस दौरान बीपीओ विजय तिवारी, कृष्ण जांगल, पूर्व

एबीवीपी जिला संयोजक भीमसिंह पायला, लालचन्द गुर्जर समेत अन्य मौजूद रहे।

भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश को 149 पर समेटा

भारत ने चेन्नई टेस्ट में बनाई मजबूत पकड़, कुल बढ़त 308 रनों की हुई, बुमराह ने 4 विकेट झटके

चेन्नई, 20 सितम्बर। भारत ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत शुक्रवार को पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन बांग्लादेश को पहली पारी में 149 के स्कोर पर ढेर करने के बाद अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट पर 81 के स्कोर के साथ बढ़त 308 रन कर मैच पर मजबूत पकड़ बना ली है। इससे पहले दिन में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप और रवींद्र जडेजा की चौकड़ी ने बांग्लादेश की टीम को 149 के स्कोर पर ढेर कर दिया था। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को पहला झटका रोहित शर्मा (पांच) के रूप में लगा। उन्हें तस्कीन अहमद ने आउट किया।



मेहदी हसन मिराज ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया। भोजनकाल के बाद बांग्लादेश ने तीन विकेट पर 26 रन से आगे खेलना शुरू

इसके बाद बुमराह ने मुशाफिकुर रहीम को आउट किया। शाकिब अल हसन और लटिन कुमार दास ने कुछ ढेर बांग्लादेश की

आज भारत ने कल के छह विकेट पर 339 रन से आगे खेलना शुरू किया। अभी टीम को स्कोर 347 रन ही पहुंचा था कि तस्कीन अहमद ने रवींद्र जडेजा को विकेट के पीछे लटन के हाथों कैच आउट कराकर सुबह के सत्र का पहला विकेट झटका। जडेजा (86) अपना शतक पूरा नहीं कर सके।

पारी को संभालने का प्रयास किया। शाकिब अल हसन (32) और लटिन कुमार दास (22) रवीन्द्र जडेजा का शिकार बने। हसन महमूद (9) और तसकीन अहमद (11) को बुमराह ने आउट किया। 48वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने नाहिद राणा (11) को आउट कर बांग्लादेश की पारी को 149 के स्कोर पर समेट दिया। भारत ने बांग्लादेश को फांलो ऑन न देते हुए दूसरी पारी में बल्लेबाजी का फैसला किया है।

भारत की ओर जसप्रीत बुमराह ने चार विकेट लिये। मोहम्मद सिराज, आकाश दीप और रवीन्द्र जडेजा ने दो-दो बल्लेबाजों को आउट किया। सुबह के सत्र में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद और हसन महमूद ने भारतीय पारी को 376 स्कोर पर समेट दिया था। और पहले सत्र में भोजनकाल तक बांग्लादेश ने 26 के स्कोर पर अपने तीन विकेट गंवाकर दिये थे।

इसके बाद सातवें ओवर में नाहिद राणा ने यशस्वी ज्ञायसवाल (10) को आउट कर दिया। 67 के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका विराट कोहली के रूप में लगा। मेहदी हसन मिराज ने विराट को (17) पर पगबाधा आउट किया। विराट और शुभमन के बीच 39 रन की साझेदारी हुई। आज दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने तीन विकेट पर 81 रन बना लिये हैं और उसकी बढ़त 308 रनों की हो गई है। शुभमन गिल (नाबाद 33) और ऋषभ पंत (नाबाद 12) क्रोड़ पर हैं। बांग्लादेश की ओर से तसकीन अहमद, नाहिद राणा और

इंडिया-डी की ओर से संजू और इंडिया-बी के लिए अभिमन्यु ने जड़ा शतक

इंडिया-डी ने 349 का स्कोर खड़ा किया

अन्तपुर, 20 सितम्बर। रवींद्र जडेजा ने शुक्रवार को इंडिया डी के लिए संजू सैमसन ने (106) और उसके बाद इंडिया बी के लिये अभिमन्यु ईश्वरन ने शतक लगाकर अपनी बल्लेबाजी क्षमता दिखाई। दूसरे दिन आज संजू सैमसन के कल के 89 रन से आगे खेले हुये अपना शतक पूरा किया। उन्हें आर चाहर ने आउट किया। संजू ने 101 गेंदों में 12 चौके और तीन छक्के लगाते हुए 106 रन बनाए। तीन बल्लेबाजों के अर्धशतक और सैमसन के शानदार शतक से इंडिया डी ने 349 का स्कोर खड़ा किया। इंडिया बी की ओर से सैनी ने पांच विकेट



लिये और राहुल चाहर को तीन विकेट मिले। मुकेश कुमार ने एक बल्लेबाज को आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आयी इंडिया बी की टीम की

शुरूआत बेहद खराब रही। उनकी टीम निरंतर अन्राल पर विकेट गंवा रही थी और एक समय उसने 27.2 ओवर में 100 के स्कोर पर अपने पांच विकेट गंवा दिये थे। नारायण जगदीशन (13), सुरेश प्रभुदेसाई (16), मुशीर खान (5), सूर्यकुमार यादव (5) और नीतीश कुमार रेड्डी (शून्य) पर आउट हुये। कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन ने वाशिंगटन सुंदर के साथ 105 रनों की साझेदारी कर टीम को संभाला। अभिमन्यु ने 13 चौके और एक छक्का लगाते हुए (116) रनों की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर सुंदर (नाबाद 39) और चाहर उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। इंडिया डी के लिए अर्शदीप सिंह ने तीन विकेट लिये। आदित्य ठाकरे को दो विकेट मिले। सौरभ कुमार एक बल्लेबाज को आउट किया।

मालविका चाड़ना ओपन में अकाने यामागुची से हारी

चांगझोऊ, 20 सितम्बर। भारतीय शतरंज मालविका बंसोड़ को शुक्रवार को चाइना ओपन 2024 बैटमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के क्वार्टरफाइनल में दो बार की विश्व चैंपियन अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ भारत का टूर्नामेंट में अभियान समाप्त हो गया है।



आज यहाँ 35 मिनट तक चले मैच में 23 वर्षीय भारतीय बैटमिंटन खिलाड़ी को क्वार्टरफाइनल में जापानी खिलाड़ी अकाने यामागुची से सीधे गेम में 10-21, 16-21 से हार गई। जापानी खिलाड़ी अकाने आक्रमक खेल के साथ पहले गेम को शानदार शुरूआत की और 11-4 की बढ़ी बढ़त हासिल कर ली। मालविका ने गेम में वापसी करने के लिए अंक अर्जित करने का प्रयास किया। लेकिन काफी संघर्ष के बाद जापानी खिलाड़ी ने उन्हें पहले गेम में 21-10 से हरा दिया। मालविका ने दूसरे गेम को शुरूआत में इस टूर्नामेंट में चौथी वरीयता प्राप्त जापानी खिलाड़ी को

राजस्थान रॉयल्स ने विक्रम राठौड़ को टीम का बल्लेबाजी कोच बनाया

नयी दिल्ली, 20 सितम्बर। राजस्थान रॉयल्स (आरआर) ने भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ को अपनी टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। राठौड़ ने भारत के लिए छह टेस्ट और सात एकदिवसीय खेले थे। वह 2019 में भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच बने थे। भारतीय टीम के साथ जुड़ने से पहले वह राष्ट्रीय चयनकर्ता की भूमिका भी निभा चुके हैं। वहीं घरेलू क्रिकेट में वह पंजाब और हिमाचल की टीम को भी बतौर कोच अपनी सेवाएं दे चुके थे। राठौड़ ने आरआर के साथ जुड़ने पर कहा, रॉयल्स परिवार का हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व का विषय है। राहुल के साथ दोबारा काम करने और युवा खिलाड़ियों के साथ जुड़ने को लेकर मैं बेहद उत्साहित हूँ। मैं टीम के उद्देश्य और रॉयल्स के लिए विश्व स्तरीय प्रतिभाओं को तलाशने में अपना योगदान देने की ओर देख रहा हूँ। हाल ही में आरआर के मुख्य कोच नियुक्त किये गये राहुल प्रविड़ ने राठौड़ का स्वागत करते हुए कहा, विक्रम के साथ मैंने कई साल काम किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उनकी तकनीकी क्षमता, शान्त स्वभाव और भारतीय परिस्थितियों की बेहतर समझ उन्हें इस भूमिका के लिए एकदम उपयुक्त व्यक्ति बनाती है। हमने साथ मिलकर टीम की सफलता में अपना योगदान दिया है।

श्रीजेश 'गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड-2024' के लिए नामित

नयी दिल्ली, 20 सितम्बर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर पीआर श्रीजेश को परिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन के बाद प्रतिष्ठित एफआईएच पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 के लिए नामित किया गया है। हाल ही में संन्यास लेने वाले श्रीजेश ने इस पुरस्कार के लिये नामित किये जाने पर कहा, मैं एफआईएच गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित होने पर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DN. KOTRA (UDAIPUR)
No. NI/2024-25/443 Dated:-12.09.2024

E-Nit No. 08/2024-25

Bid (RFP) is invited from interested consultants up to 6.00 PM dt. 18.10.2024 (Friday) for "Consultancy service for preparation of Feasibility study and Detailed Project report with land acquisition, forest Clearance etc for 4-Lane of Devla Kotra Road in District Udaipur (Rajasthan)". Other particulars of the bid may be visited on Procurement portals <http://eproc.rajasthan.gov.in> / <http://sppp.raj.nic.in> of the State and DIPR website. The approximate value of the procurement is Rs. 105.00 Lakhs.

NIB No. PWD2425A1571, UBN No. PWD2425WSOB05668
DIPR/C/8774/2024 EXECUTIVE ENGINEER PWD DN. KOTRA

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-सपोटरा
क्रमांक 901-908 दिनांक 12.09.2024

निविदा सूचना संख्या-10/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संवेदकों के अधिकृत निष्ठा/दाक एवं दूर संचार विभाग / रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्माण कार्य हेतु निर्धारित प्रथम में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया ऑन लाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण डॉआरडीआर की वेबसाइट <http://rajswas.nic.in> पर देखा जा सकता है। NIB NO. NRH2425WSOB08011

1. NRH2425WSOB08011
2. NRH2425WSOB08012
3. NRH2425WSOB08013
4. NRH2425WSOB08014

(राजवासी सिंह कछवाहा)
अधिशाषी अभियन्ता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जालौर
DIPR/C/8859/2024

Office of the Executive Engineer, PHEd, Dist Rural Div I Bikaner
Email ID-eehheddn1bkn@gmail.com Contact No. 0151-2226473
No. 2284-2304 Date: 12/09/24

Notice Inviting Bid: 57-58/2024-25

Bid for various works are invited to registered interested bidder upto 25.09.2024 upto 02.00 PM. Other particulars of bid may be visited on the Procurement Portal <http://eproc.rajasthan.gov.in> and <http://sppp.raj.nic.in> of the State. The approximate value of the procurement is Rs. 186.23 Lacs. UBN No. PHE2425WSOB04605, PHE2425WSOB04606

DIPR/C/8760/2024 (जल सौमित्र है, इसको बचत करे) Executive Engineer PHEd, Distt (R) Div I Bikaner

कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ़ (रूर) राजस्थान
E-mail id:- nps22419@gmail.com, Phone no. 01568-222419

ई-निविदा सूचना-2024-25

नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये उपयुक्त सखम श्रेणी के राज्य सरकार के निर्माणों में प्रयुक्त टेकदारों/फर्मों से निविदा दिनांक 30.09.2024 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्रों को वेबसाइट <https://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड की जा सकता है एवं निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट www.sppp.raj.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। निविदा का बीड क्रमांक DLB2425SLOB08446 है। कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को नगर परिषद सुजानगढ़ के कार्यालय में एवं सूचना बोर्ड पर देखी जा सकती है।

अनुपमा
नगर परिषद सुजानगढ़
रज.सं.वा.द./सी/24/5473

YARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA
(Mahawathara Road, Kota - 324021) (Estate Cell)

NOTICE INVITING E-TENDERS

E-Bids are invited for following works -

NIB	Name of work	Estimated Cost (in Lacs)	UBN
19/2024-25	ARC for Civil maintenance work in University campus	42.00	VMU2425WSOB00018
20/2024-25	Renovation, Repairing & maintenance work at R.C. Jodhpur	18.09	VMU2425WSOB00019
21/2024-25	Supply & commissioning of New D.G. Set in C.V. Raman Bhawan in University campus	13.29	VMU2425SLOB00020
22/2024-25	Cement concrete pavement near OHT and MPD building in University campus	24.22	VMU2425WSOB00021
23/2024-25	Construction of Parking Shed along with approach road near EMPD building	29.12	VMU2425WSOB00022

Further details may be obtained from <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>, www.sppp.rajasthan.gov.in & www.vmu.ac.in e.f.1.27/09/2024. Baj.Samwadi/C/24/5454 OIC Estate

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
क्रमांक :- 8/2024-25 दिनांक :- 19/09/2024

ई-निविदा सूचना संख्या :- जौन उत्तर-एबी/03/24-25

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से स्थित कार्यों हेतु संवेदकों से निर्धारित प्रथम में ई-प्रोक्वेस्ट प्रक्रिया से स्थित कार्यों हेतु ऑन लाइन बिक आमंत्रित की गई है। इन कार्यों की अनुमानित लागत, बिड भेजे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, बिड शर्त आदि का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>, www.jodhpurjda.org, www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।

NIB Code: JOD2425A0070
UBN No.: JOD2425WSOB00165
रज.सं.वा.द./सी/24/5414 अधिशाषी अभियन्ता (उत्तर-बी)

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान
No. F-2(01)Acc/Contract/2024-25/320-322 Date: 20-09-2024

ई-निविदा सूचना संख्या

उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी ई-निविदा सूचना संख्या: 27/2024-25 के निविदा कार्य संख्या- 01 (Construction of BT Roads in A-Block (Near R-1) South Extension Scheme.) की तिथियों में अप्रतिबंधित कार्यों से निम्नानुसार संयोग किया गया है, ऑनलाइन निविदा प्रपत्र डाउनलोड / डाउनलोड एवं EMD, Tender Fee & Processing Fee Online दिनांक: 08-10-2024 को सायं 6:00 बजे तक जमा की जा सकेगी एवं दिनांक: 09-10-2024 को प्रातः 11.00 बजे खोली जावेगी। अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

अधिशाषी अभियन्ता-प्रथम
उदयपुर विकास प्राधिकरण
राज.सं.वा.द./सी/24/5488

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा
बैंगलोर, कांठ रोड, कोटा 324001 (रज.) Date :- 19/09/2024

निविदा सूचना संख्या 06/2024-25

NIB code AUK2425A0036 and UBN is: AUK2425WSOB00059
NIB code AUK2425A0036 and UBN is: AUK2425WSOB00060
NIB code AUK2425A0036 and UBN is: AUK2425WSOB00062
NIB code AUK2425A0036 and UBN is: AUK2425WSOB00063

कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार के अभियान्त्रिकी विभागों में वैद्य पंजीकृत एवं आवश्यक योग्यताधारी संवेदकों से ई-टेंडरिंग के माध्यम से प्रपत्र में आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट <http://aukota.org>, eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। यह निविदा दिनांक 19.09.2024 को 6:00 बजे पूर्वान्ह से 30.09.2024 सायं 5:00 बजे तक देवी जावेगी।

रज.सं.वा.द./सी/24/5427 सहायक अधिशाषी

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड नैनवा
क्रमांक :- 856 दिनांक :- 17.9.2024

निविदा सूचना संख्या: 03/2024.2.5

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से सा.नि.वि. खण्ड नैनवा के अन्तर्गत सखम मरम्मत कार्य के लिये शर्त क्र. 295.05 के उपर्युक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संवेदकों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/दाक एवं दूर संचार विभाग / रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्माण कार्य हेतु निर्धारित प्रथम में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया ऑन लाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण डॉआरडीआर की वेबसाइट <http://rajswas.nic.in> पर देखा जा सकता है। NIB NO. NRH2425WSOB08011

S.NO.	UBN NO.
1	PWD2425WSOB08589
2	PWD2425WSOB08590
3	PWD2425WSOB08591
4	PWD2425WSOB08592
5	PWD2425WSOB08593
6	PWD2425WSOB08594
7	PWD2425WSOB08595

DIPR/C/8857/2024 अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड नैनवा

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
प्रथम तल, स्वास्थ्य भवन, भीमनाल रोड, जालौर दिनांक :- 12.09.2024

ई-निविदा सूचना संख्या 06/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से इस खण्ड के अन्तर्गत विभिन्न चिकित्सालयों पर रु. 178.92 लाख के 4 स्थितियों में उपर्युक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार / केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संवेदकों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/दाक एवं दूर संचार विभाग/रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्माण कार्य हेतु निर्धारित प्रथम में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया ऑन लाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण डॉआरडीआर की वेबसाइट <http://rajswas.nic.in> पर देखा जा सकता है। NIB NO. NRH2425WSOB08011

1. NRH2425WSOB08011
2. NRH2425WSOB08012
3. NRH2425WSOB08013
4. NRH2425WSOB08014

(राजवासी सिंह कछवाहा)
अधिशाषी अभियन्ता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जालौर
DIPR/C/8859/2024

Office of The Program Officer (EGS) Cum BDO Panchayat Samiti Sayla (Jalore)
No.- 373 Date- 17.09.2024

Notice of Inviting Bid

Bid for Supply Work of Material and Equipments & Work tenders for various work as below are invited from interested bidders under various Gram Panchayats of Panchayat samiti sayla. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://proc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.raj.nic.in>) of the state, and notice board of this office.

Name of Gram panchayat	approximate value of the procurement	UBIN
Pantheri	100.00 Lakh	ZJR2425GLRC00588
Alasan	80.00 Lakh	ZJR2425GLRC00592
Revra	100.00 Lakh	ZJR2425GLRC00591
Taliyana	50.00 Lakh	ZJR2425GLRC00589
Walera	60.00 Lakh	ZJR2425GLRC00583

DIPR/C/8864/2024 Programme Officer (EGS) Cum BDO Panchayat Samiti Sayla (Jalore)

कार्यालय नगर परिषद डूंगरपुर (राज.)
क्रमांक :- विभा/न.उ.ई/2024-25/2901 दिनांक :- 19/09/2024

ई-निविदा सूचना संख्या 18/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से यह विकेट लाइबिलिटी अवधि के लिये राजस्थान सरकार के "ए" एवं "बी" एवं सी, डी श्रेणी के संवेदकों एवं केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार व अनुभवी व्यक्तियों उनके अधिकृत संवेदनों में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार एवं "ए" एवं "बी", सी,डी के समकक्ष हो एवं अनुभवी संवेदक निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई-प्रोक्वेस्ट प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> / www.sppp.raj.gov.in पर उपलब्ध है।

NIB Code: DLB2425A2663

कुल निविदा के कार्य	कार्य
निविदा की लागत	15.00 लाख
कुल धरोहर राशि	अनुमानित लागत की दो प्रतिशत 30,000/-
ऑन लाइन निविदा फार्म मिलने की तारीख	20.09.2024 प्रातः 11.00 बजे तक
ऑन लाइन निविदा फार्म जमा करने की तारीख	20.09.2024 प्रातः 11.00 बजे तक
कार्यालय में डी.डी.जमा करने की तारीख	01.10.2024 सायं 6.00 बजे तक
ऑन लाइन निविदा खोलने की तारीख	02.10.2024 प्रातः 09.00 बजे तक

रज.सं.वा.द./सी/24/5420 सहायकी अनुपमा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सिक्करा (दौसा)
क्रमांक प्रा./निविदा/2024-25/2783 दिनांक: 15.09.2024

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या 09/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए राज्य/केन्द्र सरकार के अभियान्त्रिकी विभाग उपक्रमों में समक्ष श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निम्नानुसार निर्धारित प्रथम में निम्न कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा की कुल लागत राशि 159.10 लाख

ऑनलाइन निविदा फार्म मिलने की तारीख 20 सितम्बर 2024 (शुक्रवार) से 26 सितम्बर 2024 (गुरुवार), सायं 6:00 बजे तक,

ऑनलाइन निविदा फार्म जमा करने की तारीख 20 सितम्बर 2024 (शुक्रवार) से 26 सितम्बर 2024 (गुरुवार), सायं 6:00 बजे तक,

ऑनलाइन निविदा खोलने की तारीख 27.09.2024 (शुक्रवार)

निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट <http://www.dipronline.org> पर एवं निविदा इस्तखेज का विवरण <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> एवं sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है। सम्पूर्ण ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर सम्पादित की जायेगी।

S.N.	NIB code	UBN NO.
1	PWD2425A1612	PWD2425WSOB05809
2	PWD2425A1612	PWD2425WSOB05810
3	PWD2425A1612	PWD2425WSOB05811
4	PWD2425A1612	PWD2425WSOB05812

(राजेश कुमार मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड सिक्करा
DIPR/C/8848/2024

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड द्वितीय, बीकानेर
पी.एच.ई.डी. के.एम., इण्डस्ट्रियल परियोजना, के.जी. कॉम्प्लेक्स के पास, रामबाजार, बीकानेर (334001)
फोन. 0151-2226475 ई-मेल phedtribk@gmail.com,
eediv2.bik.phed@rajasthan.gov.in latitude 28.005250 longitude 73.324910

क्रमांक :- 3400-19 दिनांक 12.09.2024

ई-बोली सूचना संख्या:- 48 से 49/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्माण कार्य हेतु निर्धारित प्रथम में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया ऑन लाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। यह निविदा वेबसाइट <http://www.sppp.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है तथा बोली प्रपत्र <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है एवं सायं 06.00 बजे तक डाउनलोड किये जा सकते हैं तथा ऑनलाइन निविदा दिनांक की अपेक्षा दिनांक 26.09.2024 को सायं 06.00 बजे तक रहेगी, अन्य शर्तें दिनांक 27.09.2024 को उपलब्ध 01.00 बजे ऑनलाइन खोली जायेगी।

Egrass/electronic government receipt accounting system web site <https://egrasraj.nic.in> के माध्यम से बोली शुरू बटन पर 0075-00-800-52-01, पहलू शर्त बटन पर 8443-00-108-00-00 बोलिका "23810- Executive Engineer, PHEd, District II, Bikaner" के नाम से एवं ई-प्रोक्वेस्ट प्रक्रिया शुरू बटन पर 8658-00-102-16-02 बोलिका Managing Director, RISL Payable at Jalpur के नाम से एक ही खातन से जमा करवाना आवश्यक होगा कुल 2 कार्य हैं जिसकी कुल लागत 238.01 लाख रुपये है जिनमें एक कार्य की अधिकतम लागत रुपये 119.60 लाख है।

बोली संख्या	UBN	UBN
एफपीपी/कोड संख्या	PHE2425WSOB04624	PHE2425WSOB04625

(राजेश कुमार मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियानिक विभाग,
जिला ग्रामीण खण्ड-II, बीकानेर
DIPR/C/8783/2024

शतरंज ओलिंपियाड-भारतीय पुरुष टीम का दबदबा जारी, महिलाओं को मिली पहली हार

बुडापेस्ट, 20 सितम्बर। भारतीय पुरुष टीम ने 45वें शतरंज ओलिंपियाड के आठवें दौर में यहां इरान के खिलाफ 3.5-0.5 से शानदार जीत दर्ज करते हुए स्वर्ण पदक पर अपना दावे को और मजबूत कर लिया लेकिन महिलाओं को पोलैंड के हाथों 1.5-2.5 से चौकाने वाली हार का सामना करना पड़ा। भारतीय महिला टीम को यह प्रतियोगिता में पहली हार है।



आक्रामक शुरूआत कर बर्दिद्या दानेश्वर को पराजित किया। आगामी विश्व चैंपियनशिप के चैंलेंजर डी. कुकेन ने शुरूआती टाइम कंट्रोल में ही इरान के परम मधसूदरूल को हरा दिया।

मात देकर टीम की जीत में अंकों का इजाफा किया। अपने आठ मुकाबलों में व्यक्तिगत 7.5 अंकों को एलिना कारालिस्काया और क्रमिका सोको से अपनी अपनी बाजियां हार गयीं। दिव्या देशमुख ने एल्केजेंडा मार्टसेव्स्काया को हराकर मुकाबले में



मुख्यमंत्री भजनलाल ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों से चर्चा की।

सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से अपने अनुभव साझा किये

राइजिंग राजस्थान समिट पर भारतीय प्रशासनिक तथा पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से चर्चा की

जयपुर, 20 सितम्बर। शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर "राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट" के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को सेवा-काल के दौरान लोक सेवक के रूप में विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव प्राप्त होता है। इनके अनुभवों के आधार पर प्राप्त महत्वपूर्ण सुझाव प्रदेश में निवेश को बढ़ाने में निर्णायक साबित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए बेहतर अवसरों का निर्माण किया जाए। इसी क्रम में प्रदेश में "राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट"

■ इस चर्चा में पूर्व अधिकारी चंद्रमोहन मीणा, रवि माथुर, पुरुषोत्तम अग्रवाल, ललित पवार, श्रीमंत पांडे, श्याम अग्रवाल, दीपक उप्रेती, मुकेश शर्मा, संजय दीक्षित, राजेश्वर सिंह, डी.बी. गुप्ता, बिनू गुप्ता व अजीत सिंह शामिल थे।

का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट के माध्यम से निवेश के साथ ही रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सकेगी एवं राजस्थान देश में अग्रणी राज्य बनेगा।

उल्लेखनीय है कि 9 से 11 दिसम्बर तक आयोजित होने वाली "राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट" में देश-विदेश के प्रसिद्ध उद्योगपति, औद्योगिक समूह, विभिन्न देशों के व्यापारिक एवं राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल इत्यादि

सम्मिलित होंगे। इस समिट की पूर्ण गतिविधियों के रूप में अंतरराष्ट्रीय रोडशो, कॉन्फ्रेंस, राउंडटेबल्स तथा विभागों के साथ प्री-समिट आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में साउथ कोरिया, जापान, यू.ए.ई. एवं कतर में भी इन्वेस्टमेंट मीट आयोजित की जा चुकी है। साथ ही, प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों, राज्यों, केन्द्रीय मंत्रालयों एवं पी.एस.यू. से सम्बन्धित करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

इस अवसर पर भारतीय प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों ने राइजिंग राजस्थान व निवेश संवर्द्धन को लेकर अपने अनुभव एवं सुझाव साझा किए। इन अधिकारियों में चन्द्रमोहन मीणा, रवि माथुर, पुरुषोत्तम अग्रवाल, ललित के. पवार, श्रीमंत पांडे, श्याम अग्रवाल, दीपक उप्रेती, मुकेश शर्मा, संजय दीक्षित, राजेश्वर सिंह, डी.बी. गुप्ता, श्रीमती बिनू गुप्ता एवं अजीत सिंह शामिल थे।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताम शर्मा एवं प्रमुख शासन सचिव (मुख्यमंत्री) आलोक गुप्ता सहित उद्योग विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद थे।

चार किलोमीटर लम्बा जुलूस निकाल डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ली

पश्चिम बंगाल, 20 सितंबर। जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने का ऐलान किया है। शनिवार से सभी जूनियर डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में अपनी सेवाएं देना शुरू करेंगे।

पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की बलात्कार के

■ डॉक्टरों की घोषणा : ओ.पी.डी. नहीं करेंगे, आपातकालीन व आवश्यक सेवाओं में काम करेंगे

बाद हत्या की घटना को लेकर आंदोलन कर रहे थे। डॉक्टरों ने शुक्रवार शाम को अपना "काम बंद" वापस ले लिया और शनिवार से सरकारी अस्पतालों में आवश्यक सेवाएं देने के लिए आंशिक रूप से ड्यूटी पर लौटने की घोषणा की।


डॉक्टरों ने 42 दिनों से जारी गतिरोध को समाप्त करते हुए राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय से सॉल्ट लेक स्थित सीबीआई कार्यालय तक मार्च निकालने के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली। वे स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय पर एक हफ्ते से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे थे।

पुलिस थाने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) डॉक्टर हैं तो वो सुरक्षित नहीं हैं, यदि वो 9 से 5 तक काम करने वाली महिलाएं हैं तो वो सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए पहले इस स्थिति को भाजपा को स्वीकार करना होगा।

उत्तर प्रदेश में रैप पीडित महिला की हत्या के बारे में पूछ गए प्रश्न पर उन्होंने कहा, पीडित महिला अपनी मौं और भाई के साथ जा रही थी, जब जेल से छूटे एक आदमी ने उस पर गोली चला दी। क्या आप इस यू.पी. मॉडल का उपयोग कर रहे हैं। अपराध के लिए सजा काट रहे बलात्कारी ने जेल से बाहर आते ही लड़की की हत्या कर दी। श्रीनेत ने पूछा, देश में महिलाएं कहाँ पर सुरक्षित हैं? उन्होंने कहा, वो नहीं जानती कि यदि रैप पीडिता पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज नहीं कर सकती तो वो कहाँ जाएं?

भाजपा नेतृत्व राहुल के खिलाफ हिंसक बयानों के लिये माफी मांगे- पायलट



पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट टोक के कांग्रेसजनों द्वारा आयोजित धरने में शामिल हुए। यह घटना राहुल गांधी के खिलाफ की गई हिंसक बयानबाजी के विरोध में आयोजित किया गया।

■ इस मुद्दे पर जिला कांग्रेस कमिटी टोक द्वारा आयोजित धरने को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबराकर भाजपा नेता हिंसक बयान दे रहे हैं। जिला कांग्रेस कमिटी टोक के राष्ट्रीय नेता व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए मोदी सरकार के मंत्री एवं भाजपा नेताओं की हिंसक बयानबाजी के खिलाफ धरना-विरोध प्रदर्शन किया गया। धरने को सम्बोधित करते हुए ए.आई.सी.सी. महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी तथा टोक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा नेता राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबरा गये हैं और बोखलाहट में हिंसक बयान दे रहे हैं। जनता से किये जा रहे भाजपा सरकार पूरे नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि 100 दिनों में भाजपा सरकार ने जनहित में कोई कार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व को राहुल गांधी के खिलाफ दिये गये हिंसक बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए।

प्रदेश उपाध्यक्ष रामबालास चौधरी ने कहा कि भाजपा नेता बेरोजगारी, कानून व्यवस्था तथा विकास पर कोई बात नहीं करते। जिलाध्यक्ष हरि प्रसाद बैरवा ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सहित अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा पूरी तरह हार रही है। देश की जनता ने इन्हें नकार दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गरीब, मजदूर, किसान,

इस मुद्दे पर जिला कांग्रेस कमिटी टोक द्वारा आयोजित धरने को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबराकर भाजपा नेता हिंसक बयान दे रहे हैं।

युवाओं को आवाज उठाते हैं। हिंसक बयानबाजी देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। राजनीति में एक मर्यादा का होना बहुत जरूरी है।

पूर्व प्रवक्ता जरीर खान ने बताया कि धरने को पूर्व विधायक कमल बैरवा, पूर्व जिलाध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी गाता, महेन्द्र सिंह खेड़ी, मालपुरा ब्लॉक अध्यक्ष गोगाराम चौधरी, पीपुल्स ब्लॉक अध्यक्ष जयनारायण मीणा, कमलेश चावला, सेवादल अध्यक्ष अब्दुल खालिक, धमनद सालोदिया, युवा कांग्रेस अध्यक्ष हंसराज गुर्जर, महावीर तोगड़ा, इन्डियान खान, महसान बाबा, कैलाशी देवी मीणा, मोहम्मद शकील, शकीलुर्रहमान खान, अवेधश शर्मा, युसुफ इंसियर, राशन डिलर शकील,

छोगालाल गुर्जर आदि ने सम्बोधित किया। इससे पूर्व सचिन पायलट का टोक पहुंचने पर कांग्रेस जनों ने स्वागत किया, वहीं छावनी चौपहे पर अकबर खान ने परम्परागत रूप से 51 किलो फूलों की माला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ पायलट का स्वागत किया। पायलट ने इस दौरान विरोध गांव में पहुंचकर नवनिर्मित अम्बेडकर भवन व यात्री प्रतिकालय का लोकार्पण किया तथा मोलाईपुरा ग्राम के राजकीय उच्च माध्य विद्यालय के परिसर में निर्माण किये गये दो कक्षा कक्षों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य माया सुवालका, हंसराज फागणा, हंसराज गाता, फोजुगम मीणा, पंकज यादव, रामदेव गुर्जर, आतिफ नरकवी, सम्पत गुर्जर, अजमल देवपुरा, शिवजीराम मीणा, हकीम रामलाल सेनी, नईम ओपेलो, सतवीर गुर्जर, सलीम नरकवी, देवराज छान, मूलचन्द बैरवा, हनुमान यादव, इश्राद खान सेवालद, अरशद चिश्ती, जावेद चिश्ती, रशीद इंटक, सआदत नरकवी, मासूम अली सेवालद, शोकल हुसेन सेवालद, राहुल सेनी, अशोक महावर, सीपी श्रीवास्तव आदि के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता धरने एवं विरोध प्रदर्शन में उपस्थित रहे।

जैसलमेर के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सुविमल, अभिषेक और राहुल कुमार बताए जा रहे हैं।

उदय और अभिषेक की हालत थोड़ी गंभीर है, जबकि सुविमल और राहुल ठीक हैं। पोकरण अस्पताल में करीब डेढ़ घंटा इलाज के बाद एहतियातन चारों जवानों को जोधपुर रेफर कर दिया गया। जवानों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के महत्वपूर्ण मामलों में अपनी कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम करने का फैसला किया था।

कोर्ट ने माना था कि लाइव स्ट्रीमिंग की कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत न्याय तक पहुंचने के अधिकार का हिस्सा है। कोर्ट सुनवाई को लाइव स्ट्रीम करने के लिए यूट्यूब का उपयोग कर रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आर.जी. कर मेंडिकल कॉलेज व अस्पताल में महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या मामले की सुनवाई को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया था।

बस खाई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया है। गंदेबल, श्रीनगर, बडगाम, रियासी, राजौरी और पुंछ जिलों में 26 विधानसभा क्षेत्रों में 25 सितंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा। दूसरे चरण में करमौर क्षेत्र की 15 और जम्मू क्षेत्र 11 की विधानसभा सीटों पर मतदान अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।

स्मृति ईरानी होंगी, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जवाब के रूप में उभरा है। भाजपा के लिये, एक अन्य संभावना के रूप में, नवनिर्वाचित सांसद बाँसुरी को भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन पहली बार सांसद बनी बाँसुरी के साथ मुश्किल यह है कि उनके पास पार्टी कार्यकर्ताओं तथा नेताओं को साथ लेकर चलने के अनुभव एवं कौशल का अभाव है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री के संभावित चेहरे पर चर्चा करने के लिए भाजपा दो मीटिंग कर चुकी है। पहली मीटिंग बुन्दवान में तथा दूसरी मीटिंग दीन दयाल उपाध्याय मार्ग स्थित पार्टी मुख्यालय पर हुई थी।

समझा जाता है कि इस संबंध में अंतिम निर्णय रणथम्भौर में होने वाली वरिष्ठ भाजपा नेताओं की मीटिंग में लिया जायेगा। इस मीटिंग की तिथियाँ अभी तय नहीं हुई हैं।

तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत

■ अजमेर में 6 मिनट घूमने गये थे। वापस लौटते समय दोपहर में नारेली हाइवे पर पुलिस चौकी के पास कार तेज रफ्तार के साथ डिवाइडर से टकरा गई।

अजमेर, 20 सितम्बर (कास)। अजमेर शहर के अलवरगोट पुलिस थाना इलाके में स्थित नारेली हाइवे पर पुलिस चौकी के सामने शुक्रवार दोपहर को तेज गति से आ रही एक कार डिवाइडर से टकरा गई, टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में 6 युवक सवार थे, जिनमें से तीन युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी युवकों को जवाहर लाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने गहन जांच के बाद गुवारडी निवासी प्रकाश रावत, देवनगर निवासी संजय गुर्जर व बासेली निवासी मनीष मेघवंशी को मृत घोषित कर जेएलएन के मुर्दाघर भिजवा दिया और गंभीर रूप से घायल पवन गुर्जर देवनगर निवासी, पप्पू राम देवनगर निवासी सहित मोतीसर निवासी आकाश रावत को भर्ती कर चिकित्सकों ने उपचार शुरू कर दिया है।

अलवरगोट थाना पुलिस के मुताबिक, प्रकाश रावत, संजय गुर्जर,

अजमेर में 6 मिनट घूमने गये थे। वापस लौटते समय दोपहर में नारेली हाइवे पर पुलिस चौकी के पास कार तेज रफ्तार के साथ डिवाइडर से टकरा गई।

मनीष, पप्पू राम, पवन गुर्जर व आकाश रावत दोस्त बना जा रहे हैं, जो कहीं घूमने के लिए गए हुए थे। वापस अजमेर लौटते समय कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार बेकाबू होकर नारेली हाइवे पर पुलिस चौकी के सामने डिवाइडर से टकरा गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने तुरंत हादसे की सूचना अलवरगोट थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से सभी घायलों को बड़ी मशकत के बाद कार से बाहर निकाला। अलवरगोट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

भारत का पहला मानव अंतरिक्षयान इस वर्ष प्रक्षेपित होगा

बेंगलुरु, 20 सितंबर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पहले मानव अंतरिक्षयान की तैयारी पूरी होने वाली है और यह 2024 के अंत तक प्रक्षेपित हो सकता है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने शुक्रवार को यहां एक अंतरिक्ष प्रदर्शनी में कहा कि गगनयान मिशन की तैयारियां पूरी होने वाली हैं। सोमनाथ ने कहा, गगनयान प्रक्षेपण के लिए तैयार है और हम इस साल के अंत तक इसे प्रक्षेपित करने का लक्ष्य बना रहे हैं।

गौरवलेक है कि इस मिशन से भारत दुनिया के उन देशों के समूह में शामिल हो जाएगा, जो मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम हुए हैं। गगनयान को 2018 में मंजूरी दी गई थी और अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने का भारत का पहला प्रयास है।

उन्होंने कहा कि यह मिशन भारत की, खुद को एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करने की व्यापक महत्वाकांक्षाओं की भी दर्शाता है। सरकार की मंजूरी के बाद, इसरो को दीर्घकालिक योजनाओं में 2035 तक देश का पहला अंतरिक्ष केंद्र (भारतीय अंतरिक्ष केंद्र) विकसित करना और 2040 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चालक दल के साथ चंद्र मिशन पर भेजना शामिल है।

कैबिनेट मंत्री हेमन्त मीणा भी राजस्थान क्रिकेट की राजनीति में उतरे

मीणा प्रतापगढ़ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने

■ भाजपा के कई नेताओं के पुत्र क्रिकेट की राजनीति में सक्रिय हो गये हैं। इनमें राजेन्द्र राठौड़ के पुत्र, पराक्रम खींवर के पुत्र धनंजय सिंह, घनश्याम तिवाड़ी के पुत्र आशीष, पवन दिलावर के पुत्र पवन तथा जसवंत यादव के पुत्र मोहित प्रमुख हैं।

जयपुर, 20 सितंबर। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमन्त मीणा ने भी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सियासी रण में एंट्री ले ली है। शुक्रवार को प्रतापगढ़ जिला क्रिकेट संघ के चुनाव का आयोजन हुआ। इसमें कैबिनेट मंत्री हेमन्त मीणा जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और भाजपा नेता पंचिस पोरवाल जिला क्रिकेट संघ के सचिव निर्वाचित हुए। इसी तरह, अलवर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव का भी आज आयोजन किया गया। इसमें भाजपा विधायक जसवंत यादव के बेटे मोहित यादव अध्यक्ष पद पर काबिज हुए।

खेल संघ में एंट्री के लिए सबसे पहले जिला स्तर पर रजिस्टर्ड क्लब में सदस्य बनना पड़ता है। इसके बाद जिला स्तर पर चुनाव का आयोजन होता है, जिसमें जिले में रजिस्टर्ड सभी क्लब के पदाधिकारी वोटिंग करते हैं। उसके बाद जिला क्रिकेट संघ की कार्यकारिणी का गठन होता है।

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कार्यकारिणी के कुल 13 साल का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। तब परिजनों ने तलाश शुरू की। करीब 2 घंटे बाद पता चला कि बच्ची को दुकान जाते समय गांव के ही सुरेश पुत्र हंसराज, राजू उर्फ राजकुमार पुत्र शंकर और मोनू उर्फ नवजोत सिंह पुत्र गुरमीत सिंह कार में फिटनेप कर ले गए। कुछ देर बाद गांव में एक कार नजर आई। कार के शीशे में से बच्ची नजर आने पर कार को रूकवाया गया। मौके पर जब गांव के लोग एकत्रित हो गए तो आरोपी भाग निकले। पूछताछ में बच्ची ने बताया कि तीनों आरोपियों ने उसके साथ बारी-बारी से रैप किया। जांच अधिकारी सीओ ग्रामीण अनुपम मिश्रा ने बताया कि बच्ची के पचान दर्ज कर मामले में जांच आगे बढ़ाई जायेगी।

कर्नाटक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) रहे हैं। इसमें वे महिला वकील से यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि लगता है वो "प्रति वादी" के बारे में बहुत ज्यादा जानती है कि इतना कि उनके आंतरिक वस्त्रों का भी बता सकती हैं।

जयपुर, 20 सितंबर। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमन्त मीणा ने भी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सियासी रण में एंट्री ले ली है। शुक्रवार को प्रतापगढ़ जिला क्रिकेट संघ के चुनाव का आयोजन हुआ। इसमें कैबिनेट मंत्री हेमन्त मीणा जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और भाजपा नेता पंचिस पोरवाल जिला क्रिकेट संघ के सचिव निर्वाचित हुए। इसी तरह, अलवर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव का भी आज आयोजन किया गया। इसमें भाजपा विधायक जसवंत यादव के बेटे मोहित यादव अध्यक्ष पद पर काबिज हुए।

खेल संघ में एंट्री के लिए सबसे पहले जिला स्तर पर रजिस्टर्ड क्लब में सदस्य बनना पड़ता है। इसके बाद जिला स्तर पर चुनाव का आयोजन होता है, जिसमें जिले में रजिस्टर्ड सभी क्लब के पदाधिकारी वोटिंग करते हैं। उसके बाद जिला क्रिकेट संघ की कार्यकारिणी का गठन होता है।

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कार्यकारिणी के कुल 13 साल का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। तब परिजनों ने तलाश शुरू की। करीब 2 घंटे बाद पता चला कि बच्ची को दुकान जाते समय गांव के ही सुरेश पुत्र हंसराज, राजू उर्फ राजकुमार पुत्र शंकर और मोनू उर्फ नवजोत सिंह पुत्र गुरमीत सिंह कार में फिटनेप कर ले गए। कुछ देर बाद गांव में एक कार नजर आई। कार के शीशे में से बच्ची नजर आने पर कार को रूकवाया गया। मौके पर जब गांव के लोग एकत्रित हो गए तो आरोपी भाग निकले। पूछताछ में बच्ची ने बताया कि तीनों आरोपियों ने उसके साथ बारी-बारी से रैप किया। जांच अधिकारी सीओ ग्रामीण अनुपम मिश्रा ने बताया कि बच्ची के पचान दर्ज कर मामले में जांच आगे बढ़ाई जायेगी।

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कार्यकारिणी के कुल 13 साल का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। तब परिजनों ने तलाश शुरू की। करीब 2 घंटे बाद पता चला कि बच्ची को दुकान जाते समय गांव के ही सुरेश पुत्र हंसराज, राजू उर्फ राजकुमार पुत्र शंकर और मोनू उर्फ नवजोत सिंह पुत्र गुरमीत सिंह कार में फिटनेप कर ले गए। कुछ देर बाद गांव में एक कार नजर आई। कार के शीशे में से बच्ची नजर आने पर कार को रूकवाया गया। मौके पर जब गांव के लोग एकत्रित हो गए तो आरोपी भाग निकले। पूछताछ में बच्ची ने बताया कि तीनों आरोपियों ने उसके साथ बारी-बारी से रैप किया। जांच अधिकारी सीओ ग्रामीण अनुपम मिश्रा ने बताया कि बच्ची के पचान दर्ज कर मामले में जांच आगे बढ़ाई जायेगी।

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कार्यकारिणी के कुल 13 साल का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। तब परिजनों ने तलाश शुरू की। करीब 2 घंटे बाद पता चला कि बच्ची को दुकान जाते समय गांव के ही सुरेश पुत्र हंसराज, राजू उर्फ राजकुमार पुत्र शंकर और मोनू उर्फ नवजोत सिंह पुत्र गुरमीत सिंह कार में फिटनेप कर ले गए। कुछ देर बाद गांव में एक कार नजर आई। कार के शीशे में से बच्ची नजर आने पर कार को रूकवाया गया। मौके पर जब गांव के लोग एकत्रित हो गए तो आरोपी भाग निकले। पूछताछ में बच्ची ने बताया कि तीनों आरोपियों ने उसके साथ बारी-बारी से रैप किया। जांच अधिकारी सीओ ग्रामीण अनुपम मिश्रा ने बताया कि बच्ची के पचान दर्ज कर मामले में जांच आगे बढ़ाई जायेगी।

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कार्यकारिणी के कुल 13 साल का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। तब परिजनों ने तलाश शुरू की। करीब 2 घंटे बाद पता चला कि बच्ची को दुकान जाते समय गांव के ही सुरेश पुत्र हंसराज, राजू उर्फ राजकुमार पुत्र शंकर और मोनू उर्फ नवजोत सिंह पुत्र गुरमीत सिंह कार में फिटनेप कर ले गए। कुछ देर बाद गांव में एक कार नजर आई। कार के शीशे में से बच्ची नजर आने पर कार को रूकवाया गया। मौके पर जब गांव के लोग एकत्रित हो गए तो आरोपी भाग निकले। पूछताछ में बच्ची ने बताया कि तीनों आरोपियों ने उसके साथ बारी-बारी से रैप किया। जांच अधिकारी सीओ ग्रामीण अनुपम मिश्रा ने बताया कि बच्ची के पचान दर्ज कर मामले में जांच आगे बढ़ाई जायेगी।

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कार्यकारिणी के कुल 13 साल का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। तब परिजनों ने तलाश शुरू की। करीब 2 घंटे बाद पता चला कि बच्ची को दुकान जाते समय गांव के ही सुरेश पुत्र हंसराज, राजू उर्फ राजकुमार पुत्र शंकर और मोनू उर्फ नवजोत सिंह पुत्र गुरमीत सिंह कार में फिटनेप कर ले गए। कुछ देर बाद गांव में एक कार नजर आई। कार के शीशे में से बच्ची नजर आने पर कार को रूकवाया गया। मौके पर जब गांव के लोग एकत्रित हो गए तो आरोपी भाग निकले। पूछताछ में बच्ची ने बताया कि तीनों आरोपियों ने उसके साथ बारी-बारी से रैप किया। जांच अधिकारी सीओ ग्रामीण अनुपम मिश्रा ने बताया कि बच्ची के पचान दर्ज कर मामले में जांच आगे बढ़ाई जायेगी।

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कार्यकारिणी के कुल 13 साल का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। तब परिजनों ने तलाश शुरू की। करीब 2 घंटे बाद पता चला कि बच्ची को दुकान जाते समय गांव के ही सुरेश पुत्र हंसराज, राजू उर्फ राजकुमार पुत्र शंकर और मोनू उर्फ नवजोत सिंह पुत्र गुरमीत सिंह कार में फिटनेप कर ले गए। कुछ देर बाद गांव में एक कार नजर आई। कार के शीशे में से बच्ची नजर आने पर कार को रूकवाया गया। मौके पर जब गांव के लोग एकत्रित हो गए तो आरोपी भाग निकले। पूछताछ में बच्ची ने बताया कि तीनों आरोपियों ने उसके साथ बारी-बारी से रैप किया। जांच अधिकारी सीओ ग्रामीण अनुपम मिश्रा ने बताया कि बच्ची के पचान दर्ज कर मामले में जांच आगे बढ़ाई जायेगी।

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कार्यकारिणी के कुल 13 साल का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। तब परिजनों ने तलाश शुरू की। करीब 2 घंटे बाद पता चला कि बच्ची को दुकान जाते समय गांव के ही सुरेश पुत्र हंसराज, राजू उर्फ राजकुमार पुत्र शंकर और मोनू उर्फ नवजोत सिंह पुत्र गुरमीत सिंह कार में फिटनेप कर ले गए। कुछ देर बाद गांव में एक कार नजर आई। कार के शीशे में से बच्ची नजर आने पर कार को रूकवाया गया। मौके पर जब गांव के लोग एकत्रित हो गए तो आरोपी भाग निकले। पूछताछ में बच्ची ने बताया कि तीनों आरोपियों ने उसके साथ बारी-बारी से रैप किया। जांच अधिकारी सीओ ग्रामीण अनुपम मिश्रा ने बताया कि बच्ची के पचान दर्ज कर मामले में जांच आगे बढ़ाई जायेगी।

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कार्यकारिणी के कुल 13 साल का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। तब परिजनों ने तलाश शुरू की। करीब 2 घंटे बाद पता चला कि बच्ची को दुकान जाते समय गांव के ही सुरेश पुत्र हंसराज, राजू उर्फ राजकुमार पुत्र शंकर और मोनू उर्फ नवजोत सिंह पुत्र गुरमीत सिंह कार में फिटनेप कर ले गए। कुछ देर बाद गांव में एक कार नजर आई। कार के शीशे में से बच्ची नजर आने पर कार को रूकवाया गया। मौके पर जब गांव के लोग एकत्रित हो गए तो आरोपी भाग निकले। पूछताछ में बच्ची ने बताया कि तीनों आरोपियों ने उसके साथ बारी-बारी से रैप किया। जांच अधिकारी सीओ ग्रामीण अनुपम मिश्रा ने बताया कि बच्ची के पचान दर्ज कर मामले में जांच आगे बढ़ाई जायेगी।

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कार्यकारिणी के कुल 13 साल का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। तब परिजनों ने तलाश शुरू की। करीब 2 घंटे बाद पता चला कि बच्ची को दुकान जाते समय गांव के ही सुरेश पुत्र हंसराज, राजू उर्फ राजकुमार पुत्र शंकर और मोनू उर्फ नवजोत सिंह पुत्र गुरमीत सिंह कार में फिटनेप कर ले गए। कुछ देर बाद गांव में एक कार नजर आई। कार के शीशे में से बच्ची नजर आने पर कार को रूकवाया गया। मौके पर जब गांव के लोग एकत्रित हो गए तो आरोपी भाग निकले। पूछताछ में बच्ची ने बताया कि तीनों आरोपियों ने उसके साथ बारी-बारी से रैप किया। जांच अधिकारी सीओ ग्रामीण अनुपम मिश्रा ने बताया कि बच्ची के पचान दर्ज कर मामले में जांच आगे बढ़ाई जायेगी।

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कार्यकारिणी के कुल 13 साल का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। तब परिजनों ने तलाश शुरू की। करीब 2 घंटे बाद पता चला कि बच्ची को दुकान जाते समय गांव के ही सुरेश पुत्र हंसराज, राजू उर्फ राजकुमार पुत्र शंकर और मोनू उर्फ नवजोत सिंह पुत्र गुरमीत सिंह कार में फिटनेप कर ले गए। कुछ देर बाद गांव में एक कार नजर आई। कार के शीशे में से बच्ची नजर आने पर कार को रूकवाया गया। मौके पर जब गांव के लोग एकत्रित हो गए तो आरोपी भाग निकले। पूछताछ में बच्ची ने बताया कि तीनों आरोपियों ने उसके साथ बारी-बारी से रैप किया। जांच अधिकारी सीओ ग्रामीण अनुपम मिश्रा ने बताया कि बच्ची के पचान दर्ज कर मामले में जांच आगे बढ़ाई जायेगी।

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कार्यकारिणी के कुल 13 साल का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। तब परिजनों ने तलाश शुरू की। करीब 2 घंटे बाद पता चला कि बच्ची को दुकान जाते समय गांव के ही सुरेश पुत्र हंसराज, राजू उर्फ राजकुमार पुत्र शंकर और मोनू उर्फ नवजोत सिंह पुत्र गुरमीत सिंह कार में फिटनेप कर ले गए। कुछ देर बाद गांव में एक कार नजर आई। कार के शीशे में से बच्ची नजर आने पर कार को रूकवाया गया। मौके पर जब गांव के लोग एकत्रित हो गए तो आरोपी भाग निकले। पूछताछ में बच्ची ने बताया कि तीनों आरोपियों ने उसके साथ बारी-बारी से रैप किया। जांच अधिकारी सीओ ग्रामीण अनुपम मिश्रा ने बताया कि बच्ची के पचान दर्ज कर मामले में जांच आगे बढ़ाई जायेगी।